

**ONE DATE SLIP**


GOVT. COLLEGE, LIBRARY

# सामान्य अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश

35542

RECEIVED BOOK

राममूर्ति सिंह



प्रकाशक

हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड,  
हीराबाग  
२१ दरियागंज

बम्बई--४  
दिल्ली--६

प्रकाशक

यशोधर मोदी

मैनेजिंग डायरेक्टर,

हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड

हरीरावाग, बम्बई-४

० ०

० ०

प्रथम संस्करण

१९६४

मूल्य : बारह रुपया

० ०

मुद्रक

वी० पी० ठाकुर,

लीडर प्रेस, इलाहाबाद

RESERVED BOOK



## PREFACE

The present English-Hindi dictionary is a general-purpose dictionary comprising words and expressions used in common parlance. It is not, in any way, a dictionary of technical terms pertaining to a particular department or departments of knowledge. The Hindi equivalents included in the dictionary are those commonly used in Hindi speaking areas of the country and are therefore, the easiest and the simplest words available in our language today. People who have some knowledge of Hindi or any other north Indian language should have no great difficulty in following most of the words included in the dictionary. No attempt has been made at ornamentation or at 'coining' new words and phrases. In fact, this has been avoided far as possible and preference has been given to existing words and expressions available in Hindi and other Indian languages. It is a common knowledge that a large number of words of foreign origin, particularly Arabic, Persian and English has gained currency in all Indian languages and now forms part of their vocabulary. Most of these words have been retained.

In many cases more than one Hindi equivalents have been used for one and the same English word included in the dictionary. This has been necessitated for two reasons: firstly, most of the English words convey more than one shade of meaning. Suitable Hindi equivalents have, therefore, been suggested to cover the different shades of meaning in which a particular word is used. Secondly, there are very often two or more than two words available for one and the same English word in our language. All such words have been included where considered necessary.

The dictionary has been compiled primarily with a view to presenting the common man's point of view in regard to the type of language he would like to be used in a democratic set-up and if it succeeds in creating an awareness that the language in a democracy should be the language of the people themselves, my labours will have been amply rewarded.

## Errata

page.	line.	read	for.
11	16	स्नेह	व्रणावट
43	27	व्यवसाय वृद्धि	व्यावसाय वृद्धि
81	33	टिर्वेचर-पत्र	टिर्वेचर
104	12	जल निकास	जल विकास
124	20	उपादान	उपदान
132	21	forbearance	for bearance
134	12	पूर्वोक्त	पूर्वाक्त
230	32	स्पष्ट-कथन	स्पष्ट-करना
253	17	आवश्यकताएं	आवश्यकता
254	2	प्रवल	प्रवल
275	6	प्रभार	प्रकार
279	12	सहायता कार्य	सहायता

abandon <i>vb.</i>	(सम्पत्ति, विचार आदि) छोड़ना, परित्याग करना, वशीभूत होना
abandoned	छोड़ा हुआ, परित्यक्त
abandoned assets	छोड़ी हुई परिसम्पत्तियाँ
abandonment	(i) परित्याग, परित्यजन (ii) असंयम
abate <i>vb.</i>	कम होना, घटना, कम करना, शमन करना
abatement	कमी, घटाव, शमन
abbreviation	संक्षेप
abdicate <i>vb.</i>	गद्दी छोड़ना, राज्य छोड़ना
abdication	गद्दी छोड़ना, राज्य त्याग
abduct <i>vb.</i>	भगा ले जाना, हरण करना, अपहरण करना
abducted	भगायी हुई, अपहृत
abduction	हरण, अपहरण
abet <i>vb.</i>	(अपराध करने के लिए) उसकाना
abettal	उसकाना
abetment	उसकाना
abetment to murder	मार डालने के लिए उसकाना, हत्या के लिए उसकाना
abetter	उसकानेवाला
abeyance	मुलतवी
keep in abeyance	मुलतवी रखना
abhor <i>vb.</i>	घृणा करना, नफ़रत करना
abhorrence	घृणा, नफ़रत
abhorrant	घृणित
abide <i>vb.</i>	(i) पालन करना, (ii) कायम रहना (iii) ठहरना, (iv) स्थिर रहना
abide by rules	नियमों का पालन करना
abiding	स्थायी, स्थिर
abiding interest	स्थायी रुचि
ability	(i) योग्यता (ii) क्षमता (iii) सामर्थ्य
abjure <i>vb.</i>	सशपथ त्याग करना, संत्याग करना
abjurer	संत्यागी
able	योग्य, क़ाबिल, समर्थ

## Errata

page.	line.	read	for.
11	16	स्नेह	वनावट
43	27	व्यवसाय वृद्धि	व्यावसाय वृद्धि
81	33	डिवेंचर-पत्र	डिवेंचर
104	12	जल निकाम	जल विकास
124	20	उपादान	उपदान
132	21	forbearance	for bearance
134	12	पूर्वाक्त	पूर्वाकत
230	32	स्पष्ट-कथन	स्पष्ट-करना
253	17	आवश्यकताएं	आवश्यकता
254	2	प्रवल	प्रवल
275	6	प्रभार	प्रकार
279	12	सहायता कार्य	सहायता

abandon <i>vb.</i>	(सम्पत्ति, विचार आदि) छोड़ना, परित्याग करना, वशीभूत होना
abandoned	छोड़ा हुआ, परित्यक्त
abandoned assets	छोड़ी हुई परिसम्पत्तियाँ
abandonment	(i) परित्याग, परित्यजन (ii) असंयम
abate <i>vb.</i>	कम होना, घटना, कम करना, शमन करना
abatement	कमी, घटाव, शमन
—abbreviation	संक्षेप
abdicate <i>vb.</i>	गद्दी छोड़ना, राज्य छोड़ना
abdication	गद्दी छोड़ना, राज्य त्याग
abduct <i>vb.</i>	भगा ले जाना, हरण करना, अपहरण करना
abducted	भगायी हुई, अपहृत
abduction	हरण, अपहरण
abet <i>vb.</i>	(अपराध करने के लिए) उसकाना
abettal	उसकाना
abetment	उसकाना
abetment to murder	मार डालने के लिए उसकाना, हत्या के लिए उसकाना
abetter	उसकानेवाला
abeyance	मुलतवी
keep in abeyance	मुलतवी रखना
abhor <i>vb.</i>	घृणा करना, नफरत करना
abhorrence	घृणा, नफरत
abhorrant	घृणित
abide <i>vb.</i>	(i) पालन करना, (ii) कायम रहना (iii) ठहरना, (iv) स्थिर रहना
abide by rules	नियमों का पालन करना
abiding	स्थायी, स्थिर
abiding interest	स्थायी रुचि
ability	(i) योग्यता (ii) क्षमता (iii) सामर्थ्य
abjure <i>vb.</i>	सशपथ त्याग करना, संत्याग करना
abjurer	संत्यागी
able	योग्य, क्वाबिल, समर्थ



able-bodied	सशक्त, समर्थवान
abnegate <i>vb.</i>	अधिकार छोड़ना, सर्वत्याग करना, आत्मोत्सर्ग करना
abnegation	अधिकार-त्याग, सर्वत्याग, आत्मोत्सर्ग
abinitio	शुरू से, आरम्भ से, सरेजी
abnormal	असामान्य, अप्राकृत
abnormality	असामान्यता
abnormally	असामान्य रूप से
abode	निवास स्थान
abolish <i>vb.</i>	समाप्त करना, खत्म करना, अन्त करना
abolition	समाप्ति, अन्त, खात्मा
aboriginal	आदिवासियों से सम्बन्धित
aborigines	आदिवासी
abortion	हमल गिरना, गर्भपात
abortion-criminal	आपराधिक गर्भपात
abortion legal	कानूनी गर्भपात, वैध गर्भपात
abortive	निष्फल
abortive (medicine)	गर्भ गिराने वाली दवा, गर्भपाती दवा
abridge <i>vb.</i>	संक्षेप करना
abridged	संक्षिप्त
abridged edition	संक्षिप्त संस्करण
abridgement	संक्षेपण
abrogate <i>vz.</i>	निराकरण करना
abrogation	निराकरण
abrogative	निराकारी
abrogator	निराकर्ता
abrupt	आकस्मिक, असंबद्ध
abruptly	एकाएक, असंबद्ध रूप से
abruptness	असंबद्धता, आकस्मिकता
abscond <i>vb.</i>	फरार होना
absconder	फरार (व्यक्ति)
absence	(i) गैरहाजिरी, अनुपस्थिति (ii) अभाव
absent <i>adj.</i>	गैरहाजिर, अनुपस्थित, अन्यमनस्क
<i>vb.</i>	गैरहाजिर होना, अनुपस्थित होना
absentee	गैरहाजिर, अनुपस्थित व्यक्ति
absentee allowance	अनुपस्थिति भत्ता

absentee statement	अनुपस्थिति विवरण
absolute	निरपेक्ष, परम, पूर्ण, निरंकुश, निर्वाध
absolute majority	पूर्ण बहुमत
absolutely	पूर्णतः, निरपेक्षतः
absolve <i>vb.</i>	जुर्म से वरी करना, दोषमुक्त कराना
absolved	जुर्म से वरी, दोषमुक्त
absorb <i>vb.</i>	सोखना, खपाना, समाहित करना
absorbed	समाहित
absorption	समाहन
abstain <i>vb.</i>	परहेज करना, विरत रहना
abstention	परहेज, विरति
abstinence	परहेज, इन्द्रिय-निग्रह
abstract <i>n.</i>	सार, सारांश
<i>adj.</i>	अमूर्त, दुरूह
<i>vb.</i>	सार निकालना
abstract book	सार पंजी
abstruse	दुरूह, गूढ़, दुर्बोध
absurd	अनर्गल
absurdity	अनर्गलता
abundance	बहुतायत, प्रचुरता
in abundance	बहुतायत से, प्रचुर मात्रा में
abundant	प्रचुर
abundant proof	पर्याप्त प्रमाण, प्रचुर प्रमाण
abuse <i>n.</i>	दुरुपयोग, गाली
<i>vb.</i>	दुरुपयोग करना, गाली देना
abuse of power	शक्ति का दुरुपयोग
abusive	अपशब्दपूर्ण
abusive language	गाली, अपशब्द
academic	शिक्षा-सम्बन्धी, शास्त्रीय
academic council	शिक्षा परिषद्
academic discussion	सैद्धान्तिक विचार-विमर्श
academic qualifications	शिक्षा-सम्बन्धी अर्हताएँ
academic year	शिक्षा वर्ष
academy	अकादमी
accede <i>vb.</i>	स्वीकार करना, मानना, प्रवेश करना, मिलना
accelerate <i>vb.</i>	प्रवेग बढ़ाना, चाल बढ़ाना, तेज करना

acceleration	प्रवेगन
accept vb.	स्वीकार करना, मानना, ग्रहण करना
acceptability	मान्यता, स्वीकार्यता, ग्राह्यता
acceptable	मान्य, स्वीकार्य, ग्राह्य
acceptance	स्वीकृति -
acceptance-letter of	स्वीकृति पत्र
accepted	स्वीकृत
acceptor	स्वीकार करने वाला, स्वीकर्ता
access	प्रवेश, पहुँच
accessibility	सुगमता, अनिगम्यता
accessible	सुगम, अनिगम्य
accession	सन्निवृत्त, पदारोहण
instrument of accession	सन्निवृत्त प्रलेख
accessories	उपकरण
accessory-accessary	मायी, महभागी
accident	दुर्घटना, संयोग, वारदान
accident relief	दुर्घटना नहायता
accident relief equipment	दुर्घटना नहायता उपकरण
accidental	बाकस्मिक, दैवयोगिक
accidentally	संयोग से, अकस्मात्
acclamation	मायुवाद, शावागी, स्वागत
acclaim vb.	मायुवाद देना, शावागी देना, स्वागत करना
accommodate vb.	जगह देना, स्थान देना
	समायोजन करना, अनुग्रह करना
accommodating adj.	अनुग्राही, शालीन
accommodation	जगह, स्थान, अनुग्रह
accommodation bill (banking)	अनुग्रह हुंडी
accommodation charges	स्थान प्रभार
accommodation-reserved	वारक्षित जगह
accommodation-sleeping	सोने की जगह
accompany vb.	साथ होना, साथ जाना
accompanying adj.	साथ का, संलग्न
accomplice	सहअपराधी, हमजुर्म
accomplish vb.	पूरा करना
	परिपूर्ण, गुण-सम्पन्न, सिद्ध
	परिपूर्ति, गुण-सम्पन्नता

accord <i>n.</i>	सहमति
<i>vb.</i>	सहमत होना, सहमति देना
accord sanction	मंजूरी देना
accordance	अनुरूपता, अनुसार
in accordance with	के अनुसार
according to	के अनुसार, यथा
accordingly	तदनुसार
account <i>n.</i>	हिसाब, लेखा, खाता
<i>vb.</i>	हिसाब करना, लेखा करना
account book	लेखा वही
account branch	लेखा शाखा
account clerk	लेखा क्लर्क
account-capital	पूंजी खाता
account-credit	उधार खाता
-current	चालू खाता
-debit	नाम खाता
-deposit	जमा खाता
-goods	माल खाता
-rough	कच्चा खाता
-sales	विक्री खाता
-suspense	उजरत खाता
account keeping	हिसाब रखना, लेखा-पालन
accountable	उत्तरदायी, जवाबदेह
accountancy	लेखा कर्म
accountant	लेखा पाल
accountant general	महालेखा पाल
accredit <i>vb.</i>	अधिकार देना
accredited	अधिकार-प्राप्त
accredited agent	अधिकार-प्राप्त एजेंट
accredited representative	अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि
accretion	संवर्धन, संवृद्धि
accrual	उपार्जना
accrue <i>vb.</i>	उपार्जित करना, देय होना
accrued	उपार्जित
accrued income	उपार्जित आय
accrued increments	उपार्जित वृद्धियाँ
accumulate <i>vb.</i>	इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, संचय करना

acceleration	प्रवेगन
accept <i>vb.</i>	स्वीकार करता, मानना, ग्रहण करना
acceptability	मान्यता, स्वीकार्यता, ग्राह्यता
acceptable	मान्य, स्वीकार्य, ग्राह्य
acceptance	स्वीकृति -
acceptance-letter of	स्वीकृति पत्र
accepted	स्वीकृत
acceptor	स्वीकार करने वाला, स्वीकर्ता
access	प्रवेश, पहुँच
accessibility	मुगमता, अभिगम्यता
accessible	मुगम, अभिगम्य
accession	सम्मिलन, पदारोहण
instrument of accession	सम्मिलन प्रलेख
accessories	उपकरण
accessory-accessary	साथी, सहभागी
accident	दुर्घटना, संयोग, वारदात
accident relief	दुर्घटना सहायता
accident relief equipment	दुर्घटना सहायता उपस्कर
accidental	आकस्मिक, दैवयोगिक
accidentally	संयोग से, अकस्मात
acclamation	साधुवाद, शावाशी, स्वागत
acclaim <i>vb.</i>	साधुवाद देना, शावाशी देना, स्वागत करना
accommodate <i>vb.</i>	जगह देना, स्थान देना
accommodating <i>adj.</i>	समायोजन करना, अनुग्रह करना
accommodation	अनुग्राही, शालीन
accommodation bill (banking)	जगह, स्थान, अनुग्रह
accommodation charges	अनुग्रह हुंडी
accommodation-reserved	स्थान प्रभार
accommodation-sleeping	आरक्षित जगह
accompany <i>vb.</i>	सोने की जगह
accompanying <i>adj.</i>	साथ होना, साथ जाना
accomplice	साथ का, संलग्न
accomplish <i>vb.</i>	सहअपराधी, हमजुर्म
accomplished	पूरा करना
accomplishment	परिपूर्ण, गुण-सम्पन्न, सिद्ध परिपूर्ति, गुण-सम्पन्नता

accord <i>n.</i>	सहमति
<i>vb.</i>	सहमत होना, सहमति देना
accord sanction	मंजूरी देना
accordance	अनुरूपता, अनुसार
in accordance with	के अनुसार
according to	के अनुसार, यथा
accordingly	तदनुसार
account <i>n.</i>	हिसाब, लेखा, खाता
<i>vb.</i>	हिसाब करना, लेखा करना
account book	लेखा वही
account branch	लेखा शाखा
account clerk	लेखा क्लर्क
account-capital	पूँजी खाता
account-credit	उधार खाता
-current	चालू खाता
-debit	नाम खाता
-deposit	जमा खाता
-goods	माल खाता
-rough	कच्चा खाता
-sales	विक्री खाता
-suspense	उजरत खाता
account keeping	हिसाब रखना, लेखा-पालन
accountable	उत्तरदायी, जवाबदेह
accountancy	लेखा कर्म
accountant	लेखा पाल
accountant general	महालेखा पाल
accredit <i>vb.</i>	अधिकार देना
accredited	अधिकार-प्राप्त
accredited agent	अधिकार-प्राप्त एजेन्ट
accredited representative	अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि
accretion	संवर्धन, संवृद्धि
accrual	उपार्जना
accrue <i>vb.</i>	उपार्जित करना, देय होना
accrued	उपार्जित
accrued income	उपार्जित आय
accrued increments	उपार्जित वृद्धियाँ
accumulate <i>vb.</i>	इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, संचय करना

accumulation	संचय, इकट्ठा होना
accumulation of work	काम इकट्ठा होना
accuracy	शुद्धता, यथार्थता
accurate	सही, शुद्ध, यथार्थ
accurately	ठीक-ठीक, यथार्थ रूप से
accusation	अभियोग, इलजाम ( उर्दू )
accuse <i>vb.</i>	अभियोग लगाना, इलजाम लगाना ( उर्दू )
accused	अभियुक्त, मुलजिम ( उर्दू )
accuser	अभियोक्ता, इलजाम लगाने वाला
accustom <i>vb.</i>	आदी होना, आदत डालना
accustomed	आदी, अभ्यस्त
acknowledge <i>vb.</i>	मानना, कबूल करना, स्वीकार करना
acknowledge receipt	मान्यता, प्राप्ति, स्वीकार, पावती
acknowledgement	रसीद देना, पावती देना
acquaint <i>vb.</i>	जानकारी करना, परिचित होना
acquaintance	परिचय, परिचित व्यक्ति, जान-पहचान का
acquainted	परिचित
acquiesce <i>vb.</i>	मौन स्वीकृति देना
acquiescence	मौन स्वीकृति, मौन सम्मति
acquire <i>vb.</i>	प्राप्त करना, कमाना, हासिल करना, उपार्जन करना
acquired	प्राप्त, अधिगृहीत, उपार्जित
acquisition	अधिग्रहण, उपार्जन, प्राप्ति
acquisition of citizenship	नागरिकता की प्राप्ति
land acquisition	भूमि अधिग्रहण
land acquisition Act	भूमि अधिग्रहण अधिनियम
acquittance	चुकोती, वेवाकी, कर्जभुगतान
acquittance register	वेवाकी रजिस्टर
acquit <i>vb.</i>	दोष मुक्त करना, बरी करना,
to acquit oneself	अपने कर्तव्य का समुचित पालन करना
acquital	दोष मुक्ति, बरी होना
act <i>n.</i>	कृत्य, कर्म, अधिनियम
<i>vb.</i>	करना, व्यवहार करना, अभिनय करना
acting <i>n.</i>	अभिनय, कार्य-वहन
<i>adj.</i>	कार्य वाहक
acting allowance	कार्यवहन भत्ता
action	कार्रवाई, क्रिया, करनी, अमल, अभियोग

to take action	कार्रवाई करना
actionable	अभियोज्य
activate <i>vb.</i>	जागृत करना, सक्रिय करना
active	फुर्तीला, सक्रिय
active demand	सक्रिय मांग
active market	सक्रिय बाजार
actively	सक्रिय रूप से, फुर्ती के साथ
activeness	सक्रियता, क्रियाशीलता
activity	कार्यकलाप, गतिविधि
actual	वास्तविक
actuals	वास्तविक आँकड़े
actuate <i>vb.</i>	प्रेरणा देना, प्रेरित करना
acute	तेज, तीव्र
acutely	तेजी से, तीव्रता के साथ
admant	हठी, जिद्दी
adapt <i>vb.</i>	अनुकूल होना, अनुकूल बनाना, रूपान्तर करना
adapt oneself to	के अनुकूल बनाना
adaptability	अनुकूलता
adaptation	अनुकूलन, रूपान्तरण
add <i>vb.</i>	जोड़ना, मिलाना
addendum	अनुबन्ध
annexure	संलग्नक
appendix	परिशिष्ट
addict	व्यवसनी
addition	जोड़, संकलन
additional	अतिरिक्त, अधिक, अपर
additional grant	अतिरिक्त अनुदान
additional work	अतिरिक्त कार्य
address <i>n.</i>	पता, अभिभाषण, बातचीत का ढंग
<i>vb.</i>	पता लिखना, भाषण देना, सम्बोधित करना
addressee	पानेवाला
adduce <i>vb.</i>	सामने रखना, प्रस्तुत करना
adept	निपुण, माहिर
adequacy	पर्याप्तता
adequate	पर्याप्त



adequately	पर्याप्त रूप से
adhere <i>vb.</i>	अनुसरण करना
adherence	अनुसरण
adherent	अनुसरण करने वाला
ad hoc	तदर्थ, एतदर्थ, विशेष
ad hoc appointment	तदर्थ नियुक्ति
ad hoc balance	तदर्थ अवशेष
ad hoc committee	तदर्थ समिति
ad hoc sanction	तदर्थ मंजूरी
ad infinitum	अन्त तक
ad interim	अंतः कालीन
adjacent	साथ का, संलग्न
adjoin <i>vb.</i>	साथ में लगा होना, संलग्न होना
adjoining	लगा हुआ, संलग्न, पार्श्ववर्ती
adjourn	स्थगित होना, स्थगित करना
adjourn sine die	अनिश्चित समय के लिए स्थगित करना
adjourned	स्थगित
adjourned meeting	स्थगित बैठक
adjournment	स्थगन
adjournment motom	स्थगन प्रस्ताव, काम रोकौ प्रस्ताव
adjudge <i>vb.</i>	फैसला करना, निर्णय करना
adjudicate <i>vb.</i>	अधिनिर्णय करना
adjudication	अधिनिर्णय
adjudicator	अधिनिर्णायक
adjudicator's award	अधिनिर्णायक का फैसला
adjust <i>vb.</i>	संमजन करना
adjusted	समंजित
adjusted distance (Rly)	संमजित दूरी
adjusted fare (Rly)	संमजित किराया
adjusted mileage (Rly)	संमजित मील दूरी
adjustment	समंजन
adjustment of account	लेखा समंजन
administer <i>vb.</i>	प्रशासन करना, प्रबंध करना, देना
administer medicine	दवा देना
administer oath	शपथ दिलाना
administration	प्रशासन
administration-financial	वित्त प्रशासन

administration-general	सामान्य प्रशासन
administration-local	स्थानीय प्रशासन
administrative	प्रशासनिक, प्रशासी
administrative approval	प्रशासी अनुमोदन
administrative charges	प्रशासी प्रभार
administrative convenience	प्रशासी सुकरता
administrative function	प्रशासी कार्य
administrative head	प्रशासी अध्यक्ष
administrative sanction	प्रशासी मंजूरी
administrative tribunal	प्रशासी अधिकरण
administrator	प्रशासक
admissibility	मान्यता, ग्राह्यता
admissibility of evidence	शहादत की मान्यता
admissible	मान्य, ग्राह्य
admission	प्रवेश, दाखिला, मान लेना, स्वीकार करना
admission card	प्रवेश पत्र
admission fee	प्रवेश शुल्क
admission ticket	प्रवेश टिकट
admit <i>vb.</i>	मान लेना, भर्ती करना, आने देना
admittance	प्रवेश, दाखिला
admonish <i>vb.</i>	फटकारना, ताड़ना
admonition	फटकार, ताड़ना,
adopt <i>vib</i>	अपनाना, ग्रहण करना, स्वीकार करना
adopt a resolution	प्रस्ताव स्वीकार करना
adopted son	दत्तक पुत्र
adoptive	दत्तकग्राही, गोद लेने वाला
adoptive father	दत्तकग्राही पिता, धर्मपिता
adoption	अंगीकार, गोदनशीनी, दत्तकग्रहण
adult	बालिग, वयस्क
adult education	बालिगों की शिक्षा, वयस्क शिक्षा
adult franchise	बालिग मताधिकार, वयस्क मताधिकार
adult suffrage	” ” ” ”
adult school	वयस्क विद्यालय, बालिगों का स्कूल
adulterate <i>vb.</i>	मिलावट करना
adulteration	मिलावट
adultery	व्यभिचार, बदकारी, जिनाकारी

ad valorem	मूल्य के अनुसार, ययामूल्य
ad valorem duty	ययामूल्य शुल्क
advance <i>n.</i>	प्रगति, उन्नति, उत्कर्ष
<i>vb.</i>	आगे बढ़ना, उन्नति करना, प्रगति करना
<i>adj.</i>	अग्रिम, पेशगी
advance booking	अग्रिम बुकिंग
advance increment	अग्रिम वृद्धि
advance payment	अग्रिम भुगतान
advanced	उच्च, प्रगतिशील
advanced training	उच्च प्रशिक्षण
advancement	प्रगति
advantage	लाभ, हित, महत्व
advantageous	लाभकर, हितकर
advent	आरम्भ, आगमन, आविर्भाव
adventitious	आकस्मिक
adventure	साहस, साहसिक कार्य
adventurous	साहसिक
adverse	प्रतिकूल
adverse circumstances	प्रतिकूल परिस्थितियाँ
adverse criticism	प्रतिकूल आलोचना
adverse entry	प्रतिकूल इन्दराज
adverse possession	प्रतिकूल कब्जा, कब्जा मुखालिफ़ाना (उर्दू)
adverse report	प्रतिकूल रिपोर्ट
adversary	विरोधी
advert <i>vb.</i>	ध्यान दिलाना
advertise <i>vb.</i>	विज्ञापन निकालना, इश्तहार निकालना
advertisement	विज्ञापन, इश्तहार
advice	सलाह, सूचना
advice-slip	सूचना पर्ची
advisability	औचित्य, उपयुक्तता
advisable	उचित, मंत्रणीय
advise <i>vb.</i>	मंत्रणा देना, सलाह देना, सूचित करना, अवगत कराना
adviser	सलाहकार
economic adviser	अर्थ सलाहकार
financial adviser	वित्त सलाहकार
military adviser	सैनिक सलाहकार

transport adviser  
 advisory  
 in advisory capacity  
 advisory council  
 advocate *n.*  
                   *vb.*  
 advocacy  
 aegis  
 under the aegis of  
 aerial *n.*  
                   *adj.*  
 aesthetic  
 aesthetic sense  
 affect *vb.*  
 affect prejudicially  
 affection  
 affected  
 affidavit  
 affiliate *vb.*  
 affiliation  
 affinity  
 affirm *vb.*  
 affirm on oath  
 affirmation  
 affirmative  
 afforest *vb.*  
 aforesaid  
 age  
 age of consent  
 age limit  
 age of majority  
 age of retirement  
 agency  
 agenda  
 agent  
 agent general  
 agent, political

परिवहन सलाहकार  
 सलाह या सलाहकार सम्बन्धी  
 सलाहकार की हैसियत से  
 सलाहकार परिषद्  
 एडवोकेट, अधिवक्ता, समर्थक, पैरवीकार  
 पक्ष समर्थन करना, पैरवी करना  
 पक्ष समर्थन, पैरवी  
 संरक्षण  
 के संरक्षण में  
 एरियल  
 हवाई  
 सौन्दर्यपरक  
 सौन्दर्यपरक बुद्धि  
 प्रभावित करना, प्रभाव डालना  
 प्रतिकूल प्रभाव डालना  
 वनावट  
 वनावटी, प्रभावित  
 शपथ-पत्र, हलफनामा  
 सम्बद्ध करना, सम्बद्ध होना  
 सम्बन्ध  
 लगाव, सम्बन्ध, नाता  
 बयान करना, इज्जहार करना  
 हलफिया बयान, सशपथ बयान करना  
 हलफिया बयान, सशपथ बयान  
 स्वीकारात्मक, सकारात्मक  
 जंगल लगाना, बन लगाना  
 ऊपर कहा हुआ, उपरोक्त  
 उमर, आयु, युग  
 सहमति आयु, रजामन्दी की उमर  
 उमर की क़ैद, आयु सीमा  
 वयस्कता  
 ( सेवा ) निवर्तन आयु  
 एजेन्सी, अभिकरण  
 कार्यसूची  
 एजेंट, अभिकर्ता  
 महाभिकर्ता  
 राजनैतिक अभिकर्ता

agent, polling	मतदान एजेंट
agent provocateur	उकसाने वाला
agent sales	विक्री एजेंट
agrarian	खेतिहर भूमि विपयक
agrarian policy	भूमि विपयक नीति
agrarian reform	भूमि सुधार
agrarian system	भूमि व्यवस्था
aggravate <i>vb.</i>	वढाना, उत्तेजित करना
aggravation	वृद्धि, उत्तेजन
aggregate <i>n.</i>	योगफल
<i>adj.</i>	कुल, समस्त
aggregate marks	कुल अंक
aggregate value	कुल कीमत
aggregation	योग, समष्टि
aggressive	आक्रामक
aggressive policy	आक्रामक नीति
aggression	हमला, आक्रमण
aggressor	हमलावर, आक्रमणकारी
aggressor country	हमलावर देश, आक्रामक देश
aggrieve <i>vb.</i>	सत्ताना, पीड़ा देना
aggrieved	पीड़ित
aggrieved party	पीड़ित पक्ष
agitate <i>vb.</i>	आन्दोलन करना, उत्तेजित होना, धोभ करना
agitation	धोभ, उत्तेजना, आन्दोलन
agitation-peaceful	शान्तिपूर्ण आन्दोलन
agitation-violent	हिंसात्मक आन्दोलन
agony	तीव्र पीड़ा, यातना
agree <i>vb.</i>	राज्जी होना, एकमत होना
agreed	एकमत, सर्वसम्मत्
agreed solution	सर्वसम्मत् समाधान
agreement	करार, संविदा, सहमति, समझौता
agreement deed	करारनामा, संविदापत्र
agreement form	संविदा फार्म, करारफार्म
trade agreement	व्यापार संविदा । तिजारती करार
enter into an agreement	करार करना, संविदा करना
agriculture	खेती, कृषि

agricultural	खेती सम्बन्धी, कृषि सम्बन्धी
agricultural holding	जोत
agricultural income	खेती की आमदनी, कृषि की आय
agricultural income tax	कृषि आय-कर
agricultural labour	खेतिहर मजदूर
agricultural produce	खेती की उपज
agricultural research	कृषि अनुसंधान
agricultural tax	कृषि कर
agricultural year	फसली वर्ष
agriculturist	खेतिहर, कृषक
aid	सहायता, इमदाद
aid, monetary	आर्थिक सहायता
aided	इमदादी, सहायता-प्राप्त
aided school	इमदादी स्कूल
aided siding	इमदादी साइडिंग
aide-de-camp	परिसहायक
aim <i>n.</i>	उद्देश्य, लक्ष्य, निशाना
<i>vb.</i>	उद्देश्य रखना, लक्ष्य बनाना
air battle	हवाई लड़ाई
air base	हवाई अड्डा
air-borne	वायुवाहित
air-borne bacteria	वायुवाहित कीटाणु
air-conditioned	वातानुकूलित, वातानुकूल
air-codditioner accommodation	वातानुकूल स्थान
air-conditioning	वातानुकूलन
air-craft	हवाई जहाज, वायुयान, विमान
air-craft carrier	विमान वाहक पोत
air-crash	हवाई दुर्घटना
air-force	वायुसेना
air-line	वायुमार्ग, विमान परिवहन
air-mail	हवाई डाक
air-raid	हवाई हमला
air-raid alarm	हवाई हमले की चेतावनी
air-raid precaution	हवाई हमले से बचाव का उपाय
air-raid shelter	हवाई हमले से बचाव की जगह
air reconnaissance	हवाई जाँच-पड़ताल
air service	हवाई सेवा

air-tight	हवा बन्द
air traffic	हवाई यातायात
air transport	हवाई परिवहन
airways	वायु-मार्ग
air-worthiness	उड़ने की योग्यता
air-worthiness—certificate of	उड़ने की योग्यता का प्रमाण-पत्र
air-worthy	उड़ने योग्य
alarm	खतरा, खतरे की गुहार
alarm chain	खतरे की जंजीर
alarm signal	खतरे का सिगनल
raise alarm	खतरे की गुहार लगाना
alarming	भयावह, दहशत पैदा करने वाला
album	चित्रसंग्रह
alert <i>adj.</i>	सतर्क
<i>vb.</i>	सतर्क करना
alertness	सतर्कता
alias	उपनाम, उर्फ (उर्दू)
alien	विदेशी, पराया, मित्रप्रकृति
alienable	हस्तान्तरणीय, वियोज्य
alienate <i>vb.</i>	(i) हस्तान्तरण करना, (ii) छीन लेना, वियोजन करना
alienation	(i) हस्तान्तरण (ii) वियोजन
align <i>vb.</i>	सीधा करना, रेखांकन करना, गठबन्धन करना
alignment	सीध, रेखांकन, गठबन्धन,
military alignment	सैनिक गठबन्धन
allegation	आरोप, अभिकथन
allege <i>vb.</i>	आरोप लगाना, अभिकथन करना
alleged	आरोपित, अभिकथित
allegedly	ऐसा कहा जाता है
allegiance	निष्ठा
owe allegiance to	के प्रति निष्ठा रखना
alleviate <i>vb.</i>	कम करना, घटाना, प्रशमन करना
alleviation	कमी, घटाव, प्रशमन
alliance	मित्रता, सम्बन्ध, सन्धि
allied	संबद्ध, मित्र
allied subjects	संबद्ध विषय

allied nations	मित्रराष्ट्र
allocate <i>vb.</i>	विनिधान करना
allocation	विनिधान
allocation of funds	रकम का विनिधान
allot <i>vb.</i>	नियत करना
allotment	नियतन
allotment letter	नियतन पत्र
allotment of funds	रकम नियत करना
allotment order	नियतन आदेश
allotted	नियत
allottee	नियती
allow <i>vb.</i>	(i) अनुमति देना, होने देना (ii) बहाल करना
allow an appeal	अपील बहाल करना, अपील स्वीकार करना
allowance	भत्ता, छूट, स्वीकृति
city-allowance	नगर भत्ता
conveyance allowance	सवारी भत्ता
daily allowance	दैनिक भत्ता
dearness allowance	महंगाई भत्ता
extra duty allowance	अतिरिक्त कार्य भत्ता
out-station allowance	वाहरी स्टेशन भत्ता
overtime allowance	समयोपरि भत्ता
travelling allowance	सफर भत्ता, यात्रा भत्ता
allude <i>vb.</i>	संकेत करना, इशारा करना
allure <i>vb.</i>	ललचाना, प्रलोभन देना
allurement	प्रलोभन
alluvial	जलोढ़, कछारी
alluvial land	कछारी जमीन, कछार
alluvial soil	कछारी मिट्टी
alluvion	कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी
ally	मित्र, साथी, सहयोगी
almanac	पंचांग, पत्रा
alphabet	वर्णमाला
alphabetical	वर्णमाला सम्बन्धी
alphabetical order	वर्णक्रम
alter <i>vb.</i>	बदलना, परिवर्तन करना
alteration	परिवर्तन



air-tight	हवा बन्द
air traffic	हवाई यातायात
air transport	हवाई परिवहन
airways	वायु-मार्ग
air-worthiness	उड़ने की योग्यता
air-worthiness—certificate of	उड़ने की योग्यता का प्रमाण-पत्र
air-worthy	उड़ने योग्य
alarm	खतरा, खतरे की गुहार
alarm chain	खतरे की जंजीर
alarm signal	खतरे का सिग्नल
raise alarm	खतरे की गुहार लगाना
alarming	भयावह, दहशत पैदा करने वाला
album	चित्रसंग्रह
alert <i>adj.</i>	सतर्क
<i>vb.</i>	सतर्क करना
alertness	सतर्कता
alias	उपनाम, उर्फ (उर्दू)
alien	विदेशी, पराया, मिश्रप्रकृति
alienable	हस्तान्तरणीय, वियोज्य
alienate <i>vb.</i>	(i) हस्तान्तरण करना, (ii) छीन लेना, वियोजन करना
alienation	(i) हस्तान्तरण (ii) वियोजन
align <i>vb.</i>	सीधा करना, रेखांकन करना, गठबन्धन करना
alignment	सीध, रेखांकन, गठबन्धन,
military alignment	सैनिक गठबन्धन
allegation	आरोप, अभिकथन
allege <i>vb.</i>	आरोप लगाना, अभिकथन करना
alleged	आरोपित, अभिकथित
allegedly	ऐसा कहा जाता है
allegiance	निष्ठा
owe allegiance to	के प्रति निष्ठा रखना
alleviate <i>vb.</i>	कम करना, घटाना, प्रशमन करना
alleviation	कमी, घटाव, प्रशमन
alliance	मित्रता, सम्बन्ध, सन्धि
allied	संबद्ध, मित्र
allied subjects	संबद्ध विषय

allied nations	मित्रराष्ट्र
allocate <i>vb.</i>	विनिधान करना
allocation	विनिधान
allocation of funds	रकम का विनिधान
allot <i>vb.</i>	नियत करना
allotment	नियतन
allotment letter	नियतन पत्र
allotment of funds	रकम नियत करना
allotment order	नियतन आदेश
allotted	नियत
allottee	नियती
allow <i>vb.</i>	(i) अनुमति देना, होने देना
	(ii) बहाल करना
allow an appeal	अपील बहाल करना, अपील स्वीकार करना
allowance	भत्ता, छूट, स्वीकृति
city-allowance	नगर भत्ता
conveyance allowance	सवारी भत्ता
daily allowance	दैनिक भत्ता
dearness allowance	महंगाई भत्ता
extra duty allowance	अतिरिक्त कार्य भत्ता
out-station allowance	बाहरी स्टेशन भत्ता
overtime allowance	समयोपरि भत्ता
travelling allowance	सफर भत्ता, यात्रा भत्ता
allude <i>vb.</i>	संकेत करना, इशारा करना
allure <i>vb.</i>	ललचाना, प्रलोभन देना
allurement	प्रलोभन
alluvial	जलोढ़, कछारी
alluvial land	कछारी जमीन, कछार
alluvial soil	कछारी मिट्टी
alluvion	कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी
ally	मित्र, साथी, सहयोगी
almanac	पंचांग, पत्रा
alphabet	वर्णमाला
alphabetical	वर्णमाला सम्बन्धी
alphabetical order	वर्णक्रम
alter <i>vb.</i>	बदलना, परिवर्तन करना
alteration	परिवर्तन

alternate <i>adj.</i>	वैकल्पिक, एकान्तर, अंतरा
alternate route	वैकल्पिक रास्ता
alternate angle	एकान्तर कोण
alternate days	अंतरे दिन, हर दूसरे दिन
alternative <i>n.</i>	विकल्प
altruism	परार्थवाद, परहितवाद
altruistic	परार्थक, परहितवादी
altruistic motive	परार्थक अमिप्राय
amalgamate <i>vb.</i>	मिलना, मिलाना, समामेलित करना
amalgamation	मिलाव, समामेलन
ambiguity	अस्पष्टता, संदिग्धता
ambiguous	अस्पष्ट, संदिग्ध
ambition	महत्वाकांक्षा
ambitious	महत्वाकांक्षी
ambulance	} अस्पताली गाड़ी
ambulance car	
ambulance van	
ambulance corps	अस्पताली दस्ता
ambush <i>n.</i>	घात
ambush <i>vb.</i>	घात लगाना
ameliorate <i>vb.</i>	सुधारना, बेहतर करना
amelioration	सुधार, बेहतरी
ameliorative	सुधार-सम्बन्धी
amenability	आज्ञाधीनता, विनयशीलता
amenable	आज्ञाधीन, विनयशील
amenable to discipline	अनुशासनशील
amend <i>vb.</i>	संशोधित करना
amendable	संशोधनीय
amendation	संशोधन
amendatory	संशोधक
amending bill	संशोधन विधयक
amending clause	संशोधक धारा
amendment	संशोधन
amenity	सुख-साधन
ammunition	गोला-बारूद, लड़ाई का सामान
amnesty	सर्वक्षमा, आसमाफ़ी

amortisation	ऋण-परिशोधन
amount <i>n.</i>	रकम, राशि
amount to	होना, अर्थ होना
ample	प्रचुर, पर्याप्त
amplifier	विस्तारक
amplify <i>vb.</i>	बढ़ाना, विस्तार करना
amputate <i>vb.</i>	अंगविच्छेद करना, अंग काटना
amputation	अंगविच्छेद
amuse <i>vb.</i>	मन बहलाना, मनो-विनोद करना
amusement	मन बहलाव, विनोद
analogy	समानता, सादृश्य, अनुरूपता
analogous	समान, सदृश, अनुरूप
analysis	विश्लेषण
analyse <i>vb.</i>	विश्लेषण करना
analytic	विश्लेषणात्मक
analytical	"
anarchical	अराजकता सम्बन्धी
anarchist	अराजकतावादी
anarchism	अराजकतावाद
anarchy	अराजकता
anathema	अभिशाप
ancestor	पूर्वज, पुरखा
ancestral	पैतृक
ancestral property	पैतृक सम्पत्ति, पुश्तैनी जायदाद
ancestry	वंश परम्परा
ancient	प्राचीन, पुरातन
ancient historical monuments	प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक
ancillary	आनुषंगिक, सहायक
ancillary work	सहायक काम
anchor <i>n.</i>	लंगर
<i>vb.</i>	लंगर डालना
anchorage	लंगर डालना, लंगर डालने की जगह, लंगर-शुल्क
angle	कोण
angle of vision	दृष्टिकोण
animal	जानवर, पशु
animal husbandry	पशुपालन

animal husbandry department	पशुपालन विभाग
animate <i>vb.</i>	अनुप्राणित करना
<i>adj.</i>	सजीव, चेतन
animosity	वैरभाव
annex <i>vb.</i>	मिलाना, संलग्न करना
annexation	मिलाना
annexure	संलग्नक
annihilate <i>vb.</i>	मिटाना, नेस्त नाबूद करना, उन्मूल करना
annihilation	उन्मूलन
anniversary	वर्ष दिन
birth anniversary	जन्मदिन, जयन्ती,
death anniversary	वर्षी
annotate <i>vb.</i>	व्याख्या करना, टीका करना
annotation	व्याख्या, टीका
announce <i>vb.</i>	एलान करना
announcement	एलान
annoy <i>vb.</i>	खिझाना, तकलीफ देना, कष्ट देना
annoyance	खीझ, कष्ट
annoying	खीझ पैदा करनेवाला
annual <i>adj.</i>	सालाना, वार्षिक
annual ccount	सालाना हिसाब, वार्षिक लेखा
annual administration report	वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट
annual financial statement	वार्षिक वित्त विवरण
annual return	वार्षिक विवरण
annual review	वार्षिक समीक्षा
annul <i>vb.</i>	मंसूख करना
annulment	मंसूखी
annuitant	वार्षिक वृत्ति, ग्राही
annuity	वार्षिक वृत्ति, वार्षिकी
anomalous	असंगत, नियम विरुद्ध
anomaly	असंगति, नियम विरुद्धता
anonymus	गुमनाम, विना नाम का
anonymous letter	गुमनाम पत्र
answer <i>n.</i>	उत्तर, जवाब
<i>vb.</i>	उत्तर देना, जवाब देना
answerable	उत्तरदायी, जवाबदेह
antagonism	विरोध, प्रतिरोध

antagonist	विरोधी, प्रतिरोधी
antagonistic	" "
antagonise <i>vb.</i>	(i) विरोध करना, प्रतिरोध करना (ii) वैर मोल लेना
ante	पहले का
ante dated	पहले की तारीख का, पूर्वतिथीय
antecedents	पूर्ववृत्त
anthropology	मानवशास्त्र
anticipate <i>vb.</i>	प्रत्याशा करना, प्रत्यागित होना
anticipated	प्रत्यागित
anticipated cost	प्रत्यागित लागत
anticipated expenditure	प्रत्यागित खर्च
anticipation	प्रत्याशा
anti-corruption	भ्रष्टाचार निरोध
anti-corruption committee	भ्रष्टाचार निरोध समिति
anti-corruption department	भ्रष्टाचार निरोध विभाग
anti-corruption officer	भ्रष्टाचार निरोध अफसर
anti-septic	पूतिनाशक
anti-septic treatment	पूतिनाशक उपचार
anti-social	समाज-विरोधी
antithesis	(i) विलोम, विपरीत (ii) विपरीतता
antonym	विलोम, विपर्यय
anxious	व्यग्र
anxiety	व्यग्रता
apartheid	रंगभेद
apathetic	उदासीन
apathy	उदासीनता
apologetic	क्षमायाची
apologise <i>vb.</i>	माफी माँगना, क्षमा माँगना
apology	माफी, क्षमा
apostasy	अपना धर्म छोड़ना, स्वधर्म त्याग
apparatus	औजार
apparent	जाहिर, प्रकट, स्पष्ट
apparently	देखने में, प्रकटतः
appeal <i>n.</i>	अपील, निवेदन, आकर्षण
<i>vb.</i>	अपील, निवेदन, आकर्षित—करना

grounds of appeal	अपील के आधार
appealable	अपील करने योग्य
appealing	आकर्षक, हृदयग्राही
appear <i>vb.</i>	दिखाई देना, जान पड़ना, उपस्थित होना, हाजिर होना
appearance	उपस्थिति, हाजिरी, आकृति
appearance in court	अदालत में हाजिर होना, अदालत में उपस्थित होना
appease <i>vb.</i>	शान्त करना, तुष्ट करना
appeasement	तुष्टीकरण
appeasement policy	तुष्टीकरण की नीति
appellate	अपील सम्बन्धी, अपीलिय
appellate authority	अपील अधिकारी
appellate court	अपील न्यायालय
appellate jurisdiction	अपील क्षेत्राधिकार
appellate powers	अपील-सम्बन्धी अधिकार
appellant	अपीलकर्ता
append <i>vb.</i>	मिलाना, लगाना
appendix	परिशिष्ट
applaud <i>vb.</i>	वाह वाह करना, आवाशी देना
applause	प्रशंसा, तारीफ
appliances	उपकरण
applicable	लागू होना, प्रयोज्य
applicability	लागू होने की स्थिति, प्रयोज्यता
applicant	आवेदक
applied	अमली
applied sciences	अमली विज्ञान
application	अर्जी, आवेदन पत्र, अमल, व्यवहार
application form	आवेदन फार्म
application of rule	नियम का लागू होना
apply <i>vb.</i>	आवेदन पत्र देना, लागू होना, लागू करना, अमल में लाना, प्रयोग में लाना
apply guillotine	चुप करना, मुँह बन्द करना
appoint <i>vb.</i>	नियुक्त करना
appointment	नियुक्ति, भेंट, मुलाकात
appointed time	नियत समय
appointing authority	नियोजन अधिकारी

apportion <i>vb.</i>	अनुभाजन करना
opposite	समुपयुक्त, असंगोचित
appraisal	मूल्यांकन
appraise <i>vb.</i>	आँकना, मूल्यांकन करना
appreciable	काफ़ी, पर्याप्त
appreciate <i>vb.</i>	सराहना करना, मूल्य बढ़ाना, मूल्यांकन करना, अनुभव करना
appreciation	सराहना, मूल्यवृद्धि, मूल्यांकन,
appreciatory	सराहनात्मक
apprehend <i>vb.</i>	पकड़ना, गिरफ्तार करना, आशंका करना
apprehension	आशंका
apprehensive	आशंकित
apprentice	अप्रैन्टिस
apprenticeship	अप्रैन्टिसगीरी
apprise <i>vb.</i>	वताना, सूचित करना, अवगत करना
approach <i>n.</i>	पहुँच, पहुँचमार्ग, दृष्टिकोण
<i>vb.</i>	नज़दीक आना, पास आना
appropriate <i>adj.</i>	उपयुक्त
<i>vb.</i>	विनियोजन करना
appropriation	विनियोजन, विनियोग
appropriation bill	विनियोग विधेयक
appropriation account	विनियोग लेखा
approval	अनुमोदन
on approval	पसन्द होने पर
approve <i>vb.</i>	अनुमोदन करना
approved	अनुमोदित
approver	मुखबिर
approximate <i>adj.</i>	समीप, सन्निकट
<i>vb.</i>	समीप होना, निकट होना
approximately	लगभग, समीपतः
aptitude	रुचि, झुकाव
arable	खेती के योग्य
arbiter arbitrator	पच,
mediator	मध्यस्थ
arbitre' tribunal	पच अदालत
arbitrate <i>vb.</i>	पचनिर्णय करना
arbitrarily	मनमाना, स्वेच्छाचारी



arbitration	पंचनिर्णय
arbitration board	पंचमण्डल,
arbitraton-private	आपसी पंचनिर्णय
archaeological department	पुरातत्व विभाग
archeologist	पुरातत्व वेत्ता
archaeology	पुरातत्व विद्या
architect	वास्तुविद्, वास्तुकर
architerture	वास्तुकला
archives	पुरा अभिलेख
area	क्षेत्र, क्षेत्रफल
argue <i>vb.</i>	वहस करना, तर्क करना, युक्ति देना
argument	वहस, तर्क
argumentative	तर्कप्रिय, विवादी, हुज्जती
aristoray	अभिजात तंत्र
aristorat	अभिजाततंत्री
aristocratic	अभिजाततंत्री
armament	शस्त्र संग्रह
armed <i>adj.</i>	हथियारबन्द, सशस्त्र, सैनिक
armed forces	सशस्त्र सेना, हथियारबन्द सेना
armed police	हथियार बन्द पुलिस
armed revolution	सैनिक क्रान्ति, सशस्त्र क्रान्ति
armistice	युद्ध विराम संधि
armour	वस्त्र
armounred	वस्त्रबन्द
armoured car	वस्त्रबन्द गाड़ी
armoured division	वस्त्रबन्द दस्ता
armoury	हथियार घर
arms	भुजाएँ, हथियार, शस्त्र
Arms Act	शस्त्र अधिनियम । हथियार अधिनियम
arms and ammunition	हथियार और युद्ध सामग्री
army	सेना
arrange <i>vb.</i>	इन्तजाम करना, व्यवस्था करना, तरतीब में रखना, क्रम में रखना
arrangement	क्रम, व्यवस्था, तरतीब
arrears	वकाया
arrest <i>vb.</i>	गिरफ्तार करना, प्रगति रोकना
<i>n.</i>	गिरफ्तारी

arrest without warrant or other written authority	{ वारंट या दूसरे लिखित अधिकार के बिना { गिरफ्तारी,
arrival	पहुँचना
arrival time	पहुँचने का समय
arrive <i>vb.</i>	आना, पहुँचना
arsenal	हथियार कारखाना
arson	आग लगाना, आगजनी
arson and loot	आगजनी और लूट
art	कला
arts	कला
arts faculty	कला संकाय
article	लेख, अनुच्छेद, वस्तु, पदार्थ, चीज
articles of agreement	संविदा लेख
articles of daily use	रोजाना इस्तेमाल की चीजें
artifice	कूटयुक्ति, चरका
artificial	बनावटी, नकली, कृत्रिम
artillery	तोप खाना
artisan	कारीगर, शिल्पकार
artisan staff	शिल्पी कर्मचारी
artist	कलाकार, कलाविद्
ascend <i>vb.</i>	चढ़ना, आरोहण करना
ascendant	आरोही
ascendancy	उत्कर्ष, प्रभुत्व
ascending scale	आरोहीक्रम, बढ़ती हुई दर
ascent	चढ़ाई
ascertain <i>vb.</i>	निश्चित करना
ascribe <i>vb.</i>	आरोप लगाना, ठहराना, कारण बताना
aspect	पक्ष, पहलू, रूप
aspense <i>vb.</i>	लांछन लगाना, इलजाम लगाना
aspersion	लांछन, इलजाम
aspirant	आकांक्षी, अभिलाषी
aspiration	चाह, अभिलाषा
aspire <i>vb.</i>	चाहना, अभिलाषा करना, आकांक्षा करना
assail <i>vb.</i>	दोषारोपण करना, हमला करना
assailant	हमलावर
assassin	हत्यारा

assassinate <i>vb.</i>	हत्या करना
assassination	हत्या
assault <i>n.</i>	हमला, वार, प्रहार
<i>vb.</i>	हमला करना, वार करना, प्रहार करना
assemble <i>vb.</i>	जमा होना, जोड़ना, जुड़ाई करना
assembly	सभा, मजमा, जुड़ाई
assembly-unlawful	गैरकानूनी मजमा
assent <i>n.</i>	अनुमति
<i>vb.</i>	अनुमति देना
assert <i>vb.</i>	दावे के साथ कहना, दृढ़तापूर्वक कहना
assertion	दृढ़कथन
assess <i>vb.</i>	आँकना, मूल्यांकन करना, निर्धारित करना
assessed income	निर्धारित आय
assessment <i>n.</i>	मूल्यांकन, निर्धारण
<i>vb.</i>	मूल्यांकन करना, निर्धारित करना
assessable	निर्वाय
assessee	निर्धारिती
assessment for compensation	क्षतिपूर्ति का निर्धारण
assessment of rent	किराये का निर्धारण, लगान का निर्धारण
assessor	असेसर, निर्धारक
assets	परिसम्पत्तियाँ
assets and liabilities	परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ
assiduous	मेहनती, परिश्रमी, अद्यवसायी
assign <i>vb.</i>	नियत परना, अनुदेशित करना
assigned	नियत, अनुदेशित
assignee	नियती, अनुदेशिती
assignment	नियतन, अनुदेशन
assignor	अनुदेशक
assimilate <i>vb.</i>	आत्मसात करना, अन्तर्ग्रहण करना
assimilation	आत्मसात करना, अन्तर्ग्रहण
assist <i>vb.</i>	सहायता देना, सहारा देना, मदद करना
assistance	सहायता, मदद
assistant	सहायक
assistant, lower division	निम्नवर्ग सहायक
assistant, upper division	उच्चवर्ग सहायक

assistant, upper division	उच्च वर्ग सहायक
assistant in-charge	कार्यभारी सहायक
assisting <i>adj</i>	सहायक
associate <i>adj.</i>	सहयोजित
<i>vb.</i>	सम्बन्ध करना, साथ करना
<i>n.</i>	साथी, साझीदार
associate member	सहयोजित सदस्य
association	साथ, संगति, संघ
assume <i>vb.</i>	मान लेना, कल्पना करना, धारण करना
assumed	कल्पित
assumption	भारग्रहण, कल्पना
assumption of charge	भारग्रहण करना
assurance	(i) आश्वासन, (ii) बीमा
assure <i>vb.</i>	(i) यकीन दिलाना, आश्वासन दिलाना, (ii) बीमा करना
assured	(i) आश्वस्त, (ii) बीमाकृत
assurer	बीमाकर्ता
astray	आवारा, बहका हुआ
astronomy	खगोल विज्ञान
astute	चतुर, कुशल, चतुरतापूर्ण
astute move	चतुरतापूर्ण युक्ति, चालवाजी
asylum	शरण, पनाह
atheism	अनीश्वरवाद, नास्तिकता
atheist	अनीश्वरवादी, नास्तिक
athlete	खिलाड़ी
athletic	खेल-कूद सम्बन्धी
athletic meet	खेल-कूद प्रतियोगिता
at home	स्वागत भोज
atom	एटम, परमाणु
atom bomb	एटम बम
atomic	परमाणु-सम्बन्धी
atomic energy	परमाणु ऊर्जा
atomic energy commission	परमाणु ऊर्जा आयोग
atomist	परमाणुविद्
atmosphere	वातावरण, वायुमण्डल
atmospheric	वायुमण्डल-सम्बन्धी, वायुमण्डलीय
atonement	प्रायश्चित्त

atrocious	क्रूर
atrocious	क्रूरता
attach <i>vb.</i>	(i) नत्थी करना (ii) संलग्न करना (iii) कुर्क करना (iv) महत्व देना
attached	(i) नत्थी (ii) संलग्न (iii) कुर्क
attached offices	संलग्न कार्यालय
attached papers	संलग्न कागज़-पत्र
attached property	कुर्क जायदाद
attache	सहचारी
press attache	प्रेस सहचारी
military attache	सैनिक सहचारी
attachment	(i) कुर्की (ii) आसक्ति
attachment of property	जायदाद की कुर्की
attack <i>n.</i>	(i) हमला, आक्रमण (ii) आक्षेप
<i>vb.</i>	(i) हमला करना, आक्रमण करना (ii) आक्षेप लगाना
attain <i>vb.</i>	प्राप्त करना, पाना
attain majority	वालिंग होना, वयस्क होना
attain the status of	का पद प्राप्त करना
attainment	गुण, उपलब्धि
attempt <i>n.</i>	(i) प्रयास (ii) कोशिश
<i>vb.</i>	(i) प्रयास करना (ii) कोशिश करना
attend <i>vb.</i>	(i) हाज़िर होना, उपस्थित होना (ii) देख-भाल करना, (iii) परिचर्या करना
attendance	हाज़िरी, उपस्थिति
attendance register	हाज़िरी रजिस्टर
attendant	(i) परिचर, अनुगामी (ii) आनुपंगिक
medical attendant	चिकित्सक
attention	(i) ध्यान (ii) सावधानी
to draw attention	} ध्यान दिलाना
to invite attention	
attentive	सावधान, सचेत
attentively	ध्यानपूर्वक
attest <i>vb.</i>	तसदीक करना
attested copy	तसदीक की हुई प्रति
attestation	तसदीक

attesting witness	तसदीकी गवाह
attestor	तसदीककर्ता
attorney	मुख्तार, प्राभिकर्ता
attitude	रख, रवैया
Attorney General	महान्यायवादी
letter of attorney	मुख्तारनामा, प्राभिकर्ता पत्र
power of attorney	प्राभिकर्ता का अधिकार
attract <i>vb.</i>	आकर्षित करना
attributable	आरोप्य, के कारण घटित होना
attribute <i>n.</i>	विशेषता, गुण
<i>vb.</i>	आरोपित करना
auction <i>n.</i>	नीलाम
<i>vb.</i>	नीलाम करना
auctioneer	नीलाम करने वाला, नीलामकर्ता
audacious	ढीठ, धृष्ट, धृष्टतापूर्ण
audacity	ढिठाई, धृष्टता
audible	जो सुना जा सके
audience	सुनवाई, श्रोताजन
audit <i>n.</i>	लेखापरीक्षा
<i>vb.</i>	लेखापरीक्षण करना
audit and accounts	लेखा और लेखापरीक्षा
audit instructions	लेखापरीक्षा की हिदायतें, लेखापरीक्षा के अनुदेश
audit objections	लेखापरीक्षा के एतराज, लेखापरीक्षा की आपत्तियाँ
audit report	लेखापरीक्षा रिपोर्ट
Audit & Account Service	लेखा और लेखापरीक्षा सेवा
audited account	परीक्षित लेखा
auditor	लेखापरीक्षक
Auditor General	महालेखापरीक्षक
augment <i>vb.</i>	(i) बढ़ाना (ii) आवर्धन करना
augmentation	आवर्धन
augmentative	आवर्धन-सम्बन्धी
augury	शकुन
auspices	तत्वावधान
under the auspices of	के तत्वावधान में
auspicious	शुभ

austere	(i) कठोर (ii) मितव्ययी
austerity	(i) कठोरता (ii) मितव्ययिता
austerity provisioning scheme	मितव्ययी योजना
authentic	अविप्रामाणिक
authenticate <i>vb.</i>	अविप्रमाणित करना
authenticated	अविप्रमाणित
authentication	अविप्रमाणन
authenticity	अविप्रामाणिकता
author	(i) ग्रंथकार, रचयिता (ii) कर्त्ता
authorise <i>vb.</i>	अधिकार देना
authorised	अधिकृत
authorised capital	अधिकृत पूंजी
authorised expenditure	अधिकृत व्यय
authorised stock	अधिकृत स्टॉक
authorisation	अधिकार देना
authoritarian	अधिकारपूर्ण
authoritative	अधिकृत
authoritatively	अधिकृत रूप से
authority	अधिकारी, अधिकार, अधिकरण
letter of authority	अधिकार पत्र
autobiographical	आत्मकथा-सम्बन्धी
autography	आत्मकथा
autocracy	निरंकुश शासन
autocratic	निरंकुश
autograph	स्वाक्षर
automatic	(i) स्वचल (ii) स्वचालित
automatically	अपने आप, स्वतः
autonomous	स्वायत्त
autonomous unit	स्वायत्त इकाई
autonomy	स्वायत्तता, स्वायत्त शासन
provincial autonomy	प्रान्तीय स्वायत्त शासन
auxiliary	सहायक
auxiliary force	सहायक सेना
avail <i>vb.</i>	(i) काम में लाना (ii) उपयोगी होना
availability	उपलब्ध, प्रयोजनीयता

available	उपलब्ध
avarice	लालच, लोभ
avaricious	लालची, लोभी
aver <i>vb.</i>	दृढ़तापूर्वक कहना
average	औसत
on an average	औसतन
averse	खिलाफ, विरुद्ध
aversion	(i) द्वेष (ii) विरुचि
avert <i>vb.</i>	(i) वचा लेना (ii) निवारण करना
averted collision (Rly.)	निवारित टक्कर
aviation	विमान चालन
civil aviation	सिविल विमान चालन
avocation <i>n.</i>	धन्धा, उद्यम, रोजगार
avoid <i>vb.</i>	(i) अलग रहना (ii) वचना (iii) परिहार करना
avoidable	परिहार्य
avoidance	परिहार
avoiding line	परिहार लाइन
avow <i>vb.</i> (declare openly)	खुलकर कहना, स्पष्ट रूप से कहना
avowedly	खुलकर, स्पष्ट रूप से
await <i>vb.</i>	प्रतीक्षा करना, जोहना, इन्तजार करना
awakening	जागरण, जागृति
award <i>n.</i>	(i) पंचाट, निर्णय, फैसला (ii) इनाम, पुरस्कार
<i>vb.</i>	(i) निर्णय करना, फैसला करना (ii) देना, प्रदान करना
bank-award	वैंक पचाट
communal award	साम्प्रदायिक निर्णय
labour award	श्रमिक पचाट
aware <i>vb.</i>	जानकारी रखना, जान होना
awareness	जानकारी
awkward	भद्दा
axiom	स्वय-सिद्धि
axiomatic	स्वयं-सिद्ध




‘B’

back <i>n.</i>	पीठ, पिछला भाग
<i>adj.</i>	पिछला
<i>vb.</i>	समर्थन करना, ताईद करना
back a resolution	प्रस्ताव का समर्थन करना
back-out <i>vb.</i>	मुकर जाना, (वचन देकर) पीछे हटना
back-bite <i>n.</i>	चुगलखोर
<i>vb.</i>	चुगली करना
back-biting	चुगली, पीठ पीछे वुराई करना
back date	पिछली तारीख
back-dated	पिछली तारीख का
background	भूमिका, पृष्ठभूमि
backing	सहारा, समर्थन
backward	(i) पिछड़ा हुआ, अविकसित (ii) मन्द बुद्धि
backward area	पिछड़ा हुआ इलाका, अविकसित क्षेत्र
backward classes	पिछड़े वर्ग
backwardness	पिछड़ापन, मन्दता
bacteria	कीटाणु
bacterial	कीटाणु संबंधी
bacterial warfare	कीटाणु युद्ध
bad*	बुरा, खोटा, अप्राप्य, दोषपूर्ण, सदोष
bad behaviour	बुरा वर्तव
bad character	बदमाश
bad conduct	दुराचरण, दुराचार
bad coin	खोटा सिक्का
bad debts	अशोध्य ऋण
bad faith	बुरी नियत
bad habit	बुरी आदत, दुर्व्यसन

\* संस्कृत के 'कु' 'दुर' 'वि' और 'अप' और फारसी के 'बद' उपसर्ग में बने हुए शब्द भी 'bad' का अर्थ अभिव्यक्त करते हैं ।

bad reputation	कुख्याति
bad ventilation	कुवातन
bad weather	खराब मौसम
badge	बिल्ला
baffle <i>vb.</i>	घबराहट पैदा करना
baffling	घबराहट पैदा करने वाला
baffling situation	घबराहट पैदा करने वाली स्थिति
bail <i>n.</i>	जमानत
<i>vb.</i>	जमानत देना, जमानत पर छोड़ना
to stand bail	जामिन होना
bail, pecuniary	नकद जमानत
bail, personal	व्यक्तिगत जमानत
bail for good conduct	नेकचलनी के लिए जमानत
bail bond	जमानतनामा
bailable	जमानती
bailable offence	जमानती अपराध
bailable process	जमानती समादेश
bailee	जामिनी
bailor	जामिन
balance	तुला, संतुलन, बाकी, शेष
balance of payment	बाकी देनगी, शेष देनगी
balance of power	शक्ति-संतुलन
balance of trade	व्यापार संतुलन
balance sheet	तुलन-पत्र
balance-closing	अथ-शेष
balance-opening	इति-शेष
balance, outstanding-balance due	बकाया
balance—credit	जमा शेष
balance—debit	नाम शेष
balancea	संतुलित
balanced budget	संतुलित बजट
balanced diet	संतुलित आहार
balanced economy	संतुलित अर्थव्यवस्था
balancing <i>n.</i>	संतुलन
<i>adj.</i>	संतुलित
ballo+	मतदान, गुप्त मतदान



first ballot	पहला मतदान
second ballot	दूसरा मतदान
secret ballot	गुप्त मतदान
ballot box	मत पेटी, मतदान पेटी
ballot paper	मत पत्र, मतदान पत्र
ballot system	गुप्त मतदान प्रणाली
ban <i>n.</i>	रोक, पावन्दी, निषेध
<i>vb.</i>	रोक लगाना, पावन्दी लगाना, निषिद्ध करना
bane	विष, जहर
baneful	घातक, विनाशकारी
bank	बैंक, किनारा, तट
bank account	बैंक खाता
bank bill	बैंक हुण्डी
bank credit	बैंक से उधार
bank draft	बैंक ड्राफ्ट
bank guarantee	बैंक गारण्टी
bank rate	बैंक दर
banker	बैंकर, महाजन, बैंक व्यवसायी
banking	बैंकिंग, महाजनी, बैंक व्यवसाय
banking company	बैंकिंग कम्पनी, महाजनी कंपनी
banking transaction	महाजनी कारवार, बैंकिंग कारवार
bankruptcy	दिवाला
bankruptcy law	दिवाला कानून
bankrupt	दिवालिया
banner	निशान, झण्डा
bar <i>n.</i>	छड़, रोक, बाधा, विधिजीवी वर्ग, न्यायालय
<i>vb.</i>	रोकना, वर्जित करना, बाधित करना
bar association	विधिजीवी संघ
bar council	विधिजीवी परिषद्
bar, efficiency	दक्षता रोध
barred	बाधित
barred by limitation	अवधि-बाधित, मियाद आरिज ( उर्दू )
barring a few	कुछ को छोड़ कर
barbarian	बर्बर
barbarity	बर्बरता

barbarous	बर्बर, बर्बरतापूर्ण
bare-faced	वेशरम, निर्लज्ज
bargain <i>n.</i>	सौदा
<i>vb.</i>	सौदा करना
good bargain	अच्छा सौदा, लाभ का सौदा
strike a bargain	लाभकर सौदा करना
barometer	बैरोमीटर
barometer gauge	बैरोमीटर मापी
barrack	बैरक
barren	ऊसर, वंजर, वाँझ
barren land	ऊसर ज़मीन
barricade	अवरोध, रुकावट
barriers	रोध
barrister	बैरिस्टर
barter	वस्तु विनिमय
barter system	वस्तु विनिमय प्रणाली
base <i>n.</i>	आधार, नींव, बुनियाद, तल, अड्डा
<i>adj.</i>	खोटा, कमीना, हीन
<i>vb.</i>	आधार बनाना
military base	सैनिक अड्डा
naval base	नौसैनिक अड्डा
base metal	हीनधातु
baseless	निराधार
basement	(मकान की) निचली मंज़िल
baseness	कमीनापन, खोटापन, नीचता
basic	मूल, बुनियादी
basic cost	मूल लागत
basic education	बुनियादी शिक्षा
basic industry	बुनियादी उद्योग
basic pay	मूल वेतन
basic principles	मूल सिद्धांत
basic question	बुनियादी सवाल, मूल प्रश्न
basic right	मूल अधिकार
basic school	बुनियादी स्कूल, बेसिक स्कूल
basis	आधार
batch	टोली
baton	बैटन

battalion	बटालियन
battery	बैटरी
battlefield	लड़ाई का मैदान, युद्ध क्षेत्र
battle-ship	युद्धपोत, जंगीजहाज
bear <i>vb.</i>	सहना, वहन करना
<i>n.</i>	मन्दड़िया
bearer	वाहक, वेअग
bearer cheque	वाहक चेक
bearing <i>n.</i>	सम्बन्ध, वैरंग
bearing letter	वैरंग चिट्ठी
beat (of beat of a postman)	गश्त क्षेत्र
become <i>vb.</i>	होना, उचित होना
becoming <i>adj.</i>	उचित
unbecoming	अनुचित
befall <i>vb.</i>	घटित होना, आ पड़ना
before cited	पूर्वकथित
before hand	पहले से
before mentioned	पूर्वोक्त
before time	(निर्धारित) समय से पहले
on behalf of	की ओर से
on that behalf	उसके बारे में, उस सम्बन्ध में
behave <i>vb.</i>	अच्छा बर्ताव करना, शिष्ट व्यवहार करना
well-behaved	शिष्ट
behaviour	बर्ताव,
behave <i>vb.</i>	यथोचित होना
belabour <i>vb.</i>	पीटना, पिटाई करना
belie <i>vb.</i>	झूठा बनाना, असत्य बनाना
belief	विश्वास, यकीन
believe <i>vb.</i>	विश्वास करना, यकीन करना
belittle <i>vb.</i>	तौहीन करना, अवमान करना
belligerency	युद्ध की स्थिति
belligerent	युद्धरत
belligerent country	युद्धरत देश
belongings	किसी की सम्पत्ति
below par	घाटे पर, लागत से कम मूल्य पर
below standard	स्तर से नीचे
bench	बेंच, न्यायपीठ

full bench	पूर्ण न्यायपीठ
bench of the High Court	हाईकोर्ट का न्यायपीठ
benefaction	उपकार
benefactor	उपकारी, उपकारकर्ता,
beneficence	उपकार
beneficent	उपकारकर्ता, उपकारक
beneficial	लाभप्रद, लाभकारी
beneficiary	लाभग्राही
benefit <i>n.</i>	लाभ, हित
<i>vb.</i>	लाभपाना, हितकर होना
benefit of doubt	संदेह का लाभ
benefit period	लाभ की अवधि
benevolence	परोपकारिता
benevolent	हितैषी, परोपकारी
bequeath <i>vb.</i>	वसीयत करना
bequest <i>n.</i>	वसीयत
bereave	छीन लेना, विहीन करना, विहीन होना
bereaved	(प्रियजन के निधन से) दुखी, संतप्त
bereavement	प्रियजन के निधन का शोक
berth	वर्ध, शायिका, घाट
besiege <i>n.</i>	घेरा
<i>vb.</i>	घेरा डालना
besieged	घिरा हुआ
best	सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम
to the best of ones' knowledge and belief	अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार
bestial	पाशविक
bestiality	पशुगमन
bet <i>vb.</i>	देना, प्रदान करना
better <i>vb.</i>	वाजी लगाना
betterment	सुधारना, आगे बढ़ जाना
betting	सुधार, बेहतरी
<i>betray</i> <i>v.</i>	वाजी लगाना
<i>trav a trust</i>	विश्वासघात करना, प्रकट करना, भेद खोलना
<i>trav a trust</i>	अपनी अज्ञानता प्रकट करना
	विश्वासघात करना

betrayal	विश्वासघात
beware <i>vb.</i>	सावधान होना
beyond	पर, से बाहर, से आगे
beyond jurisdiction	अधिकारक्षेत्र से परे
bias <i>n.</i>	झुकाव, अभिनति
biased (P.P.)	पक्षपातपूर्ण
bibliography	ग्रन्थसूची, पुस्तक-सूची
bi-cameral	द्विसदनी
bi-cameral legislature	द्विसदनी विधान मण्डल
bi-cameralism	द्विसदनी विधानमण्डल प्रणाली
bid <i>n.</i>	नीलाम की बोली ( नीलाम में ) बोली लगाना, आदेश देना, कहना
bidding	बोली लगाना
biennial	द्विवाषिक, दो साला
bifurcate <i>vb.</i>	दो शाखाओं में बँटना
birfurcation	द्विशाखन
bigot <i>n.</i>	धर्मान्ध व्यक्ति
bigotry	धर्मान्धता
bilateral—	दोतरफा, द्विपक्षीय
bilateral contract	द्विपक्षीय संविदा
bill	बिल, विधेयक, दृण्डी
amending bill	संशोधन विधेयक
appropriation bill	विनियोग विधेयक
finance bill	वित्त विधेयक
indemnity bill	क्षतिपूर्ति बिल
bill of exchange	विनिमय पत्र
pay bill	वेतन बिल
bill of payment	भुगतान बिल
bill of lading	लदान बिल
bill of rights	अधिकारपत्र
bind <i>vb.</i>	बाँधना, बाध्य करना, मुचलका लेना
binding <i>adj.</i>	बाँधनकारी, बाध्यक
<i>n.</i>	बाँधन
biographical	जीवन-संबंधी
biographical sketch	जीवन-संबंधी विवरण
biographer	जीवनीकार
biography	जीवनी

bipartite <i>adj.</i>	दो भागों में बँटा हुआ
birth control	संतति-निग्रह, मन्तति-निरोध
birth date	जन्म-तिथि
birth mark	जन्म-चिन्ह
birth place	जन्म-स्थान
birth rate	जन्मदर
bitter	कटु, कड़ुआ,
bitterness	कटुता, कड़ुआपन
bi-weekly	अर्ध-साप्ताहिक
black	काला
black book	काली किताब
black list	काली सूची, संदिग्ध व्यक्तियों की सूची,
black-mail	लांछन की धमकी देकर पैसा ऐंठना
blackmailing	
black market	चोर बाज़ार
black marketing	चोर बाज़ारी
black marketeer	चोर बाज़ारी करने वाला
blame <i>n.</i>	निन्दा, दोष
<i>vb.</i>	निन्दा करना, दोष देना
blamable	निन्दनीय
blameless	निर्दोष
blank	कोरा
blank off <i>vb.</i>	काट देना
blank cheque	कोरा चेक
blemish <i>n.</i>	लांछन
<i>vb.</i>	लांछन लगाना
block <i>n.</i>	ब्लॉक, खण्ड, समूह, अवरोध
<i>vb.</i>	रोकना, रुकावट डालना, अवरोध करना
blocked	अवरुद्ध
blockade	घेरा, नाकेबन्दी
blood donor	रक्तदाता
blood relation	रक्त संबंधी, रक्त संबंध
blood test	रक्त की जाँच, खून की जाँच
bloodless	रक्तहीन, अहिंसक
bloodless revolution	रक्तहीन क्रान्ति, अहिंसक क्रान्ति
blood-bred	रक्तपान



blot <i>n.</i>	घब्बा
<i>vb.</i>	मिटाना
blue print	रूप-रेखा
bluff <i>n.</i>	डोंग, झाँसा
<i>vb.</i>	डोंग मारना, झाँसा देना
bluffing	डोंग, झाँसा
blunder	भारी भूल
<i>vb.</i>	भारी भूल करना
blunt	कुन्द, अविनीत, स्पष्ट
bluntly	रुखाई से, अविनीत भाव से
bluntness	रुखाई, अविनीत भाव
board <i>n.</i>	वोर्ड, मण्डल, पटरा (पट्ट)
<i>vb.</i>	चढ़ना
above board	सन्देह से परे
board of censors	अभिवेचक मण्डल
board of control	नियंत्रक मण्डल
board of directors	निदेशक मण्डल
board of education	शिक्षा-मण्डल
board of examiners	परीक्षक मण्डल
board of revenue	राजस्व बोर्ड, राजस्व मण्डल
board of trade	व्यापार मण्डल
boarding	भोजन
boarding charges	भोजन-व्यय
boarding house	भोजनालय
boarding and lodging	भोजन और निवास
bodily	शारीरिक
bodily injury	(शारीरिक) चोट
body	शरीर, निकाय, ढाँचा
body corporate	निगम निकाय
body politic	राज निकाय
body-guard	अंग रक्षक, शरीररक्षी (वैंगला)
bogey	नारा, हीवा
bogie	दौगी
bogus	झूठा, बनावटी
bogus claim	झूठा दावा
bogus document	झूठा दस्तावेज
boiler	बॉयलर

boisterous	प्रबल, प्रचंड
bombard <i>vb.</i>	बमबारी करना, बम गिराना
bomber	बॉम्बर
booked route (Rly.)	निर्धारित मार्ग
bonafide	सद्भावी, सदाशयी, वास्तविक
bona-fides <i>n.</i>	सद्भावना, सदाशयता, वास्तविकता
bona vacantia	स्वामिहीनत्व
bond <i>n.</i>	बन्ध, बन्धक, संगबन्ध
<i>vb.</i>	आबद्ध करना
bale-bond	बन्ध पत्र
conditional bond	सशर्त बन्ध
indemnity bond	क्षतिपूर्ति बन्ध
mortgage bond	रेहननामा
security bond	ज़मानतनामा
bondage	गुलामी
bonded	आबद्ध
bonded goods	आबद्ध माल
bone of contention	विवाद का विषय
bonus	बोनस
cash bonus	नकद बोनस
reversionary bonus	प्रत्यावर्ती बोनस
yearly bonus	वार्षिक बोनस
book <i>n.</i>	किताब, पुस्तक, वही
<i>vb.</i>	दर्ज करना, बुक करना
account book	लेखा वही
cash book	रोकड़ वही
complaint book	शिकायत पंजी
financial hand book	वित्त गुटिका
petty cash book	खुदरा रोकड़ वही
returns inward book	आगत माल विवरणी
returns outward book	निर्गामी माल विवरणी
booked expenditure	दर्ज खर्च
booked route (Rly.)	निर्धारित रास्ता
booking	बुकिंग
booking agency	बुकिंग एजेंसी
booking clerk	बुकिंग क्लर्क
booking office	बुकिंग ऑफिस


passenger booking office (Rly.)	टिकट घर
booking restriction	बुकिंग पर पाबन्दी
boom	तेजी, तेज वाजार
booth	केन्द्र
booth polling	मतदान केन्द्र
border	किनारा, सीमा
border area	सीमा क्षेत्र
border dispute	सीमा विवाद
border-line	सीमा रेखा
borrow <i>vb.</i>	उधार लेना, कर्ज लेना
borrowing power	उधार लेने का अधिकार
botanical	वनस्पति, सम्बन्धी, वानस्पतिक
botanical garden	वनस्पति उद्यान
bother <i>vb.</i>	परेशान करना, दिक्क करना
botheration	परेशानी, दिक्कत
bothersome	परेशान करने वाला, दिक्क करने वाला
bottle-neck	मार्गावरोध, गत्यवरोध
bounds	} सीमा, हद
boundary	
boundary commission	सीमा कमीशन, सीमा आयोग
boundary dispute	सीमा विवाद
boundary line	सीमा रेखा
boundary mark	सीमा चिन्ह
bounty	उदारता, कृपा
boycott <i>n.</i>	वहिष्कार
<i>vb.</i>	वहिष्कार करना
social boycott	सामाजिक बहिष्कार
boycotted	वहिष्कृत
brake <i>n.</i>	ब्रेक, रोक
<i>vb.</i>	ब्रेक । रोक लगाना
braking distance	ब्रेक लगाने की दूरी
branch	शाखा
branch account	शाखा लेखा
branch officer	शाखा अफसर
accounts branch	लेखा शाखा
budget branch	बजट शाखा
cash branch	रोकड़ शाखा

establishment branch	सिब्बन्दी शाखा
finance branch	वित्त शाखा
general branch	सामान्य शाखा
statistical branch	अंक शाखा
traffic branch	यातायात शाखा
breach	(i) टूट-फूट, (ii) तोड़ना, भंग, घात
breach of contract	संविदा भंग
breach of covenant	प्रसंविता भंग
breach of faith	विश्वासघात
breach of law	कानून तोड़ना विधिभंग,
breach of peace	शान्तिभंग
breach of privilege	विशेषाधिकार भंग
apprehension of breach of peace	शान्तिभंग का अन्देश
breach of trust	विश्वासघात
bread-winner	रोटी कमाने वाला
break journey	यात्रा-विराम
break-down n.	विभंग
<i>vb.</i>	विभंग होना
break in service	सेवा-भंग
break-van	ब्रेकवान
breed n.	नस्ल, जाति
<i>vb.</i>	पैदा करना, पालन-पोषण करना
breeding	प्रजनन
breakage	टूट-फूट
brevity	संक्षेप
brewery	शराबभट्टी, दारूभट्टी (मराठी)
bribe n.	घूस, रिश्वत
<i>vb.</i>	घूस देना, रिश्वत देना
lubbery	घूस, रिश्वत
brief n.	हिदायत, निर्देश, मामला
<i>adj.</i>	संक्षिप्त
briefing	पक्षसार
briefly	संक्षेप में
brigade	ब्रिगेड
fire-brigade	अग्निशामक
brigadier	ब्रिगेडियर
brilliance	प्रतिभा, नेजम्बिता, चमक-दमक

brilliant	प्रतिभाशाली, तेजस्वी, चमकीला
brilliant record of service	सेवा का प्रतिभाशाली अभिलेख
brisk	तेज, तीव्र
brisk trade	तेज व्यापार
broadcast <i>n.</i>	प्रसारण
<i>vb.</i>	प्रसारित करना
broadcasting	प्रसारण
broadcasting station	रेडियो स्टेशन
brochure	पुस्तिका
broker	दलाल
brokerage	दलाली
browbeat <i>vb.</i>	आँख दिखाकर डराना, घुडकी देना
brusque <i>adj.</i>	रुखा
brusqueness	रुखापन
brutal	क्रूर
brutality	क्रूरता
budget	वजट
budget estimates	वजट अनुमान
budget-deficit	घाटे का वजट
budget grant	वजट अनुदान
budget provision	वजट व्यवस्था
budget revised	संशोधित वजट
budget reappropriation	वजट पुनर्विनियोग
budget-surplus	वचत का वजट
budget supplementary	पूरक वजट
budgeted	वजट में व्यवस्थित
budgetary	वजट सम्बन्धी
budgetary control	वजट नियंत्रण
buffer	वफर, मध्यवर्ती
buffer state	मध्यवर्ती राज्य
build <i>vb.</i>	बनाना, निर्माण करना
character building	चरित्र-निर्माण
building	मकान, इमारत, भवन
residential building	रहने का मकान
multi-storeyed building	कई मंजिलों वाली इमारत
bulk	थोक, अधिकांश, विस्तार
bulky	अधिक जगह घेरने वाला

bulky articles	अधिक जगह घेरने वाली चीजें
bullet	गोली
bullet-proof	गोलीरोक
bulletin	बुलेटिन
bullion	सोना-चाँदी (सर्पिका)
bullion market	सर्पिका बाजार
bund	बाँध
bundle	बंडल, गट्ठर
burden	बोझ, भार
burden of proof	प्रमाण-भार
burdensome	बोझिल
bureau	ब्यूरो
information bureau	सूचना ब्यूरो
bureau of economics	अर्थशास्त्र ब्यूरो
bureau of psychology	मनोविज्ञान ब्यूरो
bureaucrat	नौकरशाह
bureaucratic	नौकरशाही
bureaucracy	नौकरशाही
burglar	सेंध काटने वाला चोर, सेंधमार
burglary	सेंध, नकबजनी
burial ground	कब्रगाह, कब्रिस्तान
burial rites	शव दफनाने के संस्कार
burning question	ज्वलन्त प्रश्न
business	काम, कारवार, घन्वा, व्यवसाय
business hours	काम के घण्टे
business letter	व्यावसायिक पत्र
business mentality	व्यवसाय बुद्धि
business method	व्यवसाय पद्धति
business organisation	व्यवसाय संगठन
rules of business	कार्य-नियम
businessman	व्यवसायी, व्यापारी
busy	व्यस्त, मशगूल
busy period	व्यस्तकाल
by authority of	के अधिकार से
by-election	उपनिर्वाचन
by-law	उपविधि, उपनियम
by order	आदेश से

by return of post	लौटती डाक से
by-pass	उपमार्ग
by-product	उपजात
by instalment	किस्तों में
by virtue of	के आधार पर
by way of	के रूप में
by way of amendment	संशोधन के रूप में



'C'

cabin	केविन, कोष्ठ
cabinman	केविनमैन
cabinet	मंत्रिमण्डल
cabinet council	मंत्रिमण्डल परिषद्
cabinet crisis	मंत्रिमण्डलीय संकट
cabinet minister	मंत्रिमण्डल के मंत्री
cabinet rank	मंत्रिमण्डलीय ओहदा
cable <i>n.</i>	(i) तार (ii) समुद्रीतार
<i>vb.</i>	समुद्रीतार देना
telegram	समुद्रीतार
cadet	केडेट
cadet corps	केडेट कोर
cadre	संवर्ग
cadre emergency	आपाती संवर्ग
ex-cadre	वहिसंवर्ग
ex-cadre appointment	वहिसंवर्ग नियुक्ति
ex-cadre post	वहिसंवर्ग पद
cadre regular	नियमित संवर्ग
cadre check	संवर्ग जाँच
cadre register	संवर्ग रजिस्टर
calamitous	संकटपूर्ण
calamity	संकट, मुसीबत, आपद्
calculable	गणनीय
calculate <i>vb.</i>	(i) हिसाब लगाना (ii) गणना करना
calculated	गणित (ii) सुनियोजित
calculated fare	(i) गणित किराया
calculating machine	हिसाबी मशीन
calculation	गणना
calculator	गणक, हिसाबी मशीन
calendar	कैलेण्डर
calendar day	कैलेण्डर दिन
calendar month	कैलेण्डर मास



calendar year	कैलेण्डर वर्ष
calibre	मानसिक शक्ति
call <i>n.</i>	बुलावा, आह्वान
<i>vb.</i>	बुलाना, आमंत्रण करना
call bell	(बुलावा) घंटी
call attention	ध्यान दिलाना, ध्यानआ कर्षण करना
call attention notice	ध्यान आकर्षण नोटिस
call letters	आह्वान पत्र
call in question	एतराज करना, आपत्ति करना
call for <i>vb.</i>	मँगाना
call off <i>vb.</i>	वापस लेना
call on <i>vb.</i>	भेंट करना
calligraphist	सुलेखकार
calligraphy	सुलेखकला
calling	घन्घा, व्यवसाय
calling tax	व्यवसाय कर
calling on signal (Rly.)	बुलावा सिगनल
callous	हृदयहीन
callousness	हृदयहीनता
calumniate <i>vb.</i>	आक्षेप लगाना
<b>calumnious</b>	आक्षेपपूर्ण
calumny	आक्षेप
meeting in camera	गुप्त बैठक
camp	खेमा, शिविर
camp address	शिविर का पता
camp follower	अनुचर
camp office	शिविर कार्यालय
camping coach (Rly.)	शिविर यान
campaign <i>n.</i>	अभियान
<i>vb.</i>	अभियान चलाना
cancel <i>vb.</i>	रद्द करना, निरसन करना
cancel last signal (Rly.)	पिछला सन्देश रद्द समझो
cancellation	रद्द करना, निरसन
cancellation of	इकट्ठा किये गये टिकटों का निरसन
collected tickets	
cancellation message	निरसन सन्देश
candid	निष्पक्ष

candidly	निष्पक्ष भाव से
candidate	उम्मीदवार
candidacy	उम्मीदवारी
candidature } 3	
canons	सिद्धान्त, धर्मदेश
canteen	कैंटीन
cantonment	छावनी
cantonment area	छावनी क्षेत्र
cantonment board	छावनी बोर्ड
canvass <i>vb.</i>	(i) वोट माँगना, मत याचना करना (ii) अनुनय करना
canvasser	मतयाचक, अनुनयकर्ता
canvassing	(i) मतयाचना (ii) अनुनय
capability	योग्यता, सामर्थ्य
capable	योग्य, समर्थ
capacious	खुला हुआ, विस्तीर्ण
capacitate <i>vb.</i>	समर्थ बनाना
capacity	(i) हैसियत (ii) क्षमता
in the capacity of	की हैसियत से
per capita	प्रति जन, फ्री आदमी
per capita consumption	प्रति जन खपत, फ्री आदमी खपत
per capita expenditure	प्रति जन खर्च
per capita income	प्रति जन आमदनी
capital	(i) पूँजी (ii) राजधानी (iii) मूलधन
capital at charge	व्याजदेय पूँजी
capital cost	पूँजीगत लागत
capital expenditure	पूँजीगत खर्च
capital investment	पूँजीगत निवेश
capital offence	प्राणदण्ड का अपराध । मौत की सजा का जुर्म
capital outlay	पूँजी
capital punishment	प्राणदण्ड, फाँसी की सजा
capitalist	पूँजीपति
capitalistic	पूँजीवादी
capitalization <i>vb.</i>	पूँजीकरण
over-capitalization	अतिपूँजीकरण
capitalize <i>vb.</i>	पूँजीकरण

capitalized expenditure	पूँजीकृत व्यय
capitation	प्रति जन
capitation tax	प्रति जन कर
capitulate <i>vb.</i>	आत्म-समर्पण करना
capsize <i>vb.</i>	उलट जाना
caption	(i) शीर्षक (ii) कानूनी गिरफ्तारी
captive	कैदी, वन्दी
carbon	कार्बन
card	कार्ड
card index	कार्ड सूचक
card ticket	कार्ड टिकट
cardinal <i>adj.</i>	मूल, आधारभूत, प्रधान
cardinal principle	मूल सिद्धान्त
care <i>n.</i>	(i) देख-भाल, हिफाजत, (ii) अवधान
<i>vb.</i>	(iii) चिन्ता
	देख-भाल करना, हिफाजत करना, चिन्ता करना
carefree	चिन्तामुक्त
careful	सावधान
carefully	सावधानी के साथ
careless	लापरवाह, असावधान
caretaker	कामचलाऊ, अवधाता अवधात्री
caretaker government	कामचलाऊ सरकार, अवधात्री सरकार
carriage	वहन, वाहन
carrier	वाहक
carrier liability	वाहक-दायिता
carry <i>vb.</i>	ढोना, वहन करना
cartage	गाड़ी-भाड़ा
case <i>n.</i>	(i) मामला, प्रकरण (ii) स्थिति, अवस्था
	(iii) अभियोग
case diary (Police)	अभियोग डायरी
case-list (Police)	अभियोग सूची
as the case may be	जैसी स्थिति हो, जैसी मूरत हो
in case	अगर, यदि
case under consideration	विचाराधीन मामला
ash	नकद, रोकड़

cash balance	रोकड़ बाकी
cash book	रोकड़ वही
cash check sheet	रोकड़ जाँचपत्र
cash crop	नकदी फ़सल
cash deposit	नकद जमा
cash imprest	नक़द अग्रदाय
cash memo	नकदनामा
cash payment	नकद देनगी
cash refund	नकद वापसी
cash register	रोकड़ रजिस्टर
cash security	नकद जमानत
cash transaction	नकद लेन-देन, नकद व्यवहार
cashier	खज़ांची
caste	जाति
casting vote	निर्णयक मत
casual	(i) आकस्मिक (ii) नैमित्तिक (iii) उपेक्षापूर्ण
casual labour	नैमित्तिक मज़दूर
casual leave	आकस्मिक छुट्टी
casual vacancy	आकस्मिक रिक्ति
casualties	हताहत संख्या
casualty	(i) हताहत (ii) आकस्मिक दुर्घटना, आपात
casualty ward (in a hospital)	आपात कक्ष
casually	उपेक्षापूर्ण ढंग से
catalogue n.	सूची, सूची पत्र
vb.	सूची बनाना
cater vb.	खान-पान का प्रबन्ध करना
cater to the needs of	की आवश्यकताओं को पूरा करना
catering charges	खान-पान व्यय
catering contract	खान-पान का ठेका
catering department	खान-पान विभाग
catering establishment	खान-पान सिव्बन्दी
catering departmental	विभागीय खान-पान व्यवस्था
catering, private	प्राइवेट खान-पान व्यवस्था
categorical	निरुपाधिक

categorise <i>vb.</i>	वर्गीकरण करना
category	कोटि, वर्ग
cattle	मवेशी, पशु, डोर
cattle-breeding	पशु-प्रजनन
cattle pound	मवेशी-खाना
cattle trespass Act	पशु अतिचार अधिनियम
cattle wagon	मवेशियों का डिब्बा
cause <i>n.</i>	कारण, प्रयोजन, पक्ष, नालिश
<i>vb.</i>	कारण बनना
cause of action	मुकदमे का कारण
cause list	मुकदमों की सूची
causeless	अकारण, निराधार
caution	सावधानी, सतर्कता
caution money	जमानती रकम
cautious	सतर्क
cede <i>vb.</i>	देना, अर्पण करना
ceiling <i>n.</i>	भीतरी छत, अंतिम सीमा
<i>adj.</i>	अधिकतम
ceiling price	अधिकतम मूल्य
celebrate <i>vb.</i>	मनाना, उत्सव मनाना, खुशी मनाना
celebration	उत्सव
cemetery	कब्रगाह, कब्रिस्तान
censor <i>n.</i>	अभिवेचक
<i>vb.</i>	अभिवेचन करना
censorship	अभिवेचन
botrd of censors	अभिवेचक मण्डल
ensorious	दोषान्वेषी, दोष निकालने वाला
censure <i>n.</i>	निन्दा
<i>vb.</i>	निन्दा करना
censure motion	निन्दा प्रस्ताव
census (of population)	जनगणना
census report	जनगणना रिपोर्ट, गणना रिपोर्ट
cent per cent	गतप्रतिगत, सौ फ्रीसदी
central	केन्द्रीय, मध्य स्थित
central board of revenue	केन्द्रीय राजस्व मण्डल
central exchequer	केन्द्रीय राजकोष
central excise	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, केन्द्रीय आवकारी

central excise department	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग
central Government	केन्द्रीय सरकार
central intelligence bureau	केन्द्रीय गुप्तवार्ता ब्यूरो
central jail	केन्द्रीय जेल । केन्द्रीय कारागार
central legislature	केन्द्रीय विधान मण्डल
central pay commission	केन्द्रीय वेतन आयोग
central public works department	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग । केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग
central subject	केन्द्रीय विषय
central transport authority	केन्द्रीय परिवहन
centralize <i>vb.</i>	केन्द्रीकरण
centralization <i>n.</i>	केन्द्रीकरण
centre	केन्द्र, बीच में
centrifugal force	अपकेन्द्री बल
ceremony	समारोह, संस्कार
ceremonial	समारोह-संबंधी, संस्कार-सम्बन्धी
ceremonial occasion	समारोहिक अवसर
ceremonial parade	समारोह परेड
certificate-medical	डाक्टरी प्रमाण-पत्र
certificate of competency	सक्षमता प्रमाण-पत्र
certificate of fitness	(i) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र (ii) अरोग्य प्रमाण-पत्र
certificate for non-acceptance of goods	माल न लेने का प्रमाण-पत्र
certificate-last pay	अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र
certificate of character	चरित्र प्रमाण-पत्र
certificate of posting	डाक से भेजने का प्रमाण-पत्र
certification	प्रमाणन
certifier	प्रमाणकर्ता
certified	प्रमाणित
certify <i>vb.</i>	प्रमाणित करना
cess	उपकार
cessation	समाप्ति, अन्त
challenge <i>n.</i>	चालान
challenge <i>vb.</i>	चालान करना
challenge <i>n.</i>	चुनौती
challenge <i>vb.</i>	चुनौती देना

central excise department	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग
central Government	केन्द्रीय सरकार
central intelligence bureau	केन्द्रीय गुप्तवार्ता व्यूरो
central jail	केन्द्रीय जेल । केन्द्रीय कारागार
central legislature	केन्द्रीय विधान मण्डल
central pay commission	केन्द्रीय वेतन आयोग
central public works department	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग । केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग
central subject	केन्द्रीय विषय
central transport authority	केन्द्रीय परिवहन
centralize <i>vb.</i>	केन्द्रीकरण
centralization <i>n.</i>	केन्द्रीकरण
centre	केन्द्र, बीच में
centrifugal force	अपकेन्द्री बल
ceremony	समारोह, संस्कार
ceremonial	समारोह-संबंधी, संस्कार-सम्बन्धी
ceremonial occasion	समारोहिक अवसर
ceremonial parade	समारोह परेड
certificate-medical	डाक्टरी प्रमाण-पत्र
certificate of competency	सक्षमता प्रमाण-पत्र
certificate of fitness	(i) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र
	(ii) अरोग्य प्रमाण-पत्र
certificate for non-acceptance of goods	माल न लेने का प्रमाण-पत्र
certificate-last pay	अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र
certificate of character	चरित्र प्रमाण-पत्र
certificate of posting	डाक से भेजने का प्रमाण-पत्र
certification	प्रमाणन
certifier	प्रमाणकर्ता
certified	प्रमाणित
certify <i>vb.</i>	प्रमाणित करना
cess	उपकार
cessation	समाप्ति, अन्त
channel <i>n.</i>	चालान
	चालान करना
channel <i>n.</i>	चुनीनी
	चुनीनी देना

categorise <i>vb.</i>	वर्गीकरण करना
category	कोटि, वर्ग
cattle	मवेशी, पशु, ढोर
cattle-breeding	पशु-प्रजनन
cattle pound	मवेशी-खाना
cattle trespass Act	पशु अतिचार अधिनियम
cattle wagon	मवेशियों का डिब्बा
cause <i>n.</i>	कारण, प्रयोजन, पक्ष, नालिश
<i>vb.</i>	कारण बनना
cause of action	मुकदमे का कारण
cause list	मुकदमों की सूची
causeless	अकारण, निराधार
caution	सावधानी, सतर्कता
caution money	जमानती रकम
cautious	सतर्क
cede <i>vb.</i>	देना, अर्पण करना
ceiling <i>n.</i>	भीतरी छत, अंतिम सीमा
<i>adj.</i>	अधिकतम
ceiling price	अधिकतम मूल्य
celebrate <i>vb.</i>	मनाना, उत्सव मनाना, खुशी मनाना
celebration	उत्सव
cemetery	कब्रगाह, कब्रिस्तान
ensor <i>n.</i>	अभिवेचक
<i>vb.</i>	अभिवेचन करना
ensorship	अभिवेचन
botrd of censors	अभिवेचक मण्डल
ensorious	दोषान्वेपी, दोष निकालने वाला
censure <i>n.</i>	निन्दा
<i>vb.</i>	निन्दा करना
censure motion	निन्दा प्रस्ताव
census (of population)	जनगणना
census report	जनगणना रिपोर्ट, गणना रिपोर्ट
cent per cent	शतप्रतिशत, सौ फीसदी
central	केन्द्रीय, मध्य स्थित
central board of revenue	केन्द्रीय राजस्व मण्डल
central exchequer	केन्द्रीय राजकोष
central excise	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, केन्द्रीय आवकारी



challenge validity	वैधता को चुनीती देना
chamber	सदन, संघ
chamber of commerce	वाणिज्य मण्डल
chance <i>n.</i>	संयोग, मौका, अवसर
chancellor (of a university)	कुलपति
change <i>n.</i>	परिवर्तन, तब्दीली, रेज़गारी
<i>vb.</i>	वदलना, परिवर्तन करना
chapter	अध्याय
character	(i) चरित्र, (ii) पात्र (नाटक आदि में)
character certificate	चरित्र-प्रमाण-पत्र
character roll	अमालनामा, चरित्रावली
characteristic <i>n.</i>	विशेषता
<i>adj.</i>	लाक्षणिक स्वभाविक,
charge <i>n.</i>	प्रभार लगाना, आरोप लगाना
charge <i>vb.</i>	कार्यभार, प्रभार, आरोप, अवधान
charge assumption	कार्यभार सम्हालना
charge book	कार्यभार पुस्तक
charge certificate	कार्यभार प्रमाण-पत्र
charge notice	आरोप नोटिस
charge report	कार्यभार रिपोर्ट
charge relinquishment	कार्यभार छोड़ना
charge-sheet	आरोप-पत्र, फर्द-जुर्म
over charge	अतिप्रभार
under charge	अवप्रभार
charge of office	कार्यभार
chargeable	प्रभार्य
chargeable distance	प्रभार्य दूरी
charged	प्रभूत
charged expenditure	प्रभूत व्यय
charitable	(i) खैराती, (ii) दानशील
charitable and religious endow- ment	खैराती और धर्मार्थ दान
charitable institution	खैराती संस्था, पूर्तसंस्था
charitable trust	खैराती न्याय
charity	खैरात, धर्मार्थ
charter <i>n.</i>	अधिकार-पत्र
<i>vb.</i>	भाड़े पर लेना या देना

chartered	(i) भाड़े पर
chartered company	(ii) शासपत्रित
chartered accommodation	शासपत्रित कम्पनी
chartered plane	भाड़े पर ली गयी जगह
check <i>n.</i>	भाड़े का जहाज़
check <i>vb.</i>	जाँच, रोक, अंकुश
checks & balances	रोकना, जाँच करना
collection of passenger tickets	रोक और संतुलन
check on misdeclaration	यात्री टिकटों की जाँच
check post	गलत बयानी की जाँच
cheat <i>n.</i>	जाँच-चौकी
<i>vb.</i>	धोखेबाज़
cheating	धोखा देना
chemical	धोखा
chemical examiner	रसायन-सम्बन्धी, रासायनिक
cheque	रसायन परीक्षक
anti-dated cheque	चेक
bearer cheque	पीछे की तारीख का चेक
blank cheque	वाहक चेक
crossed cheque	कोरा चेक
order cheque	रेखित चेक
post-dated cheque	आदेश चेक
endorsed cheque	आगे की तारीख का चेक
chief	पृष्ठांकित चेक
chief commissioner	मुख्य
chief conservator of forests	मुख्य आयुक्त, / चीफ़ कमिश्नर
chief engineer	मुख्य वन संरक्षक
chief inspector	मुख्य इंजीनियर
chief minister	मुख्य निरीक्षक
chief of the air staff	मुख्य मंत्री
chief of the army staff	वायुसेना अध्यक्ष
chief of the naval staff	थलसेना अध्यक्ष
chief secretary	नौसेना अध्यक्ष
child labour	मुख्य सचिव
child ticket	बालश्रमिक, बालश्रम
child welfare centre	बच्चे का टिकट
	शिशु कल्याण केन्द्र

children's cruelty Act	शिशु निर्दयता अधिनियम
choice	चुनाव, पसन्द
circle	वृत्त, हलका
circle inspector	हलका निरीक्षक
circular letter	परिपत्र
circulate <i>vb.</i>	घुमाना, परिप्रेषण, परिचलन
circulated	परिप्रेषित
circulating area (Rly.)	परिचलन क्षेत्र
circulating assets	परिचल परिसम्पत्तियाँ
circulation	परिप्रेषण, परिचलन
circumvent <i>vb.</i>	धोखा देना, झाँसा देना
circumvention	धोखा, झाँसा
circumstance	परिस्थिति
circumstantial <i>adj.</i>	परिस्थितिजन्य
circumstantial evidence	परिस्थितिजन्य प्रमाण
citation	हवाला, उद्धरण, वाचन
cite <i>vb.</i>	हवाला देना, उद्धृत करना, पढ़कर सुनाना
citizen	नागरिक
citizenship	नागरिकता
citizenship—acquirement of	नागरिकता प्राप्त करना
citizenship—rights of	नागरिक अधिकार
city allowance	नगर भत्ता
city council	नगर परिषद्
civic	नगर-संबंधी, नागरिक-संबन्धी
civic authority	नगर अधिकारी
civic duty	नागरिक कर्तव्य
civic reception	नागरिक स्वागत
civic rights	नागरिक अधिकार
civic sense	नागरिक भावना
civil	सिविल, असैनिक, नागरिक-सम्बन्धी, शिष्ट, व्यवहार-विषयक / दीवानी
civil administration	नागरिक प्रशासन
civil authority	असैनिक अधिकारी
civil court	दीवानी अदालत
civil defence	नागरिक प्रतिरक्षा
civil disability	नागरिक निर्योग्यता
civil disorder	नागरिक अशान्ति

civil dispensary	नागरिक दवाखाना
civil engineering	सिविल इंजीनियरिंग
civil law	व्यवहार विधि, दीवानी कानून
civil liberty	नागरिक स्वतंत्रता
civil lines	सिविल लाइन
civil marriage	अन्तर्जातीय विवाह
civil procedure code	व्यवहार प्रक्रिया संहिता
civil process	दीवानी अदालत का समादेश
civil services	नागरिक सेवाएँ
civil suit	दीवानी मुकदमा
civil surgeon	सिविल सर्जन
civil war	गृह युद्ध, घरेलू युद्ध
civil wrong	व्यवहार-सम्बन्धी अपकार
civility	शिष्टता
civilized	सभ्य
civilization	सभ्यता
claim <i>n.</i>	दावा
<i>vb.</i>	दावा करना
claim for compensation	क्षतिपूर्ति के लिए दावा
claims inspector	दावा निरीक्षक
claims verification	दावे की तस्दीक, दावे का सत्यापन
claims and refund	दावे और रकम की वापसी
claimant	दावेदार
clarification	स्पष्टीकरण
clarify <i>vb.</i>	स्पष्ट करना
clash <i>n.</i>	टक्कर, मिड़न्त
<i>vb.</i>	टक्कर लगाना, मिड़ जाना
class	वर्ग
class fellow	सहपाठी
classical	शास्त्रीय
classical music	शास्त्रीय संगीत
classification	वर्गीकरण
classify <i>vb.</i>	वर्गीकरण करना
classless	वर्गहीन
classless society	वर्गहीन समाज
clause	(i) खण्ड (ii) वाक्यांश
clause by clause discussion	खण्डशः विचार-विमर्श

clear <i>adj.</i>	साफ़, स्पष्ट
<i>vb.</i>	साफ़ करना, स्पष्ट करना, चुकाना, ले जाना
clear day	साफ़ दिन
clear the line telegram	तात्कालिक तार
clear vacancy	स्पष्ट रिक्ति
clear weather	साफ़ मौसम
clearly	स्पष्ट रूप से
clearance	(i) निकासी (ii) भुगतान (iii) समायोजन
clearance sale	निकासी विक्री
clearing accounts office	लेखा समायोजन कार्यालय
clearing house	समायोजन कार्यालय, सूचना कार्यालय
clemency	नरमदिली, नरमी
clerical	लेखन-सम्बन्धी
clerical charges	लेखन-शुल्क, लिखाई
clerical error	लिखाई की भूल
clerk	क्लर्क
clerkage	लिखाई, लेखन-शुल्क
client	मुवक्किल
clientage	मुवक्किल वर्ग
cliental	मुवक्किल-सम्बन्धी
climate	जलवायु
climatic	जलवायु-सम्बन्धी
climax	पराकाष्ठा, चरमसीमा
clique	गुट
cloak room (Rly.)	अमानती सामान घर
close <i>adj.</i>	निकट, सूक्ष्म
<i>vb.</i>	बन्द करना, समाप्त करना
close examination	सूक्ष्म परीक्षा
closely	ध्यानपूर्वक, समीप से, पास से
closure	समापन प्रस्ताव
a closure was moved	समापन प्रस्ताव रखा गया
co-accused	सहअभियुक्त, हमजुर्म (उद्द.)
coalition	महमिलन
coalition ministry	संयुक्त मंत्रिपरिषद्
coastal trade	तटवर्ती व्यापार

code	(i) संहिता (ii) कूटसंकेतावली
code language	कूट भाषा, सांकेतिक भाषा
code name	सांकेतिक नाम
code words	सांकेतिक शब्द
codification	संहिताकरण
codified	संहिताबद्ध
codifier	संहिताकार
codify	संहिताबद्ध करना
co-education	सहशिक्षा
coercion	दबाव, बलप्रयोग
coerce <i>vb.</i>	दबाव डालना, बलप्रयोग करना, बाध्य करना
coercive	दबाव डालने वाला, दमनकारी
coercive measures	दमनकारी उपाय
cogent	तर्कसंगत
cognate	सजातीय
cognizable	प्रसंज्ञेय
cognizable offence	प्रसंज्ञेय अपराध
cognizance	प्रसंज्ञान
to take cognizance	प्रसंज्ञान करना
coherit <i>vb.</i>	सहउत्तराधिकारी होना
coheritance	सहउत्तराधिकार
coheritor	सहउत्तराधिकारी
coincide <i>vb.</i>	एक साथ घटित होना
coincidence	सहघटना, संपात
coincident	एक साथ घटित होने वाले
collaborate <i>vb.</i>	सहयोग देना, साथ देना
collaboration	सहयोग
collaborator	सहयोगी
collapse <i>n.</i>	अवसाद
<i>vb.</i>	ढह जाना, अवसन्न होना
collateral	सगोत्र, सहभागी आनुवंशिक
collect <i>vb.</i>	वसूल करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा होना
collection	वसूली, संग्रह
collective	सामूहिक
collective farming	सामूहिक खेती
collective fine	सामूहिक जुर्माना

collective responsibility	सामूहिक उत्तरदायित्व
collective security	सामूहिक सुरक्षा
collectively	सामूहिक रूप से
collector	कलेक्टर, समाहर्ता
collude <i>vb.</i>	टक्कर लेना
collusion	टक्कर
colonization	उपनिवेश वसाना / नयी वस्ती वसाना
colonial	औपनिवेशिक
colonial power	औपनिवेशिक देश
colony	उपनिवेश, नयी वस्ती
colour-bar	वर्णरोध
colour-prejudice	वर्णभेद
colours	ध्वजा
colours presentation	ध्वजा पुरस्करण
colours presentation ceremony	ध्वजा पुरस्करण समारोह
columnn	स्तंभ
columnist	स्तंभ लेखक
combination	मेल, योग
combine <i>vb.</i>	मिलाना
combined	सम्मिलित
comfort	आराम, सुखद
comfortable	आरामदेह, सुख
come of age	वालिया होना, वयस्क होना
come into force	} लागू होना, प्रवर्तित होना
come into operation	
comand <i>n.</i>	आदेश, कमांड, अधिकार
<i>vb.</i>	आदेश देना
commander	कमाण्डर
commander-in-chief	प्रधान सेनापति
commemorate <i>vb.</i>	यादगार मनाना
commemoration volume	स्मारक-ग्रंथ, अभिनन्दन ग्रंथ
commemorative	यादगार या स्मरण-सम्बन्धी
commence <i>vb.</i>	शुरू होना, आरंभ होना
commencement	आरंभ, शुरुआत
commend <i>vb.</i>	सरहाना करना
commendable	सराहनीय
commendation	मराहना, प्रशस्ति

commendation certificate	प्रशस्ति प्रमाण-पत्र
commendatory	सराहनात्मक
commensurate	समतुल्य, बराबर
comment <i>n.</i>	टीका-टिप्पणी, आलोचना
<i>vb.</i>	टीका-टिप्पणी करना, आलोचना करना
commentary	टीका, भाष्य, वर्णन
commentary-running	आँखों देखा वर्णन
commentator	(i) भाष्यकार, टीकाकार (ii) वर्णनकार
commerce	वाणिज्य
commerce and industry	वाणिज्य और उद्योग
commercial	वाणिज्य-सम्बन्धी
commercial agent	वाणिज्य अभिकर्ता
commercial concern	वाणिज्य संस्था
commercial enterprise	वाणिज्य उपक्रम / उद्यम
commercial transaction	वाणिज्य व्यवहार
commercial treaty	वाणिज्य संधि
commission	कमीशन, आयोग, दस्तूरी, आदत
commission agent	आढ़तिया
commission, regular	नियमित कमीशन
commission, temporary	अस्थायी कमीशन
commission of inquiry	जाँच कमीशन
commissioned	कमीशन-प्राप्त
commissioned officer	कमीशन-प्राप्त अफसर
commissioner	कमिश्नर, आयुक्त
commit <i>vb.</i>	करना, सुपुर्द करना, वचनबद्ध होना
commit acts of indecency	अभद्र कार्य करना
commit nuisance	उत्पात करना, अपद्रुपण करना
commit violence	हिंसा करना
commit to sessions	सेशन सुपुर्द करना
committal	सुपुर्दगी
commitment	वचन-बद्धता
committee	समिति
committee of inquiry	जाँच-समिति
committee of privilege	विशेषाधिकार समिति
committee-public accounts	लोक लेखा समिति
committee-select	प्रवर समिति
committee-selection	वरण समिति



collective responsibility	सामूहिक उत्तरदायित्व
collective security	सामूहिक सुरक्षा
collectively	सामूहिक रूप से
collector	कलेक्टर, समाहर्ता
collude <i>vb.</i>	टक्कर लेना
collusion	टक्कर
colonization	उपनिवेश बसाना / नयी बस्ती बसाना
colonial	औपनिवेशिक
colonial power	औपनिवेशिक देश
colony	उपनिवेश, नयी बस्ती
colour-bar	वर्णरोध
colour-prejudice	वर्णभेद
colours	ध्वजा
colours presentation	ध्वजा पुरस्करण
colours presentation ceremony	ध्वजा पुरस्करण समारोह
column	स्तंभ
columnist	स्तंभ लेखक
combination	मेल, योग
combine <i>vb.</i>	मिलाना
combined	सम्मिलित
comfort	आराम, सुखद
comfortable	आरामदेह, सुख
come of age	वालिया होना, वयस्क होना
come into force	} लागू होना, प्रवर्तित होना
come into operation	
comand <i>n.</i>	आदेश, कमांड, अविकार
<i>vb.</i>	आदेश देना
commander	कमाण्डर
commander-in-chief	प्रधान सेनापति
commemorate <i>vb.</i>	यादगार मनाना
commemoration volume	स्मारक-ग्रंथ, अभिनन्दन ग्रंथ
commemorative	यादगार या स्मरण-सम्बन्धी
commence <i>vb.</i>	शुरू होना, आरंभ होना
commencement	आरंभ, शुरुआत
commend <i>vb.</i>	सरहाना करना
commendable	सराहनीय
commendation	सराहना, प्रशस्ति

commendation certificate	प्रशस्ति प्रमाण-पत्र
commendatory	सराहनात्मक
commensurate	समतुल्य, बराबर
comment <i>n.</i>	टीका-टिप्पणी, आलोचना
<i>vb.</i>	टीका-टिप्पणी करना, आलोचना करना
commentary	टीका, भाष्य, वर्णन
commentary-running	आँखों देखा वर्णन
commentator	(i) भाष्यकार, टीकाकार (ii) वर्णनकार
commerce	वाणिज्य
commerce and industry	वाणिज्य और उद्योग
commercial	वाणिज्य-सम्बन्धी
commercial agent	वाणिज्य अभिकर्ता
commercial concern	वाणिज्य संस्था
commercial enterprise	वाणिज्य उपक्रम / उद्यम
commercial transaction	वाणिज्य व्यवहार
commercial treaty	वाणिज्य संधि
commission	कमीशन, आयोग, दस्तूरी, आढत
commission agent	आढतिया
commission, regular	नियमित कमीशन
commission, temporary	अस्थायी कमीशन
commission of inquiry	जाँच कमीशन
commissioned	कमीशन-प्राप्त
commissioned officer	कमीशन-प्राप्त अफसर
commissioner	कमिश्नर, आयुक्त
commit <i>vb.</i>	करना, सुपुर्द करना, वचनबद्ध होना
commit acts of indecency	अभद्र कार्य करना
commit nuisance	उत्पात करना, अपद्रुपण करना
commit violence	हिंसा करना
commit to sessions	सेशन सुपुर्द करना
commital	सुपुर्दगी
commitment	वचन-बद्धता
committee	समिति
committee of inquiry	जाँच-समिति
committee of privilege	विशेषाधिकार समिति
committee-public accounts	लोक लेखा समिति
committee-select	प्रवर समिति
committee-selection	वरण समिति

committee, standing	स्थायी समिति
committee of ways and means	अर्थोपाय समिति
commodity	माल, पदार्थ, पण्य
common	साधारण, समान, सार्वजनिक
common good	सार्वजनिक हित
common property	सार्वजनिक सम्पत्ति
commonwealth	राष्ट्रमण्डल
communal	साम्प्रदायिक, सामुदायिक
communal representation	साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व
communal reservation	साम्प्रदायिक आरक्षण
communalism	साम्प्रदायिकता
communalist	सम्प्रदायवादी
communicate <i>vb.</i>	(i) वताना, सूचित करना (ii) संचार करना
communication	सूचना, संचार
communications	संचार, पत्र आदि
communiqué	विज्ञप्ति
communism	साम्यवाद
communist	साम्यवादी
communistic	साम्यवादी
community	समुदाय, समाज, समता
community projects	सामुदायिक परियोजनाएँ
commutable	अन्तर्वर्तनीय
commutation	अन्तर्वर्तन
commute <i>vb.</i>	वदलना, अन्तर्वर्तित करना
commuted value	अन्तर्वर्तित मूल्य
commuted value of pensions	पेंशन का अन्तर्वर्तित मूल्य
compact	गठीला, सघन
companion	साथी, सहचर
company	कम्पनी, साथ
company law	कम्पनी कानून
comparable	समतुल्य, बराबर
comparative	तुलनात्मक
comparatively	तुलनात्मक रूप से
compare <i>vb.</i>	मुकाबला करना, तुलना करना
comparison	मुकाबला, तुलना, समता
comparison and contrast	समता और विपमता

compartment	कक्ष / कम्पार्टमेन्ट
compartmental	कम्पार्टमेन्टल
compartmental examination	कम्पार्टमेन्टल परीक्षा
compassion	करुणा, / अनुग्रह, दया
compassionate	करुणामय, दयालु, अनुग्रहपूर्ण
compassionate fund	अनुग्रह निधि
on compassionate ground	अनुग्रह के आधार पर
compatible	संगत, अनुरूप
compatriot	स्वदेशवासी
compel <i>vb.</i>	मजबूर करना, बाध्य करना
compendium	संग्रह
compensate <i>vb.</i>	हर्जाना देना, क्षतिपूर्ति करना, प्रतिकार करना
compensation	हर्जाना, क्षतिपूर्ति, प्रतिकार
compensation assessment	हर्जाना नियत करना, क्षतिपूर्ति का निर्धारण
compensatory	क्षतिपूरक
compensatory leave	क्षतिपूरक छुट्टी
compensatory period of rest	क्षतिपूरक आराम की अवधि
competence	} समर्थता
competency	
competent	समर्थ
competent authority	समर्थ अधिकारी
competent jurisdiction	समर्थ क्षेत्रधिकार
competition	प्रतियोगिता
competitive	प्रतियोगी
competitive examination	प्रतियोगी परीक्षा / प्रतियोगिता
competitor	प्रतियोगी
compiler	संकलन
compile <i>vb.</i>	संकलन करना
compiler	संकलनकर्ता
complain <i>vb.</i>	शिकायत करना
complaint <i>n.</i>	शिकायत
complaint book	शिकायत पंजी
complaint section	शिकायत अनुभाग
complaint officer	शिकायत अफसर
complainant	शिकायत करने वाला, वादी
complement <i>n.</i>	पूरक

complementary	पूरक
complete <i>adj.</i>	पूरा, / पूर्ण
<i>vb.</i>	पूरा करना, समाप्त करना
completed	पूर्ण, मुकम्मिल
completion	पूर्ति, समाप्ति
completion certificate	(कार्य) समाप्ति प्रमाण-पत्र
complex <i>n.</i>	भावना, मानसिक ग्रन्थि
<i>adj.</i>	जटिल
inferiority complex	हीन भावना
superiority complex	श्रेष्ठ भावना
complex question	जटिल समस्या
compilance	अनुपालन
complicate <i>vb.</i>	जटिल बनाना, उलझाना
complicated	जटिल
complication	जटिलता, पेचीदगी
compliment	मान, अभिनन्दन
complimentary <i>adj.</i>	भानार्थ
complimentary copy	मानार्थ प्रति
complimentary ticket	मानार्थ टिकट
comply <i>vb.</i>	अनुपालन करना
component	अवयव, अंग, घटक
compose <i>vb.</i>	बनाना, रचना, अक्षर बैठाना
composite	मिला-जुला, मिश्रित
composition	रचना
compositor	कम्पोज़िटर, अक्षरयोजक
compound <i>n.</i>	(i) अहाता (ii) सम्मिश्रण
<i>vb.</i>	संयुक्त, योगिक, मिश्र
<i>adj.</i>	मुलह करना, समझाता करना, मिलाना
compound interest	सूद-दर-सूद, / मिश्र व्याज
compoundable	समाधेय
compoundable case	समाधेय मामला
compounder	कम्पाउंडर
comprise <i>vb.</i>	मे मिल कर बनना
comprehend <i>vb.</i>	गमझना, बौध करना
comprehension	गमझ, बौध
comprehensive	व्यापक
compromise <i>n.</i>	समझौता

compromise <i>vb.</i>	समझौता करना, विरुद्ध आचरण करना
compromise one's principle	अपने सिद्धान्त के विरुद्ध आचरण करना
comptroller	नियंत्रक
comptroller & auditor general	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
compulsion	बाध्यता, मजबूरी
compulsory	बाध्यक, अनिवार्य
compulsory saving	अनिवार्य बचत
compulsory training	अनिवार्य प्रशिक्षण
compulsory retirement	अनिवार्य सेवा-निवर्तन
computation	संगणना
compute <i>vb.</i>	संगणना करना
conceal <i>vb.</i>	छिपाना, गुप्त रखना
concealment	छिपाना, गोपन
conceit	घमण्ड, अहंकार
conceive <i>vb.</i>	सोचना, विचारना, गर्भधारण करना
concentrate <i>vb.</i>	एकाग्रचित्त होना, संकेन्द्रण
concentration	एकाग्रता, संकेन्द्रण
concentration camp	बन्दी शिविर
concept	धारणा
conception	धारणा, गर्भ-धारण
concern <i>n.</i>	(i) सम्बन्ध (ii) चिन्ता
	(iii) व्यावसायिक संस्था
<i>vb.</i>	सम्बन्ध रखना
concerted	सम्मिलित
concerted action	सम्मिलित कार्यवाही
concerted effort	सम्मिलित प्रयास
concession	रियायत
concession certificate	रियायत प्रमाण-पत्र
concession orders	रियायत आदेश
concession rate	रियायती दर
concession ticket	रियायती टिकट
concessional	रियायती
conciliate <i>vb.</i>	सुलह करना, समाधान करना
conciliation	सुलह, समाधान
conciliation board	सुलह-बोर्ड, समाधान मण्डल
conciliation officer	समाधान अफसर

conciliator	समाधानकर्ता
conciliatory	समाधानकारक
conciliatory tone	समाधानकारक स्वर
concise	संक्षिप्त
conclude <i>vb.</i>	(i) नतीजे पर पहुँचना, निष्कर्ष निकालना (ii) समाप्त करना
conclude a treaty	सन्धि करना
concluding <i>adj.</i>	अन्तिम
conclusion	नतीजा, निष्कर्ष, समाप्ति
conclusive	निश्चित, निश्चायक
conclusive proof	निश्चित प्रमाण
conclusively	निश्चित रूप से
concomitance	सहगामिता, सहवर्तन
concomitant	सहगामी, सहवर्ती
concord	सहमति, मेल, एकता
concrete <i>adj.</i>	ठोस, साकार, मूर्त
<i>n.</i>	कांक्र्रीट
concur <i>vb.</i>	(i) एक राय होना, सहमत होना (ii) संवर्ती होना
concurrence	सहमति, संवर्तन
with the concurrence	की सहमति से
concurrent	संवर्ती, संगामी
concurrent jurisdiction	संवर्ती क्षेत्राधिकार
concurrent list	संवर्ती सूची
concurrent powers	संवर्ती शक्तियाँ
concurrently	साथ-साथ
condition <i>n.</i>	गर्त, हालत, दशा, अवस्था
<i>vb.</i>	गर्त लगाना, व्यवस्थित करना
conditions of service	सेवा की गर्तें
conditional	सर्गर्त
conditional acceptance	सर्गर्त स्वीकृति
conditional release	सर्गर्त रिहाई
condominium	सहराज्य
condonation	माफी, क्षमा
condone <i>vb.</i>	माफ़ करना, क्षमा करना
condoner	क्षमाकर्ता
conducive	सहायक, साधक
conduct <i>n.</i>	(i) आचरण, आचार, (ii) संचालन

conduct <i>vb.</i>	संचालन करना, संवहन करना
conduct of business	कार्य-संचालन
good conduct allowance	सदाचार भत्ता
conductor	कन्डक्टर, संवाहक
confederacy	राज्य संघ
confederal	राज्य संघीय
confederation	राज्य संघ
confer <i>vb.</i>	(i) आपस में सलाह करना, (ii) देना, प्रदान करना
confer a title	उपाधि देना
conference	सम्मेलन
confess <i>vb.</i>	दोष / अपराध स्वीकार करना
confession	दोष स्वीकार, अपराध स्वीकार
confide <i>vb.</i>	विश्वास करना
confidence	विश्वास
to take into confidence	विश्वास करना
confidence trick	झाँसा
confident	आश्वस्त
confidential	गोपनीय
confidential letter	गोपनीय पत्र
confidential report	गोपनीय रिपोर्ट
confidential papers	गोपनीय कागज़-पत्र
confidential work	गोपनीय कार्य
confine <i>vb.</i>	सीमित रखना, परिरोध करना
confines	सीमा, चौहद्दी
confinement	परिरोध, प्रसूति
wrongful confinement	वेजा परिरोध
confirm <i>vb.</i>	पुष्टि करना, स्थायी करना
confirmation	पुष्टि, स्थायीकरण
confirmatory	पुष्टिकारी
confirmed	पुष्ट, स्थायीकृत
confiscate <i>vb.</i>	जब्त करना
confiscation	जब्त
confiscatory order	जब्त आदेश
conflict <i>n.</i>	विरोध, संघर्ष
<i>vb.</i>	प्रतिकूल होना, परस्पर विरोधी होना
conflicting	परस्पर विरोधी



conform <i>vb.</i>	अनुरूप होना
in conformity with	के अनुरूप
confuse <i>vb.</i>	भ्रम पैदा करना, घबराना, संदिलीन होना
to be confused	घबरा जाना
confusing	भ्रामक
confusion	भ्रम, अव्यवस्था, गड़बड़, संदिलन
congestion	जगह की तंगी
congratulate <i>vb.</i>	बधाई देना
congratulation	बधाई
congratulatory	बधाई-सम्बन्धी
congratulatory message	बधाई-सन्देश
conjecture	अटकल
conjugal	विवाह-सम्बन्धी
conjugal rights	विवाह-सम्बन्धी अधिकार
connect <i>vb.</i>	जोड़ना, मिलाना
connected	जुड़ा हुआ, सम्बद्ध
connection	मेल, सम्बन्ध
connecting	मेल लेने वाली
connecting train	मेल लेने वाली गाड़ी
connective	योजक
connivance	अनदेखी
connive at <i>vb.</i>	अनदेखी करना
connotation	आशय, गुण-वर्म
connote <i>vb.</i>	आशय प्रकट करना
conquest	विजय, जीत
consecutive	क्रमिक, क्रमागत
conscience	विवेक
conscientious	विवेकशील
conscientious worker	विवेकशील कार्यकर्ता
conscious	चेतन, सचेत
consciousness	चेतना
conscript <i>vb.</i>	अनिवार्य भर्ती करना
conscription	अनिवार्य भर्ती
consent <i>n.</i>	सहमति
<i>vb.</i>	सहमत होना
consequence	नतीजा, परिणाम, फल
consequent	परिणामी

consequential	आनुषंगिक
consequently	फलस्वरूप, परिणामस्वरूप
conservancy	मलवाहन
conservancy charges	मलवाहन खर्च
conservation	संरक्षण
conservation of energy	ऊर्जा संरक्षण
conservation of soil	भूमि संरक्षण
conservatism	रूढ़िवादिता
conservative	रूढ़िवादी
conservator of forests	वन संरक्षक
conserve <i>vb.</i>	संरक्षण करना, बचा कर रखना
consider <i>vb.</i>	विचार करना
considerable	बहुत, पर्याप्त
considerate	विचारशील, लिहाज रखने वाला
consideration	(i) विचार (ii) प्रतिफल
in consideration of	के प्रतिफलस्वरूप
under consideration	विचाराधीन
consign <i>vb.</i>	सौंपना, माल भेजना
consignee	माल पाने वाला
consignment	भेजा हुआ माल, परेषण
consignment note	परेषण नोट
consignment register	परेषण रजिस्टर
consignor	माल भेजने वाला
consist <i>vb.</i>	मिलकर बनना, होना
consistency	संगति
consistent	संगत
console <i>vb.</i>	धीरज बँधाना, सांत्वना देना
consolidate <i>vb.</i>	संचित करना, समेकित करना
consolidated	संचित, समेकित
consolidated fund	संचित निधि
consolidated statement	समेकित विवरण
consolidation	संचयन, समेकन, चकवन्दी
consolidation of debt	ऋण-समेकन
consolidation of holdings	जोत की चकवन्दी
conspicuity	स्पष्टता
conspicuous	स्पष्ट
conspicuously	स्पष्ट रूप से

conspiracy	पडयंत्र
conspirator	पडयंत्रकारी
constable	(पुलिस का) सिपाही
contabulary	पुलिस
provincial armed constabulary	प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस
constancy	स्थिरता
constant	स्थिर, सतत
constantly	निरंतर
constituency	निर्वाचन क्षेत्र
parliamentary constituency	संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र
constituent	(i) संघटक (ii) अवयव (iii) संविधान-संबंधी
constituent assembly	संविधान सभा
constituent parts	संघटक / अवयव
constituent <i>vb.</i>	गठित करना, संघटित करना, स्थापित करना, अवयव होना
constituted	गठित, संघटित
constitution	(i) संविधान, शारीरिक गठन
constitutional	(i) संवैधानिक (ii) शारीरिक गठन संबंधी
constitutional crisis	संवैधानिक संकट
constitutional law	संवैधानिक कानून
constitutional position	संवैधानिक स्थिति
constitutionalist	संविधानविद्, संविधानवादी
constitutionally	संवैधानिक रूप से
constitutionalize <i>vb.</i>	संवैधानिक बनाना
constrain <i>vb.</i>	बाध्य करना
constrained	बाध्य
construct <i>vb.</i>	बनाना, निर्माण करना
construction	निर्माण, रचना
constructional	निर्माण-संबंधी
constructive	रचनात्मक
constructive programme	रचनात्मक कार्यक्रम
construe <i>vb.</i>	अर्थ निकालना
consul	वाणिज्य दूत
consular	वाणिज्यिक
consulate	वाणिज्य दूतावास
consult <i>vb.</i>	परामर्श लेना
consultant	परामर्श देने वाला, परामर्श लेने वाला

consultation	परामर्श
consultative	परामर्श-सम्बन्धी
consultative committee	परामर्श समिति
consume <i>vb.</i>	उपभोग करना
consumer	उपभोक्ता
consumers' co-operative society	उपभोक्ता सहकारी समिति
consumer goods	उपभोग की वस्तुएं
consumption	(i) खपत, उपभोग (ii) क्षयरोग/तपेदिक
consumptive	क्षयरोगी, तपेदिक का मरीज
contract <i>n.</i>	सम्पर्क
<i>vb.</i>	सम्पर्क में आना
contagion	संसर्ग, छूत
contagious	छूत से होने वाला, संसर्गज
contagious disease	संसर्गज रोग, छूत का रोग
contemplate <i>vb.</i>	मनन करना, चिन्तित करना, इरादा करना, विचार करना
contemplation	मनन, चिन्तन
contemplative	चिन्तनशील
contemporaneous	समकालिक
contemporary	समकालीन
contempt	तौहीन, अवमान,
contempt of court	अदालत की तौहीन / अदालत का अवमान
contemptible	हेय, अवमान्य
contemptuous	अवमान सूचक
contemptuously	अवमानपूर्ण ढंग से
contend <i>vb.</i>	प्रतिवाद करना, विरोध करना
content <i>vb.</i>	संतोष करना
contents <i>n.</i>	विषय-वस्तु, अन्तर्वस्तु
contented	संतुष्ट
contention	तर्क, दलील, विवाद
contentment	सन्तोष
contest <i>n.</i>	मुकाबला
<i>vb.</i>	मुकाबला करना
contest an election	निर्वाचन लड़ना
contestant	प्रतियोगी
context	प्रसंग
contiguity	संलग्नता

contiguous	संलग्न
contiguous region	संलग्न प्रदेश
contingency	आकस्मिकता, आकस्मिक घटना
contingency fund	फुटकर निधि
contingent	आकस्मिक, फुटकर
contingent bill	फुटकर बिल
contingent expenditure	फुटकर खर्च
contingent office expenditure	कार्यालय का फुटकर खर्च
continuous	निरंतर, अविराम
continuance	जारी रखना
cotinuation	क्रम
in continuation of	के क्रम में
continue <i>vb.</i>	जारी रखना, कायम रहना
continuity	निरंतरता
continuous	निरंतर
continued on the next page	हमारे सफे पर जारी है
continued from	से जारी
contraband	वर्जित / चोरी से लाया हुआ
contraband articles	वर्जित वस्तुएँ
contraband goods	वर्जित माल / चोरी से लाया हुआ माल
contract <i>n.</i>	संविदा, ठेका
<i>vb.</i>	संविदा करना, ठेका करना, सिकुड़ना
contract-deed	संविदा लेख
contract-labour	ठेके के मजदूर, संविदागत मजदूर
contract rate	ठेके की दर
contract wages	संविदागत मजदूरी / नियत मजदूरी
contractor	संविदागत
contractual	संविदागत
contractual obligation	संविदागत आभार
contradict <i>vb.</i>	वात काटना, खण्डन करना, प्रतिवाद करना
contradict oneself	अपनी ही वात काटना
contradiction	प्रतिवाद, खण्डन
contradictory	परस्पर विरोधी
contradistinction	विभेद
contradistinguish <i>vb.</i>	विभेद करना
contrary	विपरीत

on the contrary  
to the contrary  
contrast *n.*

*vb.*

contravene *vb.*

contravention

in contravention of

contribute *vb.*

contribution

contributor

contributory

contributory health scheme

contributory provident fund

contributory factor

contrivance

contrive *vb.*

control *n.*

*vb.*

controlled

controllable

controller

controversial

controversy

controvert *vb.*

convene *vb.*

convener

convenience

convenient

conveniently

convention

conventional

converse *vb.*

*adj.*

conversance

conversant

conversation

के विपरीत

” ”

असमानता, विषमता

असमानता बताना, विषमता बताना

उल्लंघन करना

उल्लंघन

के विरुद्ध

चन्दा देना, अंशदान करना

चंदा, अंशदान

चन्दा देने वाला, अंशदाता

अंशदायी, सहायक

अंशदायी स्वास्थ्य योजना

अंशदायी भविष्य निधि

सहायक कारण

युक्ति

युक्ति निकालना

नियंत्रण, काबू

काबू में रखना, नियंत्रण करना

नियंत्रित

जो काबू में आ सके

नियंत्रक

विवादग्रस्त, विवादास्पद

विवाद

वाद-विवाद करना, प्रतिवाद करना

बुलाना, संयोजन करना

संयोजक

सुविधा, सहूलियत

सुविधाजनक

सुविधा के साथ, सहूलियत से

(i) परिपाटी, परम्परा, रूढ़ि

(ii) सम्मेलन (iii) अभिसमय

परम्परागत, लोकसम्मत, रूढ़िगत, पुराने ढंगका

वातचीत करना

विलोम, विपरीत

परिचय, विज्ञता

परिचित, विज्ञ

वातचीत, वार्तालाप

conversion  
convert *vb.*

convertibility  
convertible  
convey *vb.*

conveyance  
conveyance allowance  
conveyance charges  
convict *n.*  
*vb.*

convict settlement  
convicted  
conviction  
convince *vb.*

convincing  
convocation  
convocation address  
convoke *vb.*  
convoy  
co-operate *vb.*  
co-operation  
co-operative *adj.*  
co-operative bank  
co-operative credit society  
co-operative effort  
co-operative farming  
co-operative marketing  
co-operative movement  
co-opt *vb.*  
co-opted  
co-opted member  
co-ordinate *vb.*  
co-ordinated  
co-ordination

संपरिवर्तन, धर्मपरिवर्तन, विचारपरिवर्तन  
वदलना, संपरिवर्तन करना,  
धर्मपरिवर्तन करना  
संपरिवर्तनीयता  
संपरिवर्तनीय  
वताना, सूचित करना, ले जाना,  
अन्तरण करना  
(i) सवारी (ii) अन्तरण  
सवारी भत्ता  
सवारी खर्च  
अपराधी, दोपी  
दोपी ठहराना  
अपराधियों की वस्ती  
दोपी ठहराया हुआ, दोपसिद्ध  
दोपसिद्धि, वारणा  
विश्वास दिलाना, कायल करना,  
समाधान करना  
समाधानकारी  
दीक्षान्त समारोह  
दीक्षान्त भाषण  
आह्वान करना  
काफ़िला  
मिलकर काम करना, सहयोग देना  
सहयोग, सहकारिता  
सहकारी  
सहकारी बैंक  
सहकारी ऋण समिति  
सहकारी प्रयास  
सहकारी खेती  
सहकारी क्रय-विक्रय, सहकारी हाट  
सहकारी आन्दोलन  
सहयोजित करना  
सहयोजित  
सहयोजित सदस्य  
समन्वय करना  
समन्वित  
समन्वय

co-ordination of industries	उद्योगों का समन्वय
co-partner	साझेदार, सहभागी
co-partnership	साझा
co-partnery	साझेदारी, सहभागिता
cope <i>vb.</i>	सम्हालना
copious	प्रचुर
copy <i>n.</i>	काँपी, नकल, प्रतिलिपि
<i>vb.</i>	नकल करना, काँपी करना
copy-hold	पट्टा
copy-holder	पट्टेदार
copy-right	प्रतिलिपि अधिकार
copyist	नकलनवीस
copy right	प्रतिलिपि अधिकार
corollary	उपसाध्य
coronation	राजगद्दी
corporal <i>adj.</i>	शारीरिक
corporal punishment	शारीरिक दण्ड
corporation	निगम, निगमन
corporate <i>adj.</i>	सामूहिक
<i>vb.</i>	शामिल करना, सम्मिलित करना
corps	कोर
correct <i>vb.</i>	ठीक करना, शुद्ध करना, शोधन करना
corrected	शोधित
correction	दुरुस्ती, शोधन, भूल-सुधार
correction ship	शोधन पर्ची
corrective	शोधक
correctly	ठीक-ठीक
correctness	शुद्धता
corrector	शोधक
correlate <i>vb.</i>	परस्पर सम्बन्धित होना, सहसम्बद्ध होना
correlated	सहसम्बद्ध, परस्पर सम्बन्धित
correlation	सहसम्बन्ध, परस्पर सम्बन्ध
correspond <i>vb.</i>	लिखापढ़ी करना, पत्र-व्यवहार करना
correspondence	लिखा-पढ़ी, पत्र-व्यवहार
correspondent	संवाददाता
corresponding	तदनुसार, अनुरूप
corrigendum	शुद्धि-पत्र



corrigible	जो सुधारा जा सके / शोध्य
corroborate <i>vb.</i>	परिपुष्टि करना, ताईद करना
corroboration	परिपुष्टि, ताईद
corroborative	परिपोषक, ताईदी
corroborative evidence	परिपोषक प्रमाण / ताईदी शहादत
corrupt <i>adj.</i>	भ्रष्ट
<i>vb.</i>	भ्रष्ट करना
corrupt practice	भ्रष्टाचार
corruption	भ्रष्टाचार
corruptor	भ्रष्ट करने वाला
co-sharer	साझीदार, हिस्सेदार
co-signatories	सहहस्ताक्षरकर्ता
cosmopolitan <i>n.</i>	सार्वदेशिक
cosmopolite <i>n.</i>	विश्वनागरिक
cost	लागत, व्यय
cost of living	निर्वाह-व्यय
cost of maintenance	अनुरक्षण व्यय / निर्वाह-व्यय
cost of working	संचालन-व्यय
cost price	कीमत खरीद / क्रयमूल्य
cost-total	कुल लागत
co-tenure	सहवृत्ति, सहधारिता
co-tenure-holder	सहवृत्ति-धारी
cottage industry	कुटीर उद्योग
council	परिषद्
council of ministers	मंत्रिपरिषद्
Council of States (of India)	भारत की राज्य सभा
councillor	पार्षद्
counsel	परामर्शदाता
counsel for the defence	वचाव पक्ष का परामर्शदाता (वकील)
counsel for prosecution	अभियोग पक्ष का परामर्शदाता (वकील)
counsellor	परामर्शदाता
count <i>n.</i>	गणना, अपराध
<i>vb.</i>	गिनना
for each count	हर अपराध के लिए
counter <i>n.</i>	पटल
<i>adj.</i>	जवाबी, विरोधी, प्रति-

counter <i>vb.</i>	प्रतिरोध करना
counter foil	अध-पन्ना, प्रतिपर्ण, मुसन्ना (उर्दू)
counter signature <i>n.</i>	प्रतिहस्ताक्षर
<i>vb.</i>	प्रतिहस्ताक्षर करना
counteract <i>vb.</i>	प्रतिकार करना
counter action	प्रतिकार
counter attack	जवाबी हमला, प्रत्याक्रमण
counter balance	प्रतिसंतुलन
counter balanced	प्रतिसंतुलित
counter charge	प्रत्यारोप
counter claim	जवाबी दावा
counter current	अन्तर्धारा
current and counter current	धारा और अन्तर्धारा
counterfeit	खोटा, जाली
counterfeit coin	खोटा सिक्का
countermand <i>vb.</i>	प्रत्यादेश देना
counter part	प्रतिरूप
counter plot	जवाबी षडयंत्र
counter proposal	जवाबी प्रस्ताव
countersign <i>vb.</i>	प्रतिहस्ताक्षर करना
counter-signature	प्रतिहस्ताक्षर
counter statement	जवाबी बयान
counter vail <i>vb.</i>	प्रतितोल करना
countervailing duty	प्रतिशुल्क
coup d'e tat	सरकार को उलटना / विप्लव
coupon	कूपन
course	मार्ग, पाठ्यक्रम
court	अदालत, न्यायालय
court attachment	अदालती कुर्की
court attendance	अदालत में हाजिरी
court fee	अदालती फीस
court martial	फौजी अदालत / सैनिक न्यायालय
court of appeal	अपील अदालत
court of concurrent jurisdiction	संवर्ती क्षेत्राधिकार की अदालत
court of first instance	पहली अदालत
court of wards	प्रतिपालक अधिकरण
courteous	नम्र, नम्रतापूर्ण

courtesy	नम्रता
covenant	प्रसंविदा
covenanted	प्रसंविदागत
convenated services	प्रसंविदागत सेवाएं
cover <i>n.</i>	ढक्कन, आड़
<i>vb.</i>	ढक लेना
covering letter	व्याख्या पत्र
covert <i>adj.</i>	प्रच्छन्न, प्रति-आश्रिता
coverture	प्रति-आश्रय
co-worker	सहकर्मी
craft	शिल्प, हुनर, दस्तकारी
craftsman	शिल्पी, दस्तकार
credible	विश्वसनीय
credit <i>n.</i>	साख, प्रत्यय, श्रेय, उधार, जमा
<i>vb.</i>	जमा करना
credit book	उधार खाता
credit note	साख-पत्र
creditable	श्रेयस्कर
creditor	साहूकार
crime	जुर्म, अपराध
criminal <i>adj.</i>	दण्ड-सम्बन्धी, फौजदारी
<i>n.</i>	अपराधी, मुजरिम
criminal code	दण्ड संहिता
criminal court	फौजदारी अदालत
criminal proceedings	फौजदारी का अभियोग
criminal lawyer	फौजदारी वकील
criminate <i>vb.</i>	दोष लगाना, अभिशंसा करना
crisis	संकट
criterion	कसौटी
critical	संकटपूर्ण, नाजुक, आलोचनात्मक
cross <i>adj.</i>	आड़ा, तिर्यक, प्रति
<i>vb.</i>	पार करना
cross examination	जिरह
cross reference	प्रति संदर्भ
cross-over road (Rly.)	पार-सड़क
crossing	चौराहा, पार
crowd <i>n.</i>	भीड़

crowd	भीड़, भीड़ लगाना
crowding	भीड़-भाड़
over-crowding	अत्यधिक भीड़
crowdy	भीड़-भाड़ वाला
crush <i>vb.</i>	कुचलना
crushed	कुचला हुआ
culminate <i>vb.</i>	चरमसीमा को पहुँचना
culmination	चरमसीमा, पराकाष्ठा
culpable	सदोष
culpable homicide	सदोष मानव-वध
culpability	सदोषता
culprit	अपराधी
cult	सम्प्रदाय
cultivable	खेती के योग्य
cultivable land	खेती के योग्य भूमि
cultivate <i>vb.</i>	खेती करना, जोतना
cultivated land	जोता हुआ खेत
cultivation	खेती, किसानी
cultivator	खेतिहर, किसान
culture	संस्कृति
cultured	सुसंस्कृत
culvert	पुलिया
cum	सहित, और
cumbersome	बोझिल, भारी
cumulate <i>vb.</i>	इकट्ठा होना, संचित होना
cumulative	इकट्ठा, संचित
curable	साध्य short for चिकित्सा-साध्य
cure <i>n.</i>	उपचार, इलाज
<i>vb.</i>	इलाज करना, उपचार करना, निरोग करना
curfew	करफ्यू
curfew order	करफ्यू आदेश
curfew hours	करफ्यू की अवधि
curio-shop	कला-कौशल की दूकान
curious	उत्सुक
curiosity	उत्सुकता, कौतूहल
out of curiosity	कौतूहलवश
currency	सिक्का, मुद्रा, रिवाज, प्रचलन

metallic currency	धातु का सिक्का
paper currency	कागज का सिक्का
current <i>n.</i>	वारा, प्रवाह
<i>adj.</i>	चालू, वर्तमान, सामयिक
current account	चालू खाता
current price	वर्तमान मूल्य
current year	चालू वर्ष
curriculum	पाठ्यक्रम, निर्धारित कार्यक्रम
curtail <i>vb.</i>	कम करना, काट-छाँट करना
curtailment	काट-छाँट
custodian	अभिरक्षक
custodian of evacuee property	निष्क्रान्त सम्पत्ति का अभिरक्षक
custody	हिरासत, अभिरक्षा
custody of collected tickets	इकट्ठा किये गये टिकटों की अभिरक्षा
safe custody	संरक्षण
custom	(i) रिवाज, प्रथा, रस्म (ii) ग्राहकी
custom and usage	रीति-रिवाज
customs	सीमा-शुल्क
customs duty	सीमाशुल्क
customs house	सीमाशुल्क कार्यालय
customs staff	सीमाशुल्क कर्मचारी
customary	रिवाजी
customer	गाहक (ग्राहक)
cut	कटौती
cut-motion	कटौती प्रस्ताव
cypher <i>n.</i>	संकेतलिपि, साइफ़र
<i>vb.</i>	रहस्य जानना
cypher bureau	साइफ़र व्यूरो
cypher code	साइफ़र संहिता
cypher office	साइफ़र कार्यालय
cypher telegram	साइफ़र तार

‘D’

dacoit		डकैत, डाकू
dacoity		डकैती
daily <i>n.</i>		प्रति दिन
<i>adj.</i>		दैनिक
daily allowance	दैनिक	दैनिक भत्ता
daily diary		दैनिक डायरी
daily labour		दैनिक मजदूर / दिहाड़ी मजदूर
daily necessities		दैनिक आवश्यकताएँ
daily register		दैनिक रजिस्टर, रोजनामचा
daily routine		दैनिक कार्य
daily wages		दैनिक मजदूरी / दिहाड़ी
dairy		डेरी
dairy farming		डेरी उद्योग
dairy product		डेरी की उपज
dais		चवूतरा, मंच
dak		डाक
dak register		डाक रजिस्टर
damage <i>n.</i>		नुकसान, क्षति
<i>vb.</i>		नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना
damage certificate		क्षति प्रमाण-पत्र
damageable (article)		टूटने-फूटने वाली चीज़
damaged		क्षतिग्रस्त
damaged goods		क्षतिग्रस्त माल
damaging <i>adj.</i>		विधातक
damaging confession		विधातक अंगीकार
danger <i>n.</i>		खतरा
<i>vb.</i>		खतरे में डालना
danger-signal (Rly.)		खतरा सिग्नल
danger zone		खतरा-क्षेत्र, संकट-क्षेत्र
dangerous		खतरनाक, भयानक
dangerous and offensive goods		खतरनाक और घिनौना माल
dangerously		भयानक रूप से
dangerously inflammable		भयानक रूप से आग पकड़ने वाला, ज्वलनशील

dare <i>vb.</i>	साहस करना । हिम्मत करना
daring	( <i>adj</i> ) साहसिक (n) साहस, वृष्टता
dash <i>vb.</i>	टकराना
data (plural) } datum (singular) }	(i) आधार-सामग्री (ii) आँकड़े
date	तारीख, तिथि
date-line	निर्धारित तारीख, निर्धारित तिथि
date-stamp	तारीखी मुहर
dater	पुराना, अप्रचलित
out of date	(i) आधुनिक, (ii) आज तक का ।
up-to-date	अद्यत
letter without date	बिना तारीख का पत्र । तिथि रहित पत्र
daunt <i>vb.</i>	निरुत्साह करना
dauntless	निडर, निर्भीक
day duty	दिन का काम
night duty	रात का काम
day to day	दिन प्रतिदिन रोज व रोज
days of grace	रिआयती दिन, मोहलत के दिन
days of grace	निष्क्रिय लेखा
dead letter	लावारिस पत्र
dead letter office	लावारिस पत्र कार्यालय
dead-lock	गतिरोध
dead slow	एक दम धीरे
dead stock	न विकने वाला माल
dead weight	मृत भार
deadly	घातक, प्राण घातक
deadly weapon	घातक हथियार
deal <i>n.</i>	व्यवहार, लेन-देन, सीदा
<i>vb.</i>	व्यवहार करना, व्यापार करना
deal with	कार्रवाई करना
shady deal	संदिग्ध व्यवहार
square deal	निष्पक्ष व्यवहार
dealer	व्यापारी
retail dealer	फुटकर व्यापारी
wholesale dealer	थोक व्यापारी
dealing clerk	सम्बन्धित क्लर्क कार्यालयक क्लर्क,

dealings	व्यवहार
dean	अध्यक्ष
Dean of the Faculty of Art	अध्यक्ष, कला संकाय
Dean of the Faculty of Law	अध्यक्ष, विधि संकाय
Dean of the Faculty of Medicine	अध्यक्ष, भेषज संकाय
Dean of the Faculty of Science	अध्यक्ष, विज्ञान संकाय
Dean of the Faculty of Surgery	अध्यक्ष, शल्य संकाय
dearness	मंहगाई
dearness allowance	मंहगाई भत्ता
dearth	कमी, दुर्लभता
death-blow	घातक प्रहार
death-certificate	मरण-प्रमाणपत्र, फ़ौतनामा (उर्दू)
death-duty	मरण-शुल्क
death pay	मृत्यु वेतन
death rate	मृत्यु दर
death report	मर जाने की रिपोर्ट
death-roll	मृतकों की संख्या
death sentence	मौत की सज़ा, मृत्यु-दण्ड
debackle	विफलता
debar <i>vb.</i>	रोकना, विवर्जित करना
debarred	रोका हुआ, विवर्जित
debarment	रोक, विवर्जन
debase <i>vb.</i>	मिलावट करना
debased	मिलावटी
debased coin	मिलावटी सिक्का
debatable	विवाद
debate <i>n.</i>	वहस, वाद-विवाद
<i>vb.</i>	वहस करना, वाद-विवाद करना
debauch <i>n.</i>	लंपट, व्यभिचारी
<i>vb.</i>	व्यभिचार करना
debauchery	व्यभिचार
debenture	डिवेंचर
debenture bond	डिवेंचर, बंधनामा
debilitate <i>vb.</i>	कमजोर बनाना, निर्बल बना, क्षीण बनाना
debility	कमजोरी, निर्बलता, क्षीणता
debit <i>n.</i>	नामखाता, नाशे




debit <i>vb.</i>	नामखाते में डालना
debit account	नाम खाता
debit balance	नाम बाकी
debit entry	नाम इन्दराज
debitable	नाम खाते का
debt	कर्ज, ऋण
debt charges	ऋण-प्रभार
debt conversion	ऋण-संपरिवर्तन
debt-floating	अल्पकालिक ऋण
debt-funded	निधिगत-ऋण
debtor	कर्जदार, ऋणी
debris	मलबा
decade	दशक
decay <i>n.</i>	क्षय
<i>vb.</i>	सड़ना, गलना
deceased	स्वर्गवासी, मृत
deceit	धोखेवाज
deceive <i>vb.</i>	धोखा देना
decency	शिष्टता, शिष्टाचार
decent	शिष्ट
decentralization	विकेन्द्रीकरण
decentralize <i>vb.</i>	विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रित करना
decentralized	विकेन्द्रित
decentralized economy	विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था
deception	धोखा, भ्रांति
deceptive	भ्रान्तिमूलक
decide <i>vb.</i>	फैसला करना, तय करना, निर्णय करना, निश्चय करना
deciding vote (casting vote)	निर्णायक मत
decipher <i>vb.</i>	गूढ़ाक्षरों को स्पष्ट करना
decision	फैसला, निर्णय
decisive <i>adj.</i>	निर्णायक, निश्चायक
decisive step	निर्णायक कदम
decision-pending	फैसला होने तक
declaration	एलान, घोषणा, कथन, वयान
declaration on oath	शपथ-कथन, हल्फिया वयान
declaratory	घोषणात्मक

declaratory suit	घोषणात्मक मुकदमा
declare <i>vb.</i>	एलान करना, घोषित करना, कहना
declared policy	घोषित नीति
decline <i>n.</i>	अस्वीकार करना, इन्कार करना
<i>vb.</i>	ढलना, पतन की ओर जाना
decode <i>vb.</i>	कूट खोलना
decomposable	गलने, सड़ने या विघटित होने वाला
decompose <i>vb.</i>	गलना, सड़ना, विघटित होना
decontrol <i>n.</i>	विनियंत्रण
<i>vb.</i>	नियंत्रण हटाना, विनियंत्रित करना
decontrol-gradual	क्रमिक विनियंत्रण
decorate <i>vb.</i>	सजाना
decoration	सजावट
decorative material	सजावट का सामान
decorum	शिष्टाचार
decrease <i>vb.</i>	घटना, कम होना
<i>n.</i>	घटती, कमी
decrease in demand	माँग में कमी
decreasing return	घटता हुआ मुनाफा
decree <i>n.</i>	डिगरी
<i>vb.</i>	डिगरी देना
decree absolute	पक्की डिगरी
decree nisi	कच्ची डिगरी
decree holder	डिगरीदार
decry <i>vb.</i>	निन्दा करना, आक्षेप करना
dedicate <i>vb.</i>	समर्पित करना
dedication	समर्पण
deduct <i>vb.</i>	घटाना, काटना
deduction	(i) कटौती (ii) निष्कर्ष
deed (law)	विलेख X
deed of agreement	करारनामा
deed of assignment	अधिग्रहण पत्र
deed of mortgage	रेहननामा
deed of sale (sale deed)	व्यनामा, बेचीनामा
gift deed	दानपत्र / हिब्बतनामा (उर्दू)
lease deed	पट्टानामा

X 'पत्र' आर नामा शब्दों से भी deed का अर्थ व्यक्त होता है ।

deface <i>vb.</i>	रूप बिगाड़ना, विरूपित करना
defaced coin	घिसा हुआ सिक्का
defacto	वास्तविक, तथ्यतः
defalcate <i>vb.</i>	विश्वासघात करना
defalcation	विश्वासघात
defamation	मानहानि, बदनामी
defamatory	मानहानिकारक
defame <i>vb.</i>	बदनाम करना, मानहानि करना
default <i>n.</i> (ommission, failure)	चूक, दोष, बकाया
<i>vb.</i>	चूकना, दोषी होना, बकायादार होना
in default of	के अभाव में, न होने पर
defaulter	दोषी, बकाया
defeat <i>n.</i>	हार, पराजय
<i>vb.</i>	हराना, पराजित करना
defeatist mentality	पराजयवादी भावना
defeat	खराबी, दोष, त्रुटि
defective	खराब, दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण
defence	बचाव, रक्षा, प्रतिरक्षा
defence organisation	प्रतिरक्षा संगठन
defence services	प्रतिरक्षा सेवाएं
defence witness	बचाव पक्ष का गवाह
self-defence	अपना बचाव, आत्मरक्षा
defences	प्रतिरक्षा-व्यवस्था
defenceless	अरक्षित
defend <i>vb.</i>	बचाव करना, प्रतिरक्षा करना, प्रतिवाद करना
defendant	प्रतिवादी / मुद्दालेह
defensible	प्रतिवाद्य
defensive <i>adj.</i>	रक्षात्मक
defer <i>vb.</i>	(i) टालना, आस्थगित करना (ii) लिहाज करना
deferred	आस्थगित
deferred expenditure	आस्थगित खर्च
deferred payment	आस्थगित भुगतान
deference	लिहाज
defiance	अवज्ञा
defiance of authority	अधिकारी की अवज्ञा



defiant	अवज्ञापूर्ण
defiant attitude	अवज्ञापूर्ण प्रवृत्ति
deficiency	कमी
deficiency report	कमी की रिपोर्ट
deficient	हीन, विकलांग
deficit n.	घाटा
deficit area	अभावग्रस्त क्षेत्र
deficit budget	घाटे का बजट
deficit financing	घाटे की वित्त-व्यवस्था
defile vb.	दूषित करना
definable	निर्धार्य, परिभाष्य
define vb.	निर्धारित करना, परिभाषा करना
definite	निश्चित
definition	परिभाषा
definitive	निश्चयक
deflate vb.	विस्फीत करना
deflation	विस्फीति
deflect vb.	विचलित होना, च्युत होना
deflection	विचलन
deform vb.	विरूप करना, विकृत करना
deformity	विरूपता, विकृति
defraud n.	धोखा, फरेब
vb.	धोखा देना, फरेब करना
defray vb.	देना, अदा करना
defrayable	अदा करने योग्य
defrayal	अदायगी
defunct	अप्रचलित
defy vb.	(i) न मानना, अवज्ञा करना (ii) ललकारना
defy a ban	प्रातिबन्ध तोड़ना
degradation	अध पतन
degrade vb.	(i) पदावनत करना (ii) अपमानित करना
degrading	अपमानजनक
degree	(i) अंश (ii) मात्रा (iii) उपाधि
third degree	निन्दनीय उपाय
degressive	प्रतिगामी

degressive tax	प्रतिगामी कर
de jure	कानूनन, विधिः
delay <i>n.</i>	देरी, विलम्ब
<i>vb.</i>	देर लगाना, विलम्ब करना
delaying tactics	टाल-मटोल
delegacy	प्रतिनिधान
delegate <i>vb.</i>	प्रत्यायोजन करना, प्रदान करना
<i>n.</i>	प्रतिनिधि
delegated powers	प्रदत्त अधिकार
delegation	(i) शिष्टमण्डल (ii) प्रत्यायोजन
delegation of financial authority	वित्तीय अधिकार का प्रत्यायोजन
delete <i>vb.</i>	निकाल देना, विलोप करना
deletion	विलोप
deliberate <i>adj.</i>	जान-बूझ कर किया हुआ
<i>vb.</i>	विवेचन करना
deliberately	जान-बूझ कर
deliberations	विवेचन
deliberative	विवेचक
deliberative wing	विवेचक अंग
delicate <i>adj.</i>	नाजुक
delicate situation	नाजुक हालत
delimitate <i>vb.</i>	हदबन्दी करना
delimitation <i>n.</i>	हदबन्दी
delimitation of constituencies	निर्वाचन-क्षेत्रों की हदबन्दी
delinquency	अपचार
delinquent	अपचारी
deliver <i>vb.</i>	देना, सौंपना, जनना
deliver a speech	भाषण देना
deliver a child	वच्चा जनना
deliver a message	सन्देश देना
deliver goods	माल सौंपना
deliverance	छुटकारा, मुक्ति, उद्धार
delivery	(i) सुपुर्दगी, (ii) प्रसव, (iii) भाषण-शैली
delivery book	सुपुर्दगी किताब
delivery office	सुपुर्दगी कार्यालय

delivery order	सुपुर्दगी आदेश
delivery service	सुपुर्दगी व्यवस्था
delivery of goods	माल की सुपुर्दगी
delivery of letters	पत्रों की सुपुर्दगी
delivery ward	प्रसूति-कक्ष । जच्चा-खाना
demand <i>n.</i>	माँग
<i>vb.</i>	माँग करना, तलब करना
demand explanation	जवाब तलब करना
demand supplementary	पूरक माँग
demand-miscellaneous	विविध माँग
demarcate <i>vb.</i>	सीमा निर्धारित करना
demarcation	सीमा
demarcation line	सीमा-रेखा
demean <i>vb.</i>	बर्ताव करना, चेष्टा करना
demeanour <i>n.</i>	बर्ताव, चेष्टा
demi-official letter	अर्ध-सरकारी पत्र
demilitarise <i>vb.</i>	सेना हटाना
demise	निधन
demobilization	लामबन्दी की समाप्ति
demobilize <i>vb.</i>	लामबन्दी समाप्त करना
democracy	लोक-तंत्र
democrat	लोक-तंत्री
democratic	लोक-तंत्रीय, लोकतंत्रात्मक
democratic constitution	लोक-तंत्रीय संविधान
democratic government	लोकतंत्रीय शासन
demolish <i>vb.</i>	ढहाना, गिराना
demonetization	} सिक्के का प्रचलन बन्द करना
demonetize <i>vb.</i>	
demonstrable	प्रदर्शनीय
demonstrate <i>vb.</i>	प्रदर्शन करना, प्रदर्शित करना
demonstration	प्रदर्शन
demonstrator	प्रदर्शक
demoralization	(ii) उत्साहभंग, (ii) आचार-भ्रष्टता
demoralize <i>vb.</i>	(i) हौसला तोड़ना, निरुत्साह करना
	(iii) आचार-भ्रष्ट करना
demoralized	(i) निरुत्साहित (ii) आचार-भ्रष्ट
demote <i>vb.</i>	पदावनत करना, तनज्जुल करना (उदूँ)

demotion <i>n.</i>	पदावनति, तनज्जुली
demur <i>vb.</i>	(i) एतराज करना, (ii) देर लगाना
demurrage (Rly.)	विलम्ब शुल्क
denaturalization	नागरिक अधिकार छीन लेना
denaturalize <i>vb.</i>	अस्वीकार्य
deniable	(i) इनकार, अस्वीकार (ii) त्याग
denial	आत्म-त्याग
self-denial	नाम रखना
denominate <i>vb.</i>	(i) नाम (ii) सम्प्रदाय, फ़िरका (iii) वर्ग
denomination	साम्प्रदायिक
denominational	साम्प्रदायिक संस्था
denominational institution	संकेत, निर्देश
denotation	वताना, संकेत करना, निर्देश करना
denote <i>vb.</i>	(i) भर्त्सना करना, (ii) संधि समाप्त
denounce <i>vb.</i>	करने की घोषणा करना
de novo	सरेनौ, नये सिरे से
denunciation	(i) भर्त्सना, (ii) सन्धि-विच्छेद की घोषणा
denunciatory	भर्त्सना मूलक
deny <i>vb.</i>	(i) इनकार करना, नकरना (ii) वंचित रखना
depart <i>vb.</i>	(i) रवाना होना, जाना, प्रस्थान करना
department	(ii) विचलित होना
departmental	विभाग
departmental action	विभागी (विभागीय)
departmental enquiry	विभागी कार्रवाई
departmental examination	विभागी जाँच
departmental manual	विभागी परीक्षा
departmental order	विभागी नियमावली
departmental permission	विभागी आदेश
departmental procedure	विभागी अनुमति
departmental promotion	विभागी प्रक्रिया
departmental promotion	विभागी तरक्की । विभागी पदोन्नति
departure	विभागी पदोन्नति समिति
departure from rules	विमुखता
	नियम-विमुखता

depend <i>vb.</i>	(i) निर्भर (ii) विश्वास करना रखना
dependable	विश्वासनीय, यकीन के काविल
dependence	(i) निर्भरता, विश्वासनीयता, (ii) पराश्रय
dependency	अधीन राज्य
dependent	आश्रित
deplete <i>vb.</i>	खाली करना, खाली होना
depletion	खाली होना
deplorable	शोचनीय
deplore <i>vb.</i>	दुःख प्रकट करना, चिन्ता प्रकट करना
depopulation <i>n.</i>	उजड़ना, उजाड़ना,
deportation	जनसंख्या का गस
deport <i>vb.</i>	देश-निकाला, देशान्तरण
deportee	देश से निकालना, देशान्तरण करना
depose <i>vb.</i>	देश से निकाला हुआ व्यक्ति/देशान्तरित
deposit <i>n.</i>	व्यक्ति
<i>vb.</i>	(i) बयान देना (ii) गद्दी से उतारना
deposit account	जमा
deposit book	जमा करना, जमा होना
deposit money	जमा खता
deposit receipt	जमा बही
deposited	जमा रकम
deposition	जमा रसीद
depositor	जमा किया हुआ
depository	बयान
depot	जमा करने वाला
sales depot	आगार
deprave <i>vb.</i>	डिपो
depraved	विक्री डिपो
depravity	पतित करना
deprecate <i>vb.</i>	पतित
deprecation <i>n.</i>	पतन, पतितावस्था
depreciate <i>vb.</i>	प्रतिवाद करना, खण्डन करना
depreciation	प्रतिवाद, खण्डन
depreciation charges	मूल्यह्रास होना, अर्धपात होना
depreciation fund	मूल्य ह्रास, अर्धपात
	मूल्य ह्रास प्रभार
	मूल्य ह्रास निधि



depredation	लूट-पाट
depress <i>vb.</i>	दवाना
depressed	दबे हुए, दलित
depressed classes	दलित वर्ग
depression	(i) मन्दी (ii) अवसाद, धनसकन
postwar depression	लड़ाई के बाद की मन्दी
deprive <i>vb.</i>	वंचित करना
deputation	(i) प्रतिनियुक्ति (ii) शिष्टमण्डल
deputation allowance	प्रतिनियुक्ति भत्ता
deputation pay	प्रतिनियुक्ति वेतन
deputation service	प्रतिनियुक्तिसेवा
on deputation	प्रतिनियुक्ति पर
deputationist	शिष्टमण्डल का सदस्य
depute <i>vb.</i>	(i) प्रतिनियुक्ति करना (ii) तैनात रकना
deputed	(i) प्रतिनियुक्ति (ii) तैनात किया हुआ
députise <i>vb.</i>	प्रतिनिधि के रूप में काम करना, प्रतिनिवान करना
deputy <i>n.</i>	डिप्टी प्रतिनिधि
<i>adj.</i>	डिप्टी, उप
derail <i>vb.</i> (Rly.)	पटरी से उतर जाना
derailment (Rly.)	पटरी से उतर जाना
derange <i>vb.</i>	उन्माद पैदा करना
derangement	उन्माद, विक्षेप
derelict <i>adj.</i>	छोड़ा हुआ, परित्यक्त
<i>vb.</i>	छोड़ना, परित्याग करना
dereliction of duty	कर्तव्य-विमुखता, कर्तव्य का परित्याग
deride <i>vb.</i>	उपहास करना
derision	उपहास
derivation	व्युत्पत्ति
derivative	व्युत्पत्ति
derive <i>vb.</i>	पाना, प्राप्त होना, व्युत्पन्न होना
derogate <i>vb.</i>	अपकर्ष करना
derogation	अपकर्षण
derogatory	अपकर्षक
descend <i>vb.</i>	नीचे उतरना, अवरोहण

descendant	वंशज
in descending order	अवरोही क्रम में
descent	(i) उत्तार, अवरोह (ii) वंशक्रम, उद्भव
describe <i>vb.</i>	वयान करना, वर्णन करना
description	(i) वयान, वर्णन, (ii) प्रकार
descriptive	वर्णनात्मक
desecrate <i>vb.</i>	अपवित्र करना
desecration <i>n.</i>	रेगिस्तान, मरुभूमि
desert <i>n.</i>	साथ छोड़कर भागना, अभिपलायन करना
<i>vb.</i>	अभिपलायक
deserter	अभिपलायन
desertion	योग्य होना, सुपात्र होना
deserve <i>vb.</i>	योग्य, सुपात्र
deserving	(i) खाका, अभिकल्प (ii) अभिप्राय
design <i>n.</i>	इरादा
<i>vb.</i>	(i) खाका उतारना, (ii) इरादा रखना, (iii) विकल्पना करना
evil design	बुरा इरादा, दुरभिप्राय
designate <i>vb.</i>	मनोनीत करना
<i>adj.</i>	मनोनीत
designation	पद-नाम / अभिधान
desirability	वांछनीयता
desirable	वांछनीय
desire <i>n.</i>	चाह, इच्छा, वांछा, लालसा
<i>vb.</i>	चाहना, इच्छा करना, वांछा करना
desired result	वांछित फल / वांछित परिणाम
desirous	इच्छुक
desist <i>vb.</i>	बाज आना, न करना
desolate <i>adj.</i>	वीरान, उजड़ा हुआ
<i>vb.</i>	उजाड़ना, वीरान करना
despair <i>n.</i>	निराशा
<i>vb.</i>	निराश होना
despatch (dispatch) <i>vb.</i>	रवाना करना, भेजना, प्रेषित करना
<i>n.</i>	रवानगी, प्रेषण
despatch book	प्रेषण रजिस्टर
despatch register	रवानगी रजिस्टर

despatch clerk	प्रेषक क्लर्क
despatch note	प्रेषण नोट
despatch section	प्रेषक अनुभाग
despatcher	प्रेषक
desparado	आततायी
desperate ( <i>adj.</i> )	(i) हताय (ii) असाध्य (iii) दुस्साह- सिक । दुस्साहसी
desperate character	दुस्साहमी व्यक्ति,
desperately	हताय होकर
desperation	हताया, दुस्साहस
despicable	घृणित
despise <i>vb.</i>	नफ़रत करना, घृणा करना
despite <i>adj.</i>	ऐसा होते हुए भी
<i>n.</i>	द्वेष
despondency	विपाद
despot	निरंकुश शासक
despotic	निरंकुश
despotism	निरंकुशता
destination	गन्तव्य स्थान
destination board	गन्तव्य पट्टी
destination station	गन्तव्य स्टेशन
destiny	प्रारब्ध
destitute	मुफ़लिस
destitution	मुफ़लिमी
destroy <i>vb.</i>	नष्ट करना, विनाश करना
destructive	(i) विनाशकारी (ii) खण्डनात्मक, निषेधक
detach <i>vb.</i>	अलग करना, हटाना
detchable	जो अलग किया जा सके
detached view	निष्पक्ष राय
detachment	अलगाव, बैराग्य
details	व्योरा, विस्तार
details of outlay	परिव्यय का व्योरा
in details	व्योरे के साथ / सविस्तार
detailed	व्योरेवार
detailed account	व्योरेवार लेखा
detailed instructions.	व्योरेवार हिदायतें

detailed statement	व्योरेवार विवरण
detain <i>vb.</i>	रोकना, निरोध करना
detect <i>vb.</i>	पता लगाना
detection	पता लगाना
detective	गुप्तचर / खुफिया
detective police	गुप्तचर पुलिस / खुफिया पुलिस
detention	निरोध / नज़रबन्दी
detention camp	निरोध शिविर
detention-preventive	निवारक निरोध । निवारक नज़रबन्दी
detention order	(i) नज़रबन्दी आदेश (ii) निरोध आदेश
deter <i>vb.</i>	रोकना, प्रतिरोध करना
deteriorate <i>vb.</i>	(i) बिगड़ना (ii) गिरना
deterioration	(i) बिगाड़ (ii) गिरावट
determinant	निर्धारक
determinate	(i) परिसीमित (ii) निश्चित, निर्धारित
determination	(i) निर्धारण (ii) संकल्प
determination of priorities	अग्रताओं को निर्धारित करना
determine <i>vb.</i>	(i) निर्धारित करना (ii) संकल्प करना
determined	कृत-संकल्प
deterrant	प्रतिरोधक
deterrant punishment	प्रतिरोधक दण्ड
detinue	नज़रबन्दी कैदी
detonator	पटाखा
detract <i>vb.</i>	मानहरण करना
detraction	मानहरण, मानक्षय (बंगला)
detractor	मानहर्ता
detriment	अहित
detrimental	अहितकर, हानिकर
devaluate <i>vb.</i>	अवमूल्यन करना
devaluation	अवमूल्यन
devastate <i>vb.</i>	नर्बनाश करना
develop <i>vb.</i>	बढ़ना, विकसित होना
developed	विकसित
developing	विकसमान
development	विकसन
development board	विकास बोर्ड

development expenditure	विकास-व्यय
development scheme	विकास योजना
development programme	विकास कार्यक्रम
deviate <i>vb.</i>	भटक जाना, गुमराह होना
device	हिकमत, युक्ति
devise <i>vb.</i>	उपाय करना
devoid	रहित, हीन
devoid of sense	निर्वुद्धि
devolution	हस्तान्तरण
devolution of authority (transfer of authority from one to another).	अधिकार का हस्तान्तरण
devolution of in interest	हित का हस्तान्तरण
devolve <i>vb.</i>	जिम्मे आना
devote <i>b.</i>	अर्पित करना, निष्ठा रखना
devotion	निष्ठा, भक्ति
devotion to duty	कर्तव्य-निष्ठा
dexterity	निपुणता
dextrous	निपुण
diabolical	पैशाचिक
diagnose <i>vb.</i>	निदान करना
diagnosis	निदान
diagram	रेखा-चित्र
dialect	वोली
dialogue	संवाद
diameter	व्यास
diarchy	दोहरा शासन
diarist	डायरी क्लर्क
diarize <i>vb.</i>	डायरी में दर्ज करना
diary	डायरी
diary register	डायरी रजिस्टर
dictate <i>vb.</i>	लिखाना, अविदेश देना, हुक्म चलाना
dictation	श्रुतलेख
dictator	तानाशाह
dictatorial	तानाशाही
dictatorship	तानाशाही
dictionary	शब्दकोश

dictum	उक्ति
die <i>vb.</i>	मरना
<i>n.</i>	ठप्पा
die intestate	बिना वसीयत किये मर जाना
diet	आहार
diet allowance	आहार भत्ता
dietary	आहार-सम्बन्धी
diatetics	आहार-विज्ञान
differ <i>vb.</i>	(i) अन्तर होना, फर्क होना (ii) मतभेद होना । अलग राय रखना (i) अन्तर, फर्क, मतभेद (iii) विभिन्नता
difference	विभिन्न, अन्य
different	विभेद करना
differentiate <i>vb.</i>	आत्म-विश्वास की कमी, आत्मसंशय
diffidence	आत्मसंशयी
diffident	फैलाना, प्रसार करना
diffuse <i>vb.</i>	प्रसार
diffusion <i>n.</i>	निचोड़, सार-संग्रह
digest <i>n.</i>	पचाना
<i>vb.</i>	पचनीय, जो पच सके
digestible	पाचन
digestion	पाचक
digestive	पाचक अंग
digestive organ	अंक
digit	गौरव प्रदान करना
dignify <i>vb.</i>	उच्च पदाधिकारी
dignitary	गौरव, गरिमा
dignity	विषयान्तर करना
digress <i>vb.</i>	विषयान्तर
digression	विषयान्तरकारी
digressive	उजाड़ना, वीरान करना
dilapidate <i>vb.</i>	उजड़ा हुआ
dilapidated	विस्तार में जाना
dilate upon <i>vb.</i>	देर लगाने वाली / विलम्बकारी
dilatory	देर लगाने वाली चाल / टाल-मटोल
dilatory tactics	दुविधा
dilemma	दुविधा में
on the horns of a dilemma	

diligence	मेहनत, परिश्रम, उद्यम
diligent <i>adj.</i>	परिश्रमी, उद्यमी, मेहनती
diligently	मेहनत से, परिश्रम से
diluvial soil	कछारी मिट्टी
dimension	बायाम / परिमाण
diminish <i>vb.</i>	कम होना, घटना
diminutive	अल्पार्थक, लघु
diploma	सनद
diploma holder	सनददार
diplomacy	राजनय, कूटनीति
diplomat	राजनयिक
diplomatic	राजनयिक
diplomatic channel	राजनयिक माध्यम
diplomatic practice	राजनयिक प्रथा
dire consequences	भयंकर परिणाम
direct <i>adj.</i>	प्रत्यक्ष, सीधा
<i>vb.</i>	निदेश देना
direct action	सीधी कार्रवाई
direct election	प्रत्यक्ष निर्वाचन
direct nomination	प्रत्यक्ष नामन
direct recruitment	सीधी भर्ती
direct tax	प्रत्यक्ष कर
direction	(i) दिशा (ii) निदेशन
directive <i>n.</i>	निदेश
<i>adj.</i>	निदेशक
directive principles of State policy	राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत
directly	प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्षतः
director	निदेशक
director, intelligence bureau	निदेशक, गुप्तवार्ता व्यूरो
director-additional	अपर निदेशक
director-assistant	सहायक निदेशक
director-deputy	उप निदेशक
director-ex-officio	पदेन निदेशक
director-joint	सह निदेशक
director-managing	प्रबन्ध निदेशक
director-general	महानिदेशक

directorship	निदेशक का पद
directory	डाइरेक्टरी
disability	अशक्तता
special disability leave	विशेष अशक्तता छुट्टी
disablement	अशक्तता
disable <i>vb.</i>	अशक्त करना, अशक्त होना
disabled	अशक्त
disabled person	अशक्त व्यक्ति
disadvantage	अलाभ, हानि
disadvantageous	अलाभकर, हानिकर
disaffect <i>vb.</i>	असंतोष फैलाना
disaffected	असंतुष्ट
disaffection	असंतोष
disagree <i>vb.</i>	असहमत होना
disagreeable	अरुचिकर
disagreement	असहमति
disallow <i>vb.</i>	मना करना, न मानना, अस्वीकार करना
disallowance	अस्वीकृत
disallowance list	अस्वीकृति सूची
disapprobation	प्रतिनिन्दा
disapproval	अनुमोदन
disapprove <i>vb.</i>	अननुमोदन करना
disappoint <i>vb.</i>	निराश होना, निराश करना
disappointment	निराशा, मायूसी, (उर्दू)
disaster	विनाश
disastrous	विनाशकारी
disband <i>vb.</i>	भंग करना, विघटन करना
disburse <i>vb.</i>	वांटना, संवितरण करना
disbursement (of pay)	वेतन वांटना
disbursing officer	संवितरण अफसर
discharge <i>n.</i>	(i) चुकाती (ii) निर्वहन (ii) पालन
<i>vb.</i>	(iv) विमुक्ति
	(i) चुकाना (ii) निर्वहन करना (iii) पालन करना (iv) विमुक्त करना, अलग करना



discharge certificate (as from service)	विमुक्ति प्रमाण-पत्र
discharge a debt	कर्ज चुकाना
discharge one's duty	अपने कर्त्तव्य का पालन करना
discharge a contract	संविदा की शर्त का पालन करना
discharge (as from service)	विमुक्ति
disciplinarian	अनुशासक / अनुशासन प्रिय
disciplinary	अनुशासन-सम्बन्धी
disciplinary action	अनुशासन की कार्रवाई
discipline	अनुशासन
disclaim <i>vb.</i>	(i) स्वत्व त्याग करना, (ii) दावा छोड़ना (iii) अस्वीकार करना
disclose <i>vb.</i>	प्रकट करना, रहस्य खोलना
discontent <i>n.</i>	असंतोष
discontinue <i>vb.</i>	बन्द करना
discontinuance	विराम
discord <i>n.</i>	(i) असौहार्द (ii) स्वरव्यपम्य
discount <i>n.</i>	बट्टा
<i>vb.</i>	बट्टा काटना
discount a bill	विल पर बट्टा काटना
discount rate	बट्टा दर
discount sale	बट्टा विक्री
discourage <i>vb.</i>	निश्चिन्ताहित करना, हौमला तोड़ना
discouraging <i>adj.</i>	उत्साह गिराने वाला
discourse <i>n.</i>	संभाषण
discourteous	अशिष्ट, बद अखलाक (उर्दू)
discourtesy <i>n.</i>	अशिष्टता, बद-अखलाकी
discover <i>vb.</i>	(i) पता लगाना, बरामद करना
	(ii) अविष्कार करना
discoverer	आविष्कर्ता / पता लगाने वाला
discovery <i>n.</i>	खोज, आविष्कार
discredit <i>vb.</i>	अविश्वास उत्पन्न करना, साथ घटाना
<i>n.</i>	अविश्वास, अप्रतीति, अपयश
discreditable	अविश्वसनीय
discrepancy	दिग्भंगति
discrepant	दिग्भंगत
discretion	विवेक

acting in one's discretion  
 discretionary  
 discretionary grants  
 discretionary powers  
 discriminate *vb.*  
 discrimination  
 discriminating protection  
 discriminatory  
 discuss *vb.*  
 discussion *n.*  
 general discussion  
 disease  
 disfigure *vb.*  
 disfigured  
 disfranchise *vb.*  
 disinfect *vb.*  
 disinfectant  
 disinfection  
 disgrace  
 disgraceful  
 disgruntle *vb.*  
 disgruntled  
 disgust  
 disgusted  
 disgustive  
 dishonour *vb.*  
 dishonour a cheque  
 disinherit *vb.*  
 disinherited  
 disintegrate *vb.*  
 disintegration *n.*  
 disintegrated  
 dislocate *vb.*  
 dismantle *vb.*  
 dismantled  
 dismiss *vb.*  
 dismissal

अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हुए  
 विवेकाधीन  
 विवेकाधीन अनुदान  
 विवेकाधीन शक्तियाँ  
 विभेद करना, भेद-भाव करना  
 भेद-भाव, विभेद  
 विभेदपूर्ण संरक्षण  
 विभेदपूर्ण  
 बहस करना, चर्चा करना  
 (i) बहस (ii) चर्चा  
 आम बहस  
 बीमारी, रोग विकार  
 रूप बिगाड़ना, विरूपित करना  
 विरूपित  
 मताधिकार छीनना  
 रोगाणुनाश करना, विसंक्रामण करना  
 रोगाणुनाशक, विसंक्रामक  
 रोगाणुनाशन, विसंक्रामण  
 अपमान  
 अपमानजनक, लज्जाजनक  
 असंतोष प्रकट करना  
 असंतुष्ट  
 खिन्नता  
 खिन्न  
 खिन्नतासूचक  
 अनादर करना, न मानना  
 चेक अस्वीकार करना  
 दायवंचित करना  
 दायवंचित  
 विघटित होना  
 विघटन  
 विघटित  
 (i) जोड़ उखड़ना (ii) अस्तव्यस्त होना  
 उखाड़ना  
 उखाड़ी हुई लाइन  
 बर्खास्त करना, खारिज करना  
 बर्खास्तगी, खारिज करना

dismissal from service  
 dismissal of an appeal  
 disobedience  
 disobedient  
 disobey *vb.*  
 disorder  
 disorder-contagious or  
 infectious  
 disorderly  
 disorderly conduct  
 disown *vb.*  
 disparage *vb.*  
 disparagement  
 disparaging  
 disparity  
 dispassionate  
 dispassionate consideration  
 dispense *vb.*  
 dispense with  
 dispensable  
 dispensary  
 dispensing  
 dispenser  
 disperse *vb.*  
 displace *vb.*  
 displaced  
 displaced person  
 displacement  
 display *vb.*  
 displease *vb.*  
*n.*  
 displeasure *n.*  
 disposal  
 disposal of audit objections  
 forward for disposal  
 disposals

नौकरी से बर्खास्तगी  
 अपील का खारिज होना  
 अवज्ञा, नाफ़रमानी  
 अवज्ञाकारी  
 कहना न मानना, आज्ञा न मानना  
 (i) अव्यवस्था (ii) विकार । रोग  
 संसर्गज या संक्रामक विकार  
 उच्छृंखल  
 उच्छृंखल आचरण  
 अस्वीकार करना  
 अनादर करना, बेकदर करना, मान गिराना  
 अनादर, बेकदरी  
 अनादरपूर्ण  
 विपमता / असमानता  
 निष्पक्ष  
 निष्पक्ष विचार करना  
 देना, प्रदान करना  
 के बिना काम चलाना  
 जिसके बिना काम चल जाय  
 दवाखाना, औषधालय  
 दवा बनाना  
 डिस्पेंसर  
 विसर्जित करना  
 अपनी जगह से हट जाना, विस्थापित करना  
 विस्थापित  
 विस्थापित व्यक्ति  
 विस्थापन  
 दिखाना, प्रदर्शित करना, प्रकट करना  
 प्रदर्शन, सजावट  
 नाराज करना  
 नाराजगी  
 (i) निबटाना (ii) निवर्तन  
 लेखा-परीक्षा की आपत्तियों का  
 निवटारा  
 निवटारे के लिए आगे भेजना  
 निवटान

acting in one's discretion  
 discretionary  
 discretionary grants  
 discretionary powers  
 discriminate *vb.*  
 discrimination  
 discriminating protection  
 discriminatory  
 discuss *vb.*  
 discussion *n.*  
 general discussion  
 disease  
 disfigure *vb.*  
 disfigured  
 disfranchise *vb.*  
 disinfect *vb.*  
 disinfectant  
 disinfection  
 disgrace  
 disgraceful  
 disgruntle *vb.*  
 disgruntled  
 disgust  
 disgusted  
 disgusting  
 dishonour *vb.*  
 dishonour a cheque  
 disinherit *vb.*  
 disinherited  
 disintegrate *vb.*  
 disintegration *n.*  
 disintegrated  
 dislocate *vb.*  
 dismantle *vb.*  
 dismantled line  
 dismiss *vb.*  
 dismissal

अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हुए  
 विवेकाधीन  
 विवेकाधीन अनुदान  
 विवेकाधीन शक्तियाँ  
 विभेद करना, भेद-भाव करना  
 भेद-भाव, विभेद  
 विभेदपूर्ण संरक्षण  
 विभेदपूर्ण  
 बहस करना, चर्चा करना  
 (i) बहस (ii) चर्चा  
 आम बहस  
 बीमारी, रोग विकार  
 रूप विगाड़ना, विरूपित करना  
 विरूपित  
 मताधिकार छीनना  
 रोगाणुनाश करना, विसंक्रामण करना  
 रोगाणुनाशक, विसंक्रामक  
 रोगाणुनाशन, विसंक्रामण  
 अपमान  
 अपमानजनक, लज्जाजनक  
 असंतोष प्रकट करना  
 असंतुष्ट  
 खिन्नता  
 खिन्न  
 खिन्नतासूचक  
 अनादर करना, न मानना  
 चेक अस्वीकार करना  
 दायवंचित करना  
 दायवंचित  
 विघटित होना  
 विघटन  
 विघटित  
 (i) जोड़ उखड़ना (ii) अस्तव्यस्त होना  
 उखाड़ना  
 उखाड़ी हुई लाइन  
 बर्खास्त करना, खारिज करना  
 बर्खास्तगी, खारिज करना

distillation	आसवन
distinct	(i) स्पष्ट, (ii) मित्र
distinctly	स्पष्ट रूप से
distinction	(i) भेद, (ii) विशेष योग्यता
distinguish <i>vb.</i>	(i) अन्तर या भेद बताना (ii) विशिष्टता प्राप्त करना
distinguished	विशिष्ट
distinguishment	विशिष्टता
distort <i>vb.</i>	रूप विगाड़ना, विकृत करना
distorted version	विकृत रूप
distortion	विकृति
distress	(i) संकट, क्लेश, (ii) कुर्की
distressed	संकटग्रस्त
distribute <i>vb.</i>	वाँटना, वितरण करना
distribution	वितरण
distribution-fair and equitable	उचित और न्यायपूर्ण वितरण
distrust <i>n.</i>	अविश्वास
<i>vb.</i>	अविश्वास करना
disturb <i>vb.</i>	शान्ति. भंग करना, उपद्रव करना, विघ्न डालना
disturbance	अशान्ति, उपद्रव, विघ्न
divergence	अपसारण
divergent	अपसारी
diverse	अनेक, विभिन्न
diversion	(i) मोड़, पार्श्वपथ (ii) दिल-बहलाव
diversity	विविधता, अनेकरूपता, अनेकता
divert <i>vb.</i>	फेरना, मोड़ना, दूसरे रास्ते से ले जाना, दिल बहलाना
divest <i>vb.</i>	अविकार छीनना
divide <i>vb.</i>	वाँटना, विभाजन करना
division	विभाजन, प्रभाग, मण्डल
divisional	प्रभागीय, मण्डलीय
dividend	(i) लाभान्श (ii) भाज्य
divorce <i>n.</i>	तलाक, सम्बन्ध-विच्छेद
<i>vb.</i>	तलाक देना, सम्बन्ध-विच्छेद करना
docket <i>n.</i>	डाकेट
<i>vb.</i>	डाकेट करना

document	दस्तावेज, प्रलेख
documents of title	स्वत्व-प्रलेख
documentary	दस्तावेजी
documentary evidence	दस्तावेजी सूक्ष्म
documentary film	वृत्त-चित्र
doctrine	सिद्धान्त
domain	अधिकार-क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र
domestic	घरेलू, गृह, देशी, आन्तरिक, पालतू
domestic animal	पालतू जानवर
domestic economy	आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था
domestic policy	घरेलू नीति
domestic science	गृह विज्ञान
domestic trade	आन्तरिक व्यापार (देशी व्यापार)
domicile	अधिवास, अधिवासी
domicile certificate	अधिवास-प्रमाण-पत्र
domiciled	अधिवासी
domiciled alien	अधिवासी विदेशी
domiciled citizen	अधिवासी नागरिक
dominé <i>vb.</i>	हावी होना
dominating	हावी
donate <i>vb.</i>	दान देना
dormant	सुप्त
double <i>adj.</i>	दूना, दुगुना, दोहरा, दुवारा
<i>vb.</i>	दूना करना
double dealing	कपट व्यवहार, दुरंगी चाल
double entry	दुवारा इन्दराज
double payment	दुवारा भुगतान
double payment-check against	दुवारा भुगतान की रोक
doubt <i>n.</i>	सन्देह, शक
doubt <i>vb.</i>	सन्देह करना, शक करना
doubtful	मदिग्ध
down direction (Rly)	डाउन दिना
down train (Rly)	डाउन गाडी
down platform (Rly)	डाउन प्लेटफार्म
down	पतन
down	पदावनन करना, तनज्जल करना (उर्दू)
down	निगम

draft <i>n.</i>	(i) हुंडी, (ii) मसौदा / प्रारूप
<i>vb.</i>	मसौदा / प्रारूप तैयार करना
draft for approval	अनुमोदनार्थ मसौदा / प्रारूप
draft sheet	मसौदा / प्रारूप-पत्र
drafter	प्रारूपकार / मसौदाकार
drafting	मसौदा / प्रारूप तैयार करना
drafting committee	मसौदा समिति / प्रारूप समिति
draftsman	नक्शानवीस
draftsmanship	नक्शानवीसी
drain <i>n.</i>	नाली
<i>vb.</i>	निकालना
drainage	जल-विकास
drainage system	जल-निकास प्रणाली
drastic	कड़ा, उग्र, कठोर
drastic change	उग्र परिवर्तन
drastic cut	भारी कटौती
drastic step	उग्र उपाय
draw <i>vb.</i> (commerce)	लेना, निकालना, लिखना
draw a cheque	चेक लिखना
draw one's pay	अपना वेतन लेना
drawback <i>n.</i>	कमी, त्रुटि
drawee	चुकाने वाला (आदेशिती)
drawer	लिखनेवाला (आदेशक)
drawing and disbursing officer	अधिग्रहण और संवितरण अफसर
dress	पोशाक, वर्दी
dress regulations	वर्दी विनियम
drought	सूखा, अनावृष्टि, निवर्षण
drudgery	कठिन परिश्रम
dry <i>adj.</i>	सूखा, शुष्क, ढाँठ
to go dry	दाहवन्दी करना, मद्यनिषेध करना
dual	दोहरा
dubious	संदिग्ध
due	(i) देय, प्राप्य
	(ii) समुचित, सम्यक
	(iii) नियत
	(iv) विधिवत्
in due course	यथासमय

due date	नियत तिथि / नियत तारीख
due weight	ममुचित महत्व
dues	देय या प्राप्य रकम
due to	के कारण
dull	(i) सुम्त, काहिल (ii) मन्द
dull market	मन्दा बाजार
duly	यथावत्, विधिवत्
duplicate n.	अनुलिपि , दूसरी प्रति
adj.	दोहरा, दूसरा
vb.	अनुलिपि निकालना, दोहरा करना
in duplicate	दो प्रतियों के साथ
duplication	दोहराव / दोहरी व्यवस्था
duplicator or	डुप्लिकेटर या कापी निकालने वाली
duplicating machine	मशीन
duplicity	कपटाचार, दुरगीबाल
durable	टिकाऊ
duration	भियाद, अवधि
duress	दबाव
under duress	दबाव में
during good behaviour	सदाचार पर्यन्त
during the pleasure of	के प्रसाद पर्यन्त
duty	(i) काम, कार्यभार, कर्त्तव्य (ii) शुल्क
duty-advalorem	यथा मूल्य शुल्क
duty allowance	कार्यभत्ता
duty-customs	सीमा-शुल्क
duty-death	मरण-शुल्क
duty-estates	सम्पदा-शुल्क
duty-excise	उत्पादन-शुल्क
duty-export	निर्यात-शुल्क
duty-import	आयात-शुल्क
duty-octroi	चुगी
duty-free	निःशुल्क
duty-list	कार्य-सूची
duty roster	कार्यविवरण/ड्यूटी रोस्टर
duty success n	उत्तराधिकार-शुल्क
duty declaration	मरते समत का वयान
duty name	गनिशील




dynamite *n.*  
dynamite *vb.*  
dynamo

डाइनामाइट  
डाइनामाइट से उड़ाना  
डाइनमो

## E

eager	उत्सुक
eagerness	उत्सुकता
ear-mark <i>vb.</i>	किसी विशेष प्रयोजन के लिए अलग रखना पृथक करना
ear-marked	किसी विशेष प्रयोजन के लिए अलग रखा हुआ, पृथककृत
early	(i) जल्द, शीघ्र (ii) समय से पहले
at the earliest	यथाशीघ्र
for early action	शीघ्र कार्रवाई के लिए
earn <i>vb.</i>	कमाना, अर्जन करना
earned	कमाया हुआ । अर्जित
earned income	अर्जित आय
earned leave	अर्जित छुट्टी
earned leave on average pay	औसत वेतन पर अर्जित छुट्टी
earnest	तत्पर
earnest money	बयाना
earnestness	तत्परता
earning	कमाई, अर्जन
earth <i>n.</i>	(i) मिट्टी (ii) पृथ्वी
<i>vb. (elec.)</i>	भूयोजन
earth work	मिट्टी का काम
earthed (elec.)	भूयोजित
earthquake	भूचाल, भूकंप
ease <i>adj.</i>	सुगमता, सरलता, आसानी
easement	सुखभोग
right of easement	सुखभोग अधिकार
easily	आसानी के साथ, सरलतापूर्वक
easy	सरल, सुगम, आसान, सुलभ
economic	अर्थ-सम्बन्धी, आर्थिक
economic aid	आर्थिक सहायता
Economic Commission for Asia & Far East	एशिया और सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग

economic condition	आर्थिक स्थिति
economic depression	आर्थिक मंदी
economic self-sufficiency	आर्थिक आत्म-निर्भरता
economical	किफायती, लाभप्रद
economics	(i) अर्थशास्त्र (ii) अर्थ-व्यवस्था
economy	(i) किफायत, मितव्ययिता (ii) अर्थ-व्यवस्था
edge	(i) कोर, किनारा (ii) धार
edible	खाने लायक
edibles	खाने की चीजें, खाद्य पदार्थ
edit <i>vb.</i>	संपादन करना
editorial	संपादकीय
educate <i>vb.</i>	सिखाना, शिक्षा देना
education	शिक्षा, शिक्षण
education bill	शिक्षा-व्यय
education department	शिक्षा विभाग
educational	शिक्षा-सम्बन्धी, शैक्षणिक
educational grant	शिक्षा अनुदान
educational institution	शिक्षा संस्था
educative	शिक्षाप्रद
efface <i>vb.</i>	मिटाना
effect	(i) असर, प्रभाव (ii) नतीजा, परिणाम (iii) कार्य
take effect	लागू होना
to the effect	के आशय का
effective	कारगर, प्रभावकारी
effective check	कारगर रोक-थाम
effectively	कारगर ढंग से, प्रभावकारी रूप से
effectiveness	प्रभाविता
effectual	प्रभावोत्पादक, प्रभावी
efficacious	कार्य साधक
efficacy	कार्य साधकता
efficiency	दक्षता
efficiency bar	दक्षतारोध
efficiency bureau	दक्षता व्यूरो
efficiency index	दक्षता सूचक (अंक)
efficient	दक्ष
efficient discharge of duty	कर्तव्य का दक्ष निर्वहन



efficient working

efficiently

effigy

effort *n.*

eight wheeler (Rly.)

eject *vb.*

ejection

elaborate *adj.*

*vb.*

elaborate arrangement

elaborate report

elapse *vb.*

elastic

elastic demand

elasticity

elect *vb.*

election

direct election

general election

indirect election

election agent

election day

election expenses

election malpractices

election officer

election petition

election return

election tribunal

elector

electoral college

electoral constituency

electoral non

electorate

electric

electric battery

electric bell

दक्ष संचालन

दक्षतापूर्वक

पुतला

कोशिश, प्रयास

अठपहिया डिन्ना

वेदखल करना

वेदखली

सविस्तार, विस्तृत, विशद

विस्तार करना, सविस्तार कहना

विशद व्यवस्था

सविस्तार रिपोर्ट

वीत जाना

लचीला

लचीली माँग

लोच

चुना, निर्वाचित करना

चुनाव, निर्वाचन

प्रत्यक्ष चुनाव

आस चुनाव

अप्रत्यक्ष चुनाव

चुनाव एजेंट

चुनाव का दिन

चुनाव-खर्च

चुनाव-सम्बन्धी अनाचार

चुनाव अफसर

चुनाव याचिका

चुनाव-खर्च का विवरण

चुनाव अधिकरण

निर्वाचक, मतदाता

निर्वाचक मण्डल

चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र

मतदाता सूची

(i) चुनाव-क्षेत्र (ii) निर्वाचक-

मण्डल

विजली सम्बन्धी

विजली बैटरी

विजली की घटी

emissary	प्रणिधि
emoluments	परिलाभ
emotion	भाव, मनोभाव
emotional	भावात्मक
emphasis	जोर, बल
emphasise <i>vb.</i>	जोर देना, बल देना
empire	साम्राज्य
empirical	अनुभवजन्य
employ <i>vb.</i>	काम पर लगाना
employed	काम पर लगा हुआ, वारोजगार
unemployed	वैरोजगार, वैकार
employee	कर्मचारी
employer	नियोजक
employment	रोजगार, काम पर लगाना, नियोजन
employment potential	नियोजन की संभाव्यता
empower <i>vb.</i>	अधिकार देना
empties <i>n.</i> (Rly.)	खाली डिब्बे
empty <i>adj.</i>	खाली
enable <i>vb.</i>	समर्थ बनाना, साधन-मुलभ करना
enabling Act	समर्थकारी अधिनियम
enact <i>vb.</i>	अधिनियम बनाना
enactment	अधिनियमन
encircle <i>vb.</i>	घेरना, घेरा डालना
encircled	घिरा हुआ
enclose <i>vb.</i>	साथ रखना, संलग्न करना
enclosed	साथ रखा हुआ, संलग्न
enclosure	(i) घेरा, अहाता (ii) संलग्न (पत्र आदि)
encourage <i>vb.</i>	बढ़ावा देना, उत्साहित करना
encroach <i>vb.</i>	अतिक्रमण करना
encroachment	अतिक्रमण
encumber <i>vb.</i>	भारग्रस्त करना
encumbered estate	भारग्रस्त सम्पदा, मकरुज जायदाद (उर्दू)
embrace <i>vb.</i>	गले लगाना, स्वीकार करना
end <i>n.</i>	(i) अन्त, सिरा (ii) उद्देश्य, साध्य
<i>vb.</i>	समाप्त करना, खत्म करना
endanger <i>vb.</i>	खतरे में डालना

endemic disease	स्थानिक बीमारी, सीमित क्षेत्र में फैली हुई बीमारी
endeavour <i>vb.</i>	कोशिश करना, प्रयास करना
endorse <i>vb.</i>	(i) समर्थन करना (ii) पृष्ठांकन करना (iii) वेचान करना
endorsed railway receipt	पृष्ठांकित रेलवे रसीद
endorsee	जिसके नाम वेचान किया जाय
endorsement	(i) समर्थन (ii) पृष्ठांकन (iii) वेचान
endorser	वेचानकर्ता
endow <i>vb.</i>	देना, प्रदान करना
endowment	धर्मस्व, धर्मदाय
endowment insurance	निर्वाह बीमा
energy	शक्ति, उर्जा, ताकत
enforce <i>vb.</i>	प्रवर्तित करना
enforcement	प्रवर्तन
enforcement squade	प्रवर्तन दस्ता
engage <i>vb.</i>	(i) काम पर लगाना (ii) वचनबद्ध होना (iii) लड़ना
engagement	(i) वचनबद्धता (ii) मँगनी, सगाई (iii) काम, धन्धा (iii) मुठभेड़
engagement diary	धन्धा डायरी
engineer	इंजीनियर
engineering	इंजीनियरिंग
engineering college	इंजीनियरिंग कालेज
engineering school	इंजीनियरिंग स्कूल
engineering works	इंजीनियरिंग के काम
engine	इंजन
engine crew	इंजन चालकवर्ग
engine driver	इंजन ड्राइवर
engine in steam	चालू इंजन
engine power	इंजन शक्ति
engine shed	इंजन शेड
engine usage	इंजन का इस्तेमाल, इंजन का उपयोग
enhance <i>vb.</i>	बढ़ाना
enhancement	बढ़ाना
enhanced rate	बढ़ी हुई दर
enjoin <i>vb.</i>	व्यादेश देना

enjoy <i>vb.</i>	उपभोग करना, आनन्द लेना
enjoyment	उपभोग
enlarge <i>vb.</i>	बढ़ाना, परिवर्धित करना
enlargement	वृद्धि, परिवर्धन
enlighten <i>vb.</i>	प्रकाश डालना, प्रबुद्ध करना
enlightened	प्रबुद्ध
enlist <i>vb.</i>	(i) भर्ती करना, भर्ती होना (ii) प्राप्त करना, पाना
enlist support	समर्थन प्राप्त करना
enlistment	भर्ती
enormous	असाधारण
enquiry	(i) जाँच, पूछताछ (ii) जिज्ञासा
enquiry clerk	पूछताछ क्लर्क
enquiry committee	जाँच समिति
enquiry office	पूछताछ दफ्तर
enquiry report	जाँच रिपोर्ट
enroll <i>vb.</i>	नाम लिखना, नाम दर्ज करना
enrollment	नामांकन
en route	रास्ते में
ensue <i>vb.</i>	वाद में आना
ensuing	आगामी
ensure	सुनिश्चित करना
enter <i>vb.</i>	(i) दर्ज करना (ii) दाखिल होना, प्रवेश करना
enterprise	(i) साहसिक कार्य (ii) उद्यम, उपक्रम
entertain <i>vb.</i>	(i) लेना, स्वीकार करना (ii) मनोरंजन करना
entitle <i>vb.</i>	हकदार होना या हकदार बनाना
entity	सत्ता, अस्तित्व
entrain <i>vb.</i>	गाड़ी में चढ़ना
entrance	प्रवेश
entrance gate	प्रवेशद्वार
entrap <i>vb.</i>	जाल में फँसाना
entry	(i) प्रवेश, दाखिला (ii) इन्दराज
adjusting entry	समंजनकारी इन्दराज
adverse entry	प्रतिकूल इन्दराज
closing entry	समापन इन्दराज

credit entry	जमा इन्दराज
debit entry	नामे इन्दराज
rectifying entry	शोधक इन्दराज
enumerate <i>vb.</i>	गिनना
enunciate <i>vb.</i>	प्रतिपादित करना
environment	परिवेश, वातावरण
envoy	दूत
epidemic disease	व्यापक रूप से फैली हुई बीमारी, महा- मारी, ओवाई
episode	उपकथा
equal <i>adj.</i>	बराबर
<i>vb.</i>	समान होना, बराबरी करना
equality	बराबरी, समता, साम्य
equalize <i>vb.</i>	बराबर करना, समान बनाना
equally	समान रूप से
equate <i>vb.</i>	समीकरण करना
equation	समीकरण
equidistance	समान दूरी
equilibrium	संतुलन, समतोल
equip <i>vb.</i>	सुसज्जित करना
equipment	उपस्कर, सज्जा, सरजाम
equitable	न्यायोचित, न्यायसंगत
equity	न्याय्यता
equivalence	समानता, समतुल्यता
equivalent	समतुल्य, समानक
eradicate <i>vb.</i>	उन्मूलन करना
eradication	उन्मूलन
erase <i>vb.</i>	मिटाना
eraser	रबर
erect <i>vb.</i>	(i) खड़ा करना, उठाना (ii) बनाना
<i>adj.</i>	सीधा
erosion	मिट्टी का कटाव
errata	शुद्धिपत्र
erroneous	गलत, भ्रमपूर्ण
erroneously	गलती से
error	भूल, गलती
clerical error	लिखाई की भूल



error of omission

escape *n.*

*vb.*

escheat *adj.*

*vb.*

escort *n.*

*vb.*

essay

essence

essential

essential category

essential services

essentiality certificate

essentially

establish *vb.*

established

establishment

establishment bill

establishment branch

establishment officer

estate

estimate *n.*

*vb.*

budget estimates

revised estimates

estimate committee

estimated cost

estimator

estop *vb.*

estoppel *n.*

ethical

ethics

evacuate *vb.*

evacuee

evacuee claim

evacuee property

evade *vb.*

चूक

वचाव, पलायन

भाग निकलना

राजगामी

राजगामी होना

(i) पहरा (ii) मार्गरेखी

पहरा देना, रक्षा के लिए साथ जाना

निवन्ध

सार, सत

सारभूत

सारभूत कोटि

सारभूत सेवाएँ

सारता प्रमाणपत्र

सारतः

(i) स्थापित करना (ii) सिद्ध करना

(i) स्थापित (ii) सिद्ध

(i) स्थापना (ii) सिद्धन्दी

सिद्धन्दी का खर्च

सिद्धन्दी शाखा

सिद्धन्दी अफसर

सम्पदा

अनुमान

अनुमान लगाना

बजट अनुमान

संशोधित अनुमान

अनुमान समिति

अनुमानित लागत

अनुमाता

निषेध करना

निषेधाज्ञा

नैतिक, नीति विषयक

नीतिशास्त्र, आचार शास्त्र

खाली करना, निष्क्रमण करना

निष्क्रान्त

निष्क्रान्त दावा

निष्क्रान्त सम्पत्ति

टालना, अपवर्चन करना

evasion	टाल-मटोल, अपवंचन
evasive	टालू, अपवंचक
evasive reply	टालू जवाब
even <i>adj.</i>	सम
letter of even number	समसंख्यक पत्र
event	घटना
eventful	घटनापूर्ण, घटनात्मक
eventually	अन्ततः
evict <i>vb.</i>	अधिनिष्कासित करना
eviction	अधिनिष्कासन
evidence	शहादत
evidence-circumstantial	परिस्थितिक शहादत
evidence-documentary	दस्तावेजी शहादत
evidence-false	गलत शहादत
evidence-hearsay	सुनी-सुनाई शहादत
evident (obvious)	स्पष्ट, प्रकट
evidential	शहादत-सम्बन्धी, शहादती
evidential value	शहादती महत्व
evil <i>n.</i>	बुराई
<i>adj.</i>	बुरा
evolve <i>vb.</i>	विकसित करना, विकसित होना
evolution	विकास
evolutionary (theory)	विकासवादी (सिद्धान्त)
exact <i>adj.</i>	यथार्थ, ठीक, सही
<i>vb.</i>	कड़ा काम लेना
exact time	ठीक समय
exacting	कड़ा, कठोर, सख्त
exactly	यथार्थतः, ठीक-ठीक
exactness	यथार्थता
exaggerate <i>vb.</i>	बड़ा-चड़ा कर कहना, अतिरंजित करना
exaggeration	बड़ा-चड़ा कर कहना, अतिरंजना
examine <i>vb.</i>	(i) परीक्षा लेना (ii) जाँच करना
examination	परीक्षा, जाँच
examination fee	परीक्षा फीस, जाँच फीस
examinee	परीक्षार्थी
examiner	परीक्षक
examinership	परीक्षक पद

example	उदाहरण, मिसाल
exceed <i>vb.</i>	अधिक होना, आगे बढ़ जाना
exceeding	अधिक
excel <i>vb.</i>	श्रेष्ठ होना
excellence	श्रेष्ठता
excellency	परमश्रेष्ठ
except <i>vb.</i>	मना करना, वर्जित करना
<i>prep.</i>	के सिवाय
exception	(i) अपवाद (ii) विवर्जन
to take exception	आपत्ति उठाना, एतराज करना
exceptional	असामान्य, आपवादिक
exceptional circumstances	असामान्य परिस्थितियाँ
exceptionally	असामान्य रूप से
excess <i>n.</i>	अति, अधिकता, अतिरेक
<i>adj.</i>	अतिरिक्त
excess charge	अतिरिक्त प्रभार
excess fare ticket	अतिरिक्त किराया टिकट
excess luggage	अतिरिक्त सामान
excessive	अत्यधिक
exchange <i>n.</i>	विनिमय
<i>vb.</i>	विनिमय करना
exchange rate	विनिमय दर
exchange-foreign	विदेशी मुद्रा विनिमय
exchangeable	विनिमेय
exchequer	राजकोष
excise	उत्पादन शुल्क, आवकारी
excise duty	उत्पादन शुल्क, आवकारी शुल्क
excise inspector	उत्पादन निरीक्षक, आवकारी निरीक्षक
excise law	उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी कानून, आव- कारी कानून
excise staff	उत्पादन-शुल्क विभाग के कर्मचारी, आवकारी विभाग के कर्मचारी
excise offence	उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी अपराध, आव- कारी सम्बन्धी अपराध
excise officer	उत्पादन-शुल्क अफसर, आवकारी अफसर
excite <i>vb.</i>	उत्तेजित करना
excited	उत्तेजित

excitement	उत्तेजना
exclude <i>vb.</i>	अलग करना, असंपृक्त करना
excluded	असंपृक्त
excluded post	असंपृक्त पद
exclusion	अलगाव, असंपृक्ति
exclusive	अनन्य
excuse <i>vb.</i>	क्षमा करना, माफ़ करना
<i>n.</i>	वहाना
exclusively	केवल
excursion	सैर, विहरण
excursion special (train)	सैर स्पेशल (गाड़ी)
execute <i>vb.</i>	(i) अमल में लाना (ii) फाँसी देना, परिपालन करना
execute an order	आदेश का पालन करना
execute a bond	बन्धनामा लिखना
execution	(i) अमल, परिपालन (ii) फाँसी
executioner	जल्लाद
executive <i>n.</i>	कार्याग
<i>adj.</i>	कार्यकारी, परिपालक
executive authority	कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकरण
executive engineer	कार्यकारी इंजीनियर
executive officer	कार्यकारी अफ़सर
executor	परिपालक
exemplary	अनुकरणीय, उदाहरणात्मक, शिक्षात्मक
exempt <i>vb.</i>	छूट देना, मुक्त करना
exempted	छूट-प्राप्त, मुक्त
exemption	छूट
exemption certificate	छूट का प्रमाणपत्र
exercise <i>n.</i>	(i) अभ्यास (ii) व्यायाम (iii) प्रयोग
<i>adj.</i>	अभ्यास करना, व्यायाम करना, प्रयोग करना
exert <i>vb.</i>	कोशिश करना, प्रयास करना
exertion	कोशिश, प्रयास
ex mill rate	मिल की दर
exhaust <i>vb.</i>	(i) थकाना (ii) निकालना (iii) समाप्त करना
exhaustion	थकान, शक्तिपात
exhaustive	पूर्ण, सर्वांगपूर्ण

exhibit <i>n.</i>	प्रदर्शित वस्तु, अदालत में पेश किये गये
	दस्तावेज आदि
<i>vb.</i>	दिखाना, प्रदर्शित करना
exhibition	प्रदर्शन, प्रदर्शनी
exhibitor	प्रदर्शक
exhume <i>vb.</i>	कब्र से खोदकर शव निकालना
exigency	अपेक्षा
exist	होना, वर्तमान होना
existence	अस्तित्व, विद्यमानता, वजूद (उर्दू)
existing	वर्तमान, मौजूदा
exist gate	बाहर जाने का फाटक
ex-officio	पदेन
exonerate <i>vb.</i>	वरी करना, दोषमुक्त करना
exoneration	वरी करना, दोषमुक्ति
expand <i>vb.</i>	विस्तार करना, फैलना
expanding	विस्तारी, फैलाने वाला
expansion	विस्तार
expansion programme	विस्तार कार्यक्रम
expansionist	विस्तारवादी
ex-parte	एकतरफा । एकपक्षीय
ex-parte judgment	एकतरफा फैसला
expatriate <i>vb.</i>	देश से निकालना
expatriation	देश निकाला
expectation	प्रत्याशा
expect <i>vb.</i>	आशा करना, प्रत्याशा करना
expected	प्रत्याशित
expediency	इष्टता, उपयोगिता
expedient	इष्ट, उपयुक्त
expidite <i>vb.</i>	जल्द निवटाना, जल्द कार्रवाई करना
expeditions	अभियान
expedition	अभियान
expel <i>vb.</i>	निकाल देना, निष्कासित करना
expend <i>vb.</i>	खर्च करना
expenditure	खर्च, व्यय
expenditure-gross	कुल खर्च
expenditure-net	शुद्ध खर्च
expenses	खर्च, व्यय

expensive	खर्चीला
experience <i>n.</i>	अनुभव, तजुर्वा
<i>vb.</i>	अनुभव करना, तजुर्वा करना
experienced	अनुभवी, तजुर्वेकार
experiment <i>n.</i>	संपरीक्षण
<i>vb.</i>	संपरीक्षण करना
experimental	संपरीक्षण सम्बन्धी, संपरीक्षणात्मक
experimental stage	संपरीक्षण की अवस्था
experimentation	संपरीक्षण
expert	विशेषज्ञ
expert committee	विशेषज्ञ समिति
expert opinion	विशेषज्ञ की राय
expire <i>vb.</i>	(i) बीत जाना, समाप्त होना (ii) मर जाना
expired date	बीती हुई तारीख
expired date ticket	बीती हुई तारीख का टिकट
expiry	समाप्ति
expiry of leave	छुट्टी की समाप्ति
explain <i>vb.</i>	(i) समझाना (ii) व्याख्या करना
explanation	(i) व्याख्या (ii) जवाबतलबी
explanatory	व्याख्या-सम्बन्धी, व्याख्यात्मक
explanatory note	व्याख्यात्मक नोट
explanatory statement	व्याख्यात्मक वयान, व्याख्यात्मक विवरण
explicit	स्पष्ट, व्यक्त
explicitly	स्पष्ट रूप से, व्यक्ततः
explode <i>vb.</i>	विस्फोट करना
exploit <i>vb.</i>	(i) शोषण करना (ii) उपयोग करना, काम में लाना
exploitation	शोषण, उपयोग
exploration	खोज
explore <i>vb.</i>	खोजना
explosion	विस्फोट
explosive <i>n.</i>	विस्फोटक पदार्थ
<i>adj.</i>	विस्फोटक
exponent	(i) प्रतिपादक (ii) घातांक
export <i>n.</i>	निर्यात
<i>vb.</i>	निर्यात करना

export licence	निर्यात लाइसेंस
export policy	निर्यात नीति
export trade	निर्यात व्यापार
exportable	निर्यात करने योग्य
exporter	निर्यातक
expose <i>vb.</i>	(i) खुला रखना (ii) असुरक्षित अवस्था में छोड़ना (iii) रहस्य खोलना
exposition	व्याख्या
ex post facto	कार्योत्तर
ex post facto sanction	कार्योत्तर मंजूरी
expound <i>vb.</i>	अर्थ निरूपित करना
express <i>adj.</i>	(i) अभिव्यक्त (ii) एक्सप्रेस (एक्सप्रेस गाड़ी)
express <i>vb.</i>	प्रकट करना, जाहिर करना, अभिव्यक्त करना
express consent	अभिव्यक्त सहमति
expression	(i) अभिव्यक्ति (ii) पद
expressive	अभिव्यंजक
expressly	अभिव्यक्त रूप से
expulsion	निकालना, निष्कासन
extempore	बिना तैयारी का, अचिन्तित
extend <i>vb.</i>	बढ़ाना, विस्तार करना, आगे फैलाना
extend leave	छुट्टी बढ़ाना
extend date	तारीख बढ़ाना
extension	विस्तार
extension of service	सेवा-अवधि का विस्तार
extensive	विस्तृत
extensive investigation	विस्तृत अनुसंधान
extent	विस्तार-क्षेत्र, सीमा
to the extent of	तक
exterminate <i>vb.</i>	निर्मूल करना
external	बाहरी, वैदेशिक
external affairs	वैदेशिक मामले
extinct	विलुप्त
extinction	विलोप
extinguish <i>vb.</i>	बुझाना
extort <i>vb.</i>	जबरदस्ती करना, बाध्य करना

extra	अतिरिक्त
extra departmental	विभागेतर
extra departmental enquiry	विभागेतर जाँच
extra work	अतिरिक्त काम
extract <i>n.</i>	सार, उद्धरण
<i>vb.</i>	निकालना
extraction	निकालना
extraordinary	असाधारण, गैरमामूली
gazette extraordinary	असाधारण गजट
extraordinary item.	असाधारण मद
extraordinary leave	असाधारण छुट्टी
extraordinary meeting	असाधारण बैठक
extraordinary pension	असाधारण पेन्शन
extra territorial	वहिर्देशीय
extravagance	फिजूलखर्ची, अपव्यय
extravagant	फिजूलखर्च, अपव्ययी
extreme <i>n.</i>	चरम सीमा, सिरा, अतिशयता
<i>adj.</i>	चरम, नितान्त, अतिशय
extremely	अत्यन्त
extremist	उग्रवादी
extremity	चरम सीमा



## F

Fabrics	कपड़े, वस्त्र
fabricate <i>vb.</i>	गढ़ना, बनाना, निर्मित करना
fabricated evidence	झूठी गवाहदत
fabrication	गढ़ना, निर्माण
fabrication of evidence	झूठी गवाहदत गढ़ना
face <i>n.</i>	चेहरा, आकृति
<i>vb.</i>	सामना करना, सामने होना
face value	अंकित मूल्य
facile	सरल, सुगम
facilitate <i>vb.</i>	सुकर बनाना, सुविवाजनक बनाना
facility	सुविधा, सहूलियत, सुकरता
for the facility of reference	हवाले की सुविधा के लिए
facing points (Rly. engineering)	सम्मुख कांटे
facsimile	प्रतिकृति, प्रतिरूप
fact	तथ्य, असलियत, वास्तविकता
in fact	वास्तव में, दरअसल
facts and figures	तथ्य और आँकड़े
facts of the case	मामले की असलियत, प्रकरण के तथ्य
faction	दल, दलबन्दी
factor	गुणनखण्ड, कारण, उपदान
factory	कारखाना
factorise <i>vb.</i>	गुणन खण्ड निकालना
factual	(i) वास्तविक, यथार्थ
faculty	(i) मनःशक्ति (ii) संकाय
faculty of arts	कला संकाय
faculty of commerce	वाणिज्य संकाय
faculty of law	कानून संकाय, विधि संकाय
faculty of medicine	भेषज संकाय
faculty of science	विज्ञान संकाय
fail <i>vb.</i>	(i) असफल होना, विफल होना, नाकामयाव होना (ii) अभाव होना, न करना
failing	असफलता, विफलता, अभाव

failure	असफलता, विफलता, नाकामयावी अभाव, न होना
failure of rains	वारिश का न होना, निवर्षण
failure to observe rules	नियमों का पालन न करना
fair <i>adj.</i>	(i) साफ, स्वच्छ (ii) उक्ति, न्यायोचित (iii) पर्याप्त
<i>n.</i>	मेला
fair copy	साफ़ प्रति
fair dealing	उचित व्यवहार
fair play	न्याय, निष्पक्ष व्यवहार
fair price	उचित मूल्य, वाजिब दाम
fair wages	उचित मजदूरी, उचित वेतन
fair weather	साफ़ मौसम
fairly	उचित रूप से, पर्याप्त रूप से
fairness	औचित्य
faith	निष्ठा, विश्वास, धर्म
faithful	निष्ठ, वफ़ादार
faithfully	निष्ठापूर्वक, वफ़ादारी के साथ
faithless	अनिष्ठावान
fake <i>adj.</i>	वनावटी, नकली, झूठा
fall <i>vb.</i>	गिरना, पतन
<i>n.</i>	झरना, प्रपात
fall short of	कम होना
fallacious	दोषपूर्ण
fallacy	(i) दोष (ii) हेत्वाभास
false	झूठा, नकली, खोटा, गलत
false charges	झूठा आरोप
false claim	झूठा दावा
false coin	खोटा सिक्का
false evidence	झूठी शहादत
false rumour	झूठी अफ़वाह
false signal	गलत सिगनल, गलत संकेत
false statement	गलत वयान
false teeth	नकली दाँत
false witness	झूठा गवाह
falsehood	झूठ
familiar	(i) जाना हुआ (ii) परिचित

familiarise <i>vb.</i>	जानना, परिचित होना, परिचित कराना
familiarity	जान-पहचान, परिचय
family	परिवार
family allowance	परिवार भत्ता
family budget	परिवारिक बजट
family pension	पारिवारिक पेंशन
family settlement	पारिवारिक वटवारा, खानगी वटवारा
family tree	वंशावली, कुर्सीनामा
family vocation	पारिवारिक व्यवसाय, खानदानी वन्वा
famine	दुर्भिक्ष, अकाल
famine insurance	दुर्भिक्ष वीमा
famine relief	दुर्भिक्ष सहायता
famine relief fund	दुर्भिक्ष सहायता कोष
famish <i>vb.</i>	भूखों मरना, अकालग्रस्त करना
famished	धुघापीड़ित, अकालग्रस्त
fanatic	धर्मान्ध
fanciful	काल्पनिक
fancy	(i) रुचि (ii) आसक्ति (iii) भ्रामक धारणा
fancy price	मनचाहा दाम
fantasy	झक
farce	प्रहसन
fare <i>n.</i>	किराया
fare table	किराया सारणी
farm <i>n.</i>	फार्म
farming	खेती
fast <i>adj.</i>	(i) तेज (ii) पक्का, दृढ़, स्थिर
<i>n.</i>	उपवास
fast colour	पक्का रंग
fast passenger train	तेज सवारी गाड़ी
fastidious	नज़ाकत से भरा
fatal	प्राणघातक
fatalist	भाग्यवादी
fatigue	थकान
fatigue duty	दलेल
fault	गलती, दोष, ऐद, खराबी
fault control centre	दोष नियंत्रण केन्द्र
faulty	सदोष, खराब

fault-finding	गलती निकालना, दोष निकालना
favour <i>n.</i>	(i) कृपा, अनुग्रह, (ii) तरफदारी, पक्षपात
<i>vb.</i>	(i) कृपा या अनुग्रह करना (ii) तरफदारी या पक्षपात करना
favourable	अनुकूल, माफिक
favourable balance of trade	अनुकूल व्यापार
favourable consideration	अनुकूल विचार
favourable terms	अनुकूल निबंधन
favourably	अनुकूल रूप से
favourite <i>n.</i>	चहेता
<i>adj.</i>	रुचिकर, मनपसन्द
fearless	निडर, निर्भय
fearlessness	निर्भयता
feasibility	साध्यता
feasible	साध्य
feature	हुलिया, आकृति, लक्षण
feature writer	वृत्त लेखक
federal	संधान-सम्बन्धी, संधानीय
federal constitution	संधानीय संविधान
federal court	संधान न्यायालय
federal government	संधान सरकार, संधान शासन
federal law	संधानीय कानून, संधानीय विधि
federal subject	संधानीय विषय
federal units	संधान की इकाइयाँ
* federation	संधान
fee	फीस, शुल्क
doctor's fee	डाक्टर की फीस
games fee	खेल-कूद की फीस
medical fee	डाक्टरी फीस
membership fee	सदस्यता शुल्क, सदस्यता की फीस
tuition fee	अध्यापन शुल्क, पढ़ाई की फीस
feeder industry	सहायक उद्योग
feeble	(i) कमजोर, दुर्बल, क्षीण (ii) मन्द
feeder route	सहायक मार्ग
feel <i>vb.</i>	छूना, स्पर्श करना, अनुभव करना, टोह लेना
feeler	टोह, अन्दाज

\* प्रचलित भाषा में federation के लिए हिन्दी में 'संघ' शब्द का प्रयोग भी किया जाता है ।

feeling	बोध, सहानुभूति
fellow	साथी, अविसदस्य
fellow-feeling	सहानुभूति, हमदर्दी
fellow passenger	सह-यात्री
fellowship	अविसदस्यता
felony	घोर अपराध, महा अपराध
fencing	वाड़
ferment	(i) खमीर (ii) क्षोभ, उत्तेजना
fermentation	खमीरण (भराठी)
ferry	घाट
ferry service	उतराई व्यवस्था
ferry steamer	घाट स्टीमर
fertile	उपजाऊ, उर्वर
fertility	उपजाऊपन, उर्वरता
fertilizer	उर्वरक
fertilizer industry	उर्वरक उद्योग
fetters	वेड़ियाँ
fiction	गल्प
fictitious	बनावटी, फ़र्जी, काल्पनिक
fidelity	निष्ठा, बफ़ादारी
field	खेत, मैदान, क्षेत्र
game field	खेल का मैदान
field book	खसरा, फील्ड-बुक, क्षेत्र पंजी
field investigation	क्षेत्र अनुसंधान
field publicity	क्षेत्र प्रचार-कार्य
field work	क्षेत्र कार्य
field worker	क्षेत्र कार्यकर्ता
figure	संख्या, तादाद, आकार, शकल
figure head	नाममात्र का प्रवान
figures	आँकड़े
file n.	फाइल, मिसिल, रेती
file cover	फाइल आवरण
file heading	फाइल शीर्षक, मिसिलनामा
file number	फाइल नंबर
file register	फाइल रजिस्टर
file a complaint	शिकायत की अर्जी देना
file objections	जवाबदेही करना, एतराज दाखिल करना
file a suit	मुकदमा दायर करना

fillip	वढ़ावा, प्रोत्साहन
film	फिल्म
film industry	फिल्म उद्योग
filter <i>n.</i>	फिल्टर, छाननी
<i>vb.</i>	छानना, छनना
filtrate <i>vb.</i>	छानना, छानकर साफ़ करना, छनना
filtration	छानना, रिसना
filth	गंदगी
filthy	गन्दा, मलिन
final	अन्तिम, आखिरी
final decision	अन्तिम निर्णय, आखिरी फ़ैसला
final position	अन्तिम स्थिति
full and final settlement	वेवाकी
finalise <i>vb.</i>	अन्तिम रूप देना, मुकम्मिल करना, पूरा करना
finalised report	पूरी रिपोर्ट, मुकम्मिल रिपोर्ट
finality	अन्तिमता
finally	अन्त में, अन्ततः, आखिरकार
finance <i>n.</i>	वित्त
<i>vb.</i>	पूँजी लगाना
finance a project	परियोजना में पूँजी लगाना
finance bill	वित्त विधेयक
finance commission	वित्त कमीशन, वित्त आयोग
finance department	वित्त विभाग
finances	वित्तीय स्थिति, वित्तीय साधन
financial	वित्त, वित्तीय
financial adviser	वित्त सलाहकार
finance control	वित्तीय नियंत्रण
financial crisis	वित्तीय संकट
financial effect	वित्तीय प्रभाव
financial obligations	वित्तीय आभार
financial policy	वित्तीय नीति
financial position	वित्तीय स्थिति
financial powers	वित्तीय शक्तियाँ
financial statement	वित्तीय विवरण
financial stability	वित्तीय स्थिरता
financial year	वित्त वर्ष
financier (investor)	महाजन, पूँजी लगाने वाला

find <i>vb.</i>	पाना, मिलना, खोजना
findings	नतीजा, निष्कर्ष
fine <i>n.</i>	जुर्माना
<i>adj.</i>	(i) वारीक, महीन, सूक्ष्म (ii) अच्छा, सुन्दर, ललित
<i>vb.</i>	जुर्माना करना
fine art	ललित कला
finger print	अँगुली छाप
finger print bureau	अँगुली छाप व्यूरो
finger print expert	अँगुली छाप विशेषज्ञ
finish <i>vb.</i>	पूरा करना, खत्म करना, समाप्त करना
finished good	तैयार माल
fire <i>n.</i>	आग
<i>vb.</i>	आग लगाना, गोली चलाना, फायर करना
fire alarm	आग लगने की चेतावनी
fire arm	आग्नेय अस्त्र
fire brigade	अग्नि शामक, फायर ब्रिगेड
fire insurance	आग बीमा
fire proof	अग्निरोधक, अग्निसह
fire works	आतिशवाजी
fireman (Railways)	फायरमैन
firing	गोली चलाना
first aid	प्रथम उपचार
first appeal	पहली अपील
first information report	पहली रिपोर्ट, इन्तदाई रिपोर्ट (उर्दू)
first reading (of a bill)	प्रथम वाचन
first offender	नया अपराधी
fisc	राजकोष
fiscal	राजकोष-सम्बन्धी, राजकोपीय
fiscal autonomy	राजकोपीय स्वायत्तता
fiscal policy	राजकोपीय नीति
fish van	मछली यान, मच्छी यान
fishery	मछियारी, मछली क्षेत्र, मछली व्यवसाय
fisheries	” ” ”
fisheries department	मछियारी विभाग
fit <i>adj.</i>	दुस्त, उपयुक्त, उचित
<i>vb.</i>	योग्य होना, दुस्त होना

fitted	जड़ा हुआ
fitness	(i) आरोग्यता, दुरुस्ती, औचित्य
fitness certificate	आरोग्यता प्रमाणपत्र
fitness certificate (as of a machine)	दुरुस्ती प्रमाण-पत्र
fitting	जुड़नार
fix <i>vb.</i>	ठहराना, स्थिर करना, निर्धारित करना
fixed	स्थिर, स्थावर
fixed assets	स्थावर परिसंपत्तियाँ
fixed pay	स्थिर वेतन
fixed point duty	एक जगह की ड्यूटी
fixation	निर्धारण
fixation of pay	वेतन का निर्धारण
fixity	स्थिरता
flat rate	एक सी दर
flavour	स्वाद, जायका
flexibility	लोच
flexible	लचीला
flimsy ground	निर्बल आधार
float a company	कम्पनी चलाना
float a debt	कर्ज लेने की घोषणा करना
floating assets	चल परिसम्पत्तियाँ
floating debt	अल्पकालिक ऋण
floating security	चल प्रतिभूति
flood	बाढ़
flood control	बाढ़ नियंत्रण
flood relief	बाढ़ पीड़ितों की सहायता
fluctuate <i>vb.</i>	घटना-बढ़ना, अस्थिर होना
fluctuating market	अस्थिर बाजार
fluctuation	चढ़ावउतार, अस्थिरता
foil <i>n.</i>	पन्ना
<i>vb.</i>	विफल करना
folio	फ़ोलियो
follow <i>vb.</i>	पीछे-पीछे चलना, अनुसरण करना
	पीछा करना
follower	अनुचर, अनुयायी



following <i>n.</i>	अनुगामी बग
<i>adj.</i>	निम्नलिखित, अगला, आगामी
fondness	अनुराग
food crop*	अनाज की फ़सल
food policy	खाद्य-सम्बन्धी नीति
food stuff	खाने की चीज़ें, खाद्य सामग्री
food supply	खाद्य संभरण, खाद्य आपूर्ति
food value	पोषण तत्व
foot board	पाव-दान
foot bridge	पैदल पुल
foot note	फुटनोट
foot path	पगडंडी
foot plate	फुट-प्लेट
footing	आधार
for approval	अनुमोदन के लिए, अनुमोदनार्थ
for and against	पक्ष और विपक्ष
for compliance	अनुपालन के लिए
for consideration	विचार के लिए, विचारार्थ
for disposal	निवटारा के लिए
for the sake of	के लिए, के वास्ते
forbear <i>vb.</i>	सहनशील होना, धीरज रखना
for bearance	सहनशीलता
forbid <i>vb.</i>	मना करना, निषेध करना, वर्जना
forbidden	निषिद्ध, वर्जित
forbidden by law	कानून द्वारा निषिद्ध, विधि-निषिद्ध
force <i>n.</i>	जोर, बल (ii) दल
<i>vb.</i>	मजबूर करना, बाध्य करना, विवश करना
air force	वायुसेना
naval force	नौसेना
police force	पुलिस
forced labour	बेगार
forced landing (as of aeroplane)	उतरने को बाध्य होना
forcibly	बलात, जबरन
forearm <i>vb.</i>	आगाह करना, आगाह होना
forecast <i>vb.</i>	पूर्वानुमान करना
<i>n.</i>	पूर्वानुमान

\*cash crop

forensic	अदालत सम्बन्धी, कानून सम्बन्धी
forensic laboratory	अदालती प्रयोगशाला
forensic science	अदालती विज्ञान
foregoing	पूर्वगामी
foregone	पूर्वनिश्चित, पहले से जाना हुआ
foreign	विदेशी (ii) विजातीय (iii) इतर
foreign assets	विदेशी परिसंपत्तियाँ
foreign exchange	विदेशी मुद्रा विनिमय
foreign mission	विदेशी मिशन
foreign policy	विदेशी नीति
foreign railway	इतर रेलवे
foreign service	विदेश सेवा
foreign trade	विदेशी व्यापार
foreign traffic (Rly.)	इतर यातायात
foreigner	विदेशी
foreman	फोरमैन
fore runner	अग्रदूत
foreshadow <i>vb.</i>	पूर्वाभास या पूर्व संकेत होना
foresight	दूरदर्शिता
forest department	वन विभाग
forest produce	वन की उपज
forestry	वन विज्ञान
foreword	प्राक्कथन
forfeit* <i>vb.</i>	ज्व्त करना
forfeited	ज्व्त
forfeiture	ज्व्ती
forge <i>vb.</i>	जालसाजी करना, आगे बढ़ना
forged documents	जाली दस्तावेज, जाली प्रलेख
forgery	जालसाज
forget <i>vb.</i>	जालसाजी
forgive <i>vb.</i>	भूल जाना
forgo <i>vb.</i>	क्षमा करना, माफ़ करना
form <i>n.</i>	छोड़ना, न लेना
<i>vb.</i>	(i) रूप, आकार (ii) फार्म बनाना, निर्माण करना

\*confiscate *vb.*

राज्यसात करना

application form	आवेदन फार्म
agreement form	करारनामा
formal	औपचारिक, रस्मी
formal meeting	औपचारिक बैठक
formal sanction	औपचारिक मंजूरी
formally	औपचारिक रूप से, बाकायदा
formality	रस्म, औपचारिकता
formation	निर्माण, रचना, तल्प
formation level	तल्प स्तर
formative	निर्माणात्मक, निर्माणशील
formative stage	निर्माणशील अवस्था
former*	पूर्व, पूर्वाक्त
formerly	पहले
formidable	डरावना, भयानक
formula	सूत्र
formulate <i>vb.</i>	सूत्रबद्ध करना, निर्धारित करना
formulate policy	नीति निर्धारित करना
forsake <i>vb.</i>	छोड़ देना, भुला देना
foreswear <i>vb.</i>	शपथ पर इनकार करना
fortnight	पक्ष, पख्तवार
fortnightly	पाक्षिक
forthcoming	आगामी
forthwith	तुरन्त, तत्काल
fortify <i>vb.</i>	सुदृढ़ करना, किलाबन्दी करना
fortitude	वैर्य
fortuitous	आकस्मिक, दैविक
fortunate	भाग्यवान, भाग्यशाली
fortune	भाग्य, ऐश्वर्य
forum	मंच
forward <i>adv.</i>	आगे
<i>adj.</i>	अगला, अग्रगामी
<i>vb.</i>	आगे भेजना, अग्रेपण करना
forwarded	अग्रेपित
forwarding letter	अग्रेपण पत्र

forwarding note	अग्नेपण नोट
forwarding railway	अग्नेपक रेलवे
foster <i>vb.</i>	पालन-पोषण करना (ii) बढ़ाना
<i>adj.</i>	पोषित, पालक
foul	(i) दूषित (ii) असत् (iii) नियम- विरुद्ध
foul play	विश्वासघात
foul smell	वदवू, दुर्गन्ध
found <i>vb.</i>	नीव डालना, संस्थापित करना, प्रवर्तन करना
foundation	नीव, आधार, प्रवर्तन
founder	संस्थापक, प्रवर्तक
foundry	ढलाई-घर
four wheeler	चौपहिया डिब्बा
fraction	(i) खण्ड, टुकड़ा, अंश (ii) भिन्न
fractional	आंशिक, भागिक
fractional currency	रेजगारी
fracture	हड्डी का टूट जाना
fragile	कमजोर
fragment	टुकड़ा, खण्ड, भाग
fragmentation	टुकड़ों में बँटना
frame <i>n.</i>	ढाँचा
<i>vb.</i>	वनाना, लगाना
framework	ढाँचा
franchise	मताधिकार
fraternal	भाईचारे का
fraternity	भाईचारा
fraternize <i>vb.</i>	भाईचारे का सम्बन्ध जोड़ना
fraud	छल, कपट
fradulent	छलपूर्ण, कपटपूर्ण
fraudulently	कपटपूर्ण ढंग से
fraught with danger	खतरे से भरा हुआ
free <i>adj.</i>	स्वाधीन, स्वतंत्र, आजाद (ii) मुक्त, अबाध (iii) निशुल्क, मुफ्त
free allowance of luggage	मुफ्त सामान ले जाने की छूट
free competition	खुली प्रतियोगिता

free education	निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त तालीम
free goods	निःशुल्क माल
free hand	खुली छूट, हाथ का
to have a free hand	खुली छूट पाना
free hand drawing	हाथ की ड्राइंग
free imports	निःशुल्क आयात
free passage	निःशुल्क यात्रा
free port	खुला बन्दरगाह
free scholar	फ्रीसमाप्त विद्यार्थी, निःशुल्क विद्यार्थी
free from encumbrances	भारमुक्त
free of tax	करमुक्त
free time	मोहलत
free trade	अबाध व्यापार
freedom	स्वाधीनता, स्वतंत्रता, आजादी, मुक्ति
freedom from fear	भय से मुक्ति
freedom from want	अभाव से मुक्ति
freedom from war	युद्ध से मुक्ति
freedom of expression	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
freehold	आत्मवृत्ति
freehold property	आत्मवृत्त सम्पत्ति
freeholder	मालिक, स्वामी
freely	बेरोक-टोक, निर्बाध रूप से
freeship	माफ़ी, निःशुल्कता
freeze vb.	(i) जमना (ii) प्रतिबाधित करना
freezing point	जमाव बिन्दु
freight	भाड़ा
freight on board	जहाज तक निःशुल्क
(F. O. B.)	
freight on rail (F. O. R.)	रेल तक निःशुल्क
freight locomotive	मालगाड़ी का इंजन
freight rate	भाड़ा-दर
freight ton miles	भाड़ा-टन-मील
freightage	महसूल, मालभाड़ा
frequency	आवृत्ति

frequent <i>adj.</i>	वारवार होने या घटने वाला, आवृत्तिक
<i>vb.</i>	बार बार होना या घटना
frequently	बार-बार, प्रायः
fresh water	मीठा पानी
friction	(i) संघर्ष (ii) रगड़
friend	दोस्त, मित्र
friendly	मित्र, मित्रवत्, दोस्ताना
friendly advice	दोस्ताना सलाह
friendship	दोस्ती, मित्रता
from the very beginning	आरम्भ से ही, शुरू से ही,
from time to time	कभी-कभी, समय-समय पर
front	सामना
frontage	अग्रभाग
frontier	सरहद्द, सीमा
fruitful	उपयोगी, लाभकर
fruition	उपभोग, अभीष्ट की प्राप्ति
fructify <i>vb.</i>	फलना-फूलना, सफलीभूत होना
frustrate <i>vb.</i>	हताश होना
frustrated	हताश
frustration	हताशा
fugitive	भगोड़ा
fugitive offender	भगोड़ा अपराधी
fulfil <i>vb.</i>	(i) पूरा करना (ii) पालन करना
fulfil a condition	शर्त पूरी करना
full	पूरा, भरा हुआ
fully	पूरी तरह, पूर्णतः
fulsome praise	मुक्तकंठ प्रशंसा
function <i>n.</i>	कार्य, क्रिया (ii) समारोह
<i>vb.</i>	कार्य करना, कार्य पालन करना
functional	कार्य-सम्बन्धी
functionary	पदाधिकारी
fund	निधि, कोष
fund benevolent	उपकार निधि
fund betterment	सुधार निधि
fund-consolidated	समेकित निधि, संचित निधि
fund-contributory provident	अंशदायी निर्वाह निधि

fund-provident	निर्वाह निधि
fund-reserve	आरक्षित निधि
fund-small savings	अल्प वचत निधि
fund sinking	ऋणशोधन निधि
funded	निधिगत, निधिक
funded debt	निधिगत ऋण
unfunded debt	अनिधिक ऋण
fundamental <i>adj.</i>	मूल, मूलभूत
fundamentals	आधार, मूल नियम
fundamental principles	मूल सिद्धान्त
fundamental rights	मूल अधिकार
fundamental rule	मूल नियम
fundamentally	मूलतः
funeral	अन्तर्वेष्टि (ii) शवयात्रा, जनाजा
furnish <i>vb.</i>	सजाना (ii) देना, पेश करना, प्रस्तुत करना
furnish a room	कमरा सजाना
furnish proof	प्रमाण देना, सबूत देना
furnish security	जमानत देना
furnished accommodation	सज्जित स्थान
furniture	उपस्कर
further <i>adv.</i>	आगे, इसके अलावा
<i>adj.</i>	अगला
further action	आगे की कार्रवाई
further <i>vb.</i>	बढ़ाना, आगे बढ़ाना
fuse <i>vb.</i>	मिलना, संगलित होना
<i>n.</i>	फ्यूज
fusion	(i) मेल, सम्मिलन (ii) संगलन
futile <i>adj.</i>	वेकार, व्यर्थ, निरर्थक
future <i>n.</i>	भविष्य
<i>adj.</i>	भागी
<i>adv.</i>	आगे की ओर, इसके अतिरिक्त, और भी
futures	सट्टा, वायदा व्यापार
future market	वायदा बाजार


## G

Gadget	युक्ति, हिकमत
gag <i>n.</i>	मुँहवन्दी
<i>vb.</i>	मुँहवन्द करना, बोलने न देना
apply the gag	विवाद समाप्त करना
gain <i>n.</i>	लाभ, प्राप्ति
<i>vb.</i>	लाभ उठाना, प्राप्त करना
gain upper hand	हावी होना
gainsay <i>vb.</i>	न मानना, मानने से इनकार करना
gallery	बीथी
official gallery	सरकारी बीथी
visitors, gallery	दर्शक बीथी
ladies' gallery	महिला बीथी
gamble <i>vb.</i>	जुआ खेलना
gambler	जुआड़ी
gambling	जुआ
gambling den	जुए का अड्डा
gang	टोली, गिरोह
gang of thieves	चोरों का गिरोह
gang man	गैंग मैन, टोली मजदूर
gap	अन्तर
garrison <i>n.</i>	गैरिजन
gate keeper	} दरवान, द्वारपाल
gate man	
gate pass	प्रवेश-पत्र
gate sentry	फाटक का सन्तरी
gather <i>vb.</i>	इकट्ठा होना, इकट्ठा करना
gathering	जन-समूह, सभा
gauge <i>n.</i>	(i) आमान (ii) मापी
<i>vb.</i>	मापना, अन्दाज़ा लगाना
rain gauge	वर्षा मापी
broad gauge (Railway)	दड़ी लाइन
metre gauge (Railway)	मीटर लाइन



narrow gauge (Railway)	छोटी लाइन, सँकरी लाइन
gazette	गज़ट, राजपत्र
gazette notification	गज़ट अधिसूचना
gazette extraordinary	असाधारण गज़ट
gazetted	राजपत्रित
gazetted officer	राजपत्रित अफ़सर
gazetted post	राजपत्रित पद
gazetteer	गज़ेटियर
out of gear	अव्यवस्थित
genealogical tree	वंशावली, कुर्सीनामा
genealogy	वंशावली, शजरा
general <i>adj.</i>	सामान्य, व्यापक, आम
general administration	सामान्य प्रशासन
general acquaintance	सामान्य परिचय, आम जानकारी
general application	सामान्यरूप से लागू होना
general charges	सामान्य प्रभार
general custom	आम रिवाज
general discussion	आम बहस
general elections	आम चुनाव
general knowledge	सामान्य ज्ञान
general index of whole-sale prices	थोक कीमतों का सामान्य सूचक
general price level	सामान्य मूल्य-स्तर
general public	जनता, जनसाधारण
general revenues	सामान्य राजस्व
general rule	सामान्य नियम
general science	सामान्य विज्ञान
generality	सामान्यता, व्यापकता
generalisation	सामान्यीकरण, व्यापकीकरण
generalise <i>vb.</i>	सामान्य बनाना, व्यापक बनाना
generally	आमतौर पर, सामान्यतः
generate <i>vb.</i>	पैदा करना, उत्पन्न करना
generation	(i) पीढ़ी (ii) जनन, उत्पादन
generative	जनन-सम्बन्धी, उत्पादक
generator	जनरेटर, जनित्र
generosity	उदारता
generous	उदार

generously	उदारतापूर्वक
genesis	उत्पत्ति
genitive	जनन-सम्बन्धी, सम्बन्ध-सूचक
genius	(i) प्रतिभा (ii) प्रतिभाशाली व्यक्ति
gentle	(i) शिष्ट (ii) हल्का, मन्द
gentleman	सज्जन
gentlemanliness	शिष्टता, सज्जनता
gentlemanly <i>adj.</i>	शिष्ट, भद्र
genuine	(i) असली, शुद्ध, अकूट (ii) वास्तविक, यथार्थ, प्रामाणिक
genuine demand	यथार्थ माँग
genuine need	यथार्थ आवश्यकता
genuineness	शुद्धता, वास्तविकता, प्रामाणिकता, यथार्थता
geographical	भौगोलिक
geographical features	भौगोलिक विशेषताएँ
geographical survey	भौगोलिक सर्वेक्षण
geography	भूगोल
geological	भूविज्ञान-सम्बन्धी
geologist	भूवैज्ञानिक, भूगर्भविद्
geology	भूगर्भ विज्ञान, भूविज्ञान
germ	(i) कीड़ा, कीट, कीटाणु (ii) अंकुर
germ war-fare	कीटाणु युद्ध
germicide	कीटाणु नाशक, कीटनाशक
germinate <i>vb.</i>	अंकुर निकलना, उगना
germination <i>n.</i>	अंकुरण, उगना
gesture	संकेत, इशारा
gesture of goodwill	सद्भावना संकेत
gift	भेंट, उपहार, दान
gift deed	दान-पत्र, हिव्वानामा (उर्दू)
gift tax	उपहार कर
gist	सारांश
giving	स्वप्न, भयंकर
giving irregularity	भयंकर अनियमितता
impulse	झलक
global	विश्वव्यापी
global tender	विश्वव्यापी टेन्डर



global war	विश्वव्यापी लड़ाई
gloom	अन्धकार, निराशा
gloomy	निराश, निराशापूर्ण
glossary	शब्द संग्रह, अब्दावली
godown	गोदाम
good <i>n.</i>	हित, भलाई, कल्याण
<i>adj.</i>	अच्छा, पर्याप्त, समुचित
good bargain	अच्छा सीदा, लाभ का सीदा
good conduct	सदाचार, नेक-चलनी
good conduct allowance	सदाचार भत्ता, नेकचलनी का भत्ता
goodwill	सद्भावना, नेकनीयती,
good will mission	सद्भावना शिष्टमण्डल
in good faith	सद्भाव के साथ, अच्छी नीयत से
goods	माल
goods booking	माल की बुकिंग
goods clerk	माल वावू
goods inspector	माल निरीक्षक
goods office	माल घर
goods traffic	माल यातायात
consumer goods	उपभोग की वस्तुएँ
govern <i>vb.</i>	शासन करना
governance	शासन
governing	शासी
governing body	शासी निकाय
government	शासन, सरकार
government dues	सरकारी देय
government official	सरकारी कर्मचारी
government order	सरकारी आदेश
government pensioner	सरकारी पेंशनर
government pleader	सरकारी वकील
government quarters	सरकारी वासा
government security	सरकारी हुण्डी, सरकारी ऋणपत्र
government service	सरकारी नौकरी
government treasury	सरकारी खजाना
governmental	शासन-सम्बन्धी, सरकार-सम्बन्धी
governmental machinery	शासन तंत्र
governor	शासक, नियंत्रक

governor of a state	राज्यपाल
grace	(i) आकर्षण, मोहकता (ii) अनुग्रह (iii) रियायत
days of gract	रियायती दिन
grace period	रियायत की अवधि
grade	(i) ग्रेड, वर्ग (ii) चढ़ाव-उतार
in the grade of	के ग्रेड में
graded	वर्गीकृत
graded coal	वर्गीकृत कोयला
gradation	अनुक्रम
gradation list	अनुक्रम सूची
gradient	चढ़ाव-उतार
grading	वर्गीकरण
gradual	क्रमिक
gradual progress	क्रमिक प्रगति
gradually	क्रमशः, धीरे-धीरे
graduate n.	स्नातक
vb.	स्नातक परीक्षा पास करना
graduation	स्नातक परीक्षा पास करना, क्रमभाजन अंशांकन
graft n.	कलम
vb.	कलम लगाना
granary	कोठार, अन्नागार
grand total	कुल जोड़
grant n.	अनुदान
vb.	देना, प्रदान करना
government grant	सरकारी अनुदान
grants-in-aid	सहायक अनुदान
grantee	अनुदान पाने वाला, अनुदानग्राही
grantor	अनुदान देने वाला, अनुदानकर्ता
graph	ग्राफ़
grateful	आभारी, कृतज्ञ, एहसानमन्द
gratefulness	आभार, कृतज्ञता
gratify vb.	खुश करना, परितुष्ट करना, तृप्त करना
gratification	परितोष, परितोषण, तृप्ति
gratis	निःशुल्क
gratitude	आभार, कृतज्ञता, एहसान

gratuitous	निःशुल्क, अयाचित, अकारण
gratuity	उपदान
grave <i>adj.</i>	गम्भीर, भीषण, घोर
grave disorder	गम्भीर अव्यवस्था
grave emergency	गंभीर संकट, गंभीर आपात
gravitate <i>vb.</i>	अपनी ओर खींचना
gravitation	गुत्वाकर्षण
gravity	गुस्त्व, गंभीरता
greet <i>vb.</i>	अभिवादन करना, अभिनन्दन करना
greeting	अभिवादन, अभिनन्दन
grief	शोक, व्यथा
grievance	शिकायत
grievous	गहरी
grievous hurt	गहरी चोट
grip	पकड़
gross <i>adj.</i>	कुल, सकल, घोर
gross abuse of power	शक्ति का घोर दुरुपयोग
gross assets	कुल परिसम्पत्तियाँ
gross earning	कुल कमाई
gross income	कुल आय, कुल आमदनी
gross profit	कुल लाभ
ground '	(i) आवार (ii) कारण (iii) भूमि, जमीन (iv) मैदान
ground floor	भूमितल
ground rent	जमीन का भाड़ा
groundage	लंगर शुल्क
grounding	आवार
groundless	निरावार
grounds	आवार, कारण
on what grounds	किन कारणों से, किन बातों के आवार पर
group <i>n.</i>	टोली, समूह
<i>vb.</i>	समूहीकरण करना
group-leader	टोलीनायक
grouped	समूहीकृत
grouping	समूहीकरण
regrouping	पुनर्समूहीकरण
regrouping of railways	रेलों का पुनर्समूहीकरण

grouse <i>n.</i>	शिकायत
<i>vb.</i>	शिकायत करना
grow <i>vb.</i>	उगना, उपजना, उपजाना
grow more food campaign	अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन
growth	वृद्धि, वर्धन
grudge <i>n.</i>	डाह, ईर्ष्या, हसद (उर्द)
<i>vb.</i>	डाह करना, ईर्ष्या करना, हसद करना
grudgingly	अनिच्छा से
gruesome	भयानक
grumble <i>vb.</i>	वड़वड़ाना, असंतोष प्रकट करना
grumbling	असंतोष
guarantee <i>n.</i>	गारंटी, जिम्मा
<i>vb.</i>	गारंटी लेना, जिम्मा लेना
guarantee bond	गारंटी बन्ध
guaranteed	गारंटीकृत
guaranty	गारंटी
guard <i>n.</i>	(i) गार्ड (Rly), (ii) रक्षक
	(iii) पहरेदार
<i>vb.</i>	रक्षा करना, पहरा देना
guard's journal	गार्ड का जरनल
guardian	अभिभावक
guardianship	अभिभावकत्व
guess <i>n.</i>	अटकल, अनुमान
<i>vb.</i>	अटकल लगाना, अनुमान लगाना
guide <i>n.</i>	मार्ग दर्शक (person)
<i>vb.</i>	प्रदर्शिका (book)
guidance	रास्ता दिखाना, पथ प्रदर्शन करना
guilt	पथ-दर्शन
guiltless	कसूर, दोष, अपराध
guilty	वेकसूर, निर्दोष, निरपराध
guilty conscience	कसूरवार, दोषी, अपराधी
	दोषी अन्तःकरण

## H

habeas corpus	कैदी को हाज़िर करना
habeas corpus application	कैदी को हाज़िर करने का आवेदन
habit	आदत, अभ्यास
habitable	रहने योग्य, निवास योग्य
habitation	निवास
habitual	आदी, अभ्यस्त, आभ्यासिक
habitual defaulter	अभ्यस्त वाकीदार
habitual offender	अभ्यस्त अपराधी
habituate <i>vb.</i>	आदी होना, अभ्यस्त होना
habituated	आदी, अभ्यस्त
hail storm	ओला वृष्टि
half average pay	अर्ध औसत वेतन
half-blood <i>adj.</i>	सैतिला
half heard	उत्साहहीन,
half-heartedly	उत्साहहीन ढंग से
half-rate articles	आधीदर वाली वस्तुएँ
half truth	अर्ध सत्य, आंशिक सत्य
half yearly	छमाही, अर्धवार्षिक
halt <i>n.</i>	हाल्ट, विराम, पड़ाव
<i>vb.</i>	रकना, पड़ाव डालना
halt station	हाल्ट स्टेशन
halting allowance	विराम भत्ता
hamper <i>vb.</i>	रोकना, बाधा डालना
hand-bill	पर्ची
hand-book	गुटिका
hand-book financial	वित्तीय गुटिका
hand cart	हथ ठेला
handcuff <i>n.</i>	हथकड़ी
<i>vb.</i>	हथकड़ी डालना
handful	मुट्ठीभर, थोड़ा
handicap <i>n.</i>	अड़चन, बाधा, रकावट
<i>vb.</i>	बाधा डालना, रकावट पैदा करना

handicap race	वाधा दौड़
handicraft	दस्तकारी
handicraft board	दस्तकारी बोर्ड
handle <i>vb.</i>	(i) सम्हलना (ii) चढ़ाना-उतारना
handling	(i) सम्हालाई (ii) चढ़ाना-उतारना
handling charges	चढ़ाने-उतारने का महसूल, सम्हालाई प्रभार
proper handling	समुचित ढंग से सम्हालना
hand loom	हथकरघा
hand loom cloth	हथकरघे का कपड़ा
handloom industry	हथकरघा उद्योग
hand over <i>vb.</i>	सौंपना
handling over charge	कार्यभार सौंपना
handing over notes	कार्यभार सौंपने का नोट
hand-made	हाथ का बना हुआ
hand signal	हाथ का सिग्नल
hand writing	लिखावट
handy <i>adj.</i>	काम का, सुविधाजनक
hang <i>vb.</i>	लटकाना, फाँसी देना
hangar	हैंगर
hanging <i>n.</i>	फाँसी
hangman	जल्लाद
haphazard	संयोग, इत्तिफ़ाक
haphazard guess	अटकल
happen <i>vb.</i>	होना, घटित होना, संयोगवश होना
happening	घटना
happiness	प्रसन्नता, खुशी
harass <i>vb.</i>	तंग करना, परेशान करना, उत्पीड़न करना
harassment	उत्पीड़न
harbour <i>n.</i>	बन्दरगाह
<i>vb.</i>	(i) आश्रय देना, (ii) धारण करना
to harbour offenders	अपराधियों को आश्रय देना
hard <i>adj.</i>	कठिन, कठोर, कर्कश, भारी
hard and fast rule	निश्चित नियम
hard cash	नकदी
hard currency	दुर्लभ मुद्रा
hard labour	कठिन परिश्रम
hard water	भारी पानी



## H

habeas corpus	कैदी को हाज़िर करना
habeas corpus application	कैदी को हाज़िर करने का आवेदन
habit	आदत, अभ्यास
habitable	रहने योग्य, निवास योग्य
habitation	निवास
habitual	आदी, अभ्यस्त, आभ्यासिक
habitual defaulter	अभ्यस्त वाकीदार
habitual offender	अभ्यस्त अपराधी
habituate <i>vb.</i>	आदी होना, अभ्यस्त होना
habituated	आदी, अभ्यस्त
hail storm	ओला वृष्टि
half average pay	अर्ध औसत वेतन
half-blood <i>adj.</i>	सौतेला
half heard	उत्साहहीन,
half-heartedly	उत्साहहीन ढंग से
half-rate articles	आधीदर वाली वस्तुएँ
half truth	अर्ध सत्य, आंशिक सत्य
half yearly	छमाही, अर्धवार्षिक
halt <i>n.</i>	हाल्ट, विराम, पड़ाव
<i>vb.</i>	रकना, पड़ाव डालना
halt station	हाल्ट स्टेशन
halting allowance	विराम भत्ता
hamper <i>vb.</i>	रोकना, बाधा डालना
hand-bill	पर्ची
hand-book	गुटिका
hand-book financial	वित्तीय गुटिका
hand cart	हथ ठेला
handcuff <i>n.</i>	हथकड़ी
<i>vb.</i>	हथकड़ी डालना
handful	मुट्ठीभर, थोड़ा
handicap <i>n.</i>	अड़चन, बाधा, रकावट
<i>vb.</i>	बाधा डालना, रकावट पैदा करना

handicap race	बाधा दौड़
handicraft	दस्तकारी
handicraft board	दस्तकारी बोर्ड
handle <i>vb.</i>	(i) सम्हलना (ii) चढ़ाना-उतारना
handling	(i) सम्हालाई (ii) चढ़ाना-उतारना
handling charges	चढ़ाने-उतारने का महसूल, सम्हालाई प्रभार
proper handling	समुचित ढंग से सम्हालना
hand loom	हथकरघा
hand loom cloth	हथकरघे का कपड़ा
handloom industry	हथकरघा उद्योग
hand over <i>vb.</i>	सौंपना
handling over charge	कार्यभार सौंपना
handing over notes	कार्यभार सौंपने का नोट
hand-made	हाथ का बना हुआ
hand signal	हाथ का सिगनल
hand writing	लिखावट
handy <i>adj.</i>	काम का, सुविधाजनक
hang <i>vb.</i>	लटकाना, फाँसी देना
hangar	हैंगर
hanging <i>n.</i>	फाँसी
hangman	जल्लाद
haphazard	संयोग, इत्तिकाक
haphazard guess	अटकल
happen <i>vb.</i>	होना, घटित होना, संयोगवश होना
happening	घटना
happiness	प्रसन्नता, खुशी
harass <i>vb.</i>	तंग करना, परेशान करना, उत्पीड़न करना
harassment	उत्पीड़न
harbour <i>n.</i>	बन्दरगाह
<i>vb.</i>	(i) आश्रय देना, (ii) धारण करना
to harbour offenders	अपराधियों को आश्रय देना
hard <i>adj.</i>	कठिन, कठोर, कर्कश, भारी
hard and fast rule	निश्चित नियम
hard cash	नकदी
hard currency	दुर्लभ मुद्रा
hard labour	कठिन परिश्रम
hard water	भारी पानी

harden <i>vb.</i>	कठोर बनाना, सख्त करना
hardened	पक्का, अभ्यस्त
hardened criminal	अभ्यस्त अपराधी, पक्का अपराधी
hardihood	ढिठाई
hardly	मुश्किल से, कठिनाई से
hardness	कठोरता
hardship	आर्थिक संकट
harm <i>n.</i>	हानि, नुकसान, अनिष्ट
<i>vb.</i>	हानि पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना, अनिष्ट करना
harmonious	सामंजस्यपूर्ण, मधुर, समस्वर
harmonious working	सामंजस्यपूर्ण कार्य-संचालन
harmonize <i>vb.</i>	सामंजस्य होना, समस्वर होना या करना
harmony <i>n.</i>	सामंजस्य, ताल-मेल, समस्वरता
harsh	हल्का, कर्कश
harsh treatment	हल्का व्यवहार
hate <i>vb.</i>	घृणा करना, नफ़रत करना
hatred	घृणा, नफ़रत
haughty	दुविनीत
hawker	फेरी वाला
hawking	फेरी लगाकर बेचना
hawking-unauthorized	अनधिकृत फेरी
haulage	कर्पण
haulage charge	कर्पण प्रभार
hazard <i>n.</i>	खतरा, संकट, जोखिम
<i>vb.</i>	खतरे में डालना, जोखिम में पड़ना
hazardous	खतरनाक, संकटमय, जोखिमी
head	अध्यक्ष, प्रधान, मुखिया, शीर्षक
head assistant	प्रधान सहायक
head clerk	प्रधान क्लर्क
headman	मुखिया
head office	प्रधान कार्यालय
head quarters	सदर मुकाम
headquarters allowance	सदर मुकाम भत्ता
headquarters office	प्रधान कार्यालय
headquarters station	सदर मुकाम स्टेशन
head of account	लेखा शीर्षक

head of department	विभागाध्यक्ष
head of expenditure	व्यय शीर्षक
head of office	कार्यालय अध्यक्ष
sub-head	(i) उपशीर्षक (ii) उपप्रधान
heading n.	शीर्षक
health	स्वास्थ्य
health bulletin	स्वास्थ्य समाचार
health certificate	स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र
health department	स्वास्थ्य विभाग
health officer	हेल्थ अफसर, स्वास्थ्य अफसर
health visitor	स्वास्थ्य निरीक्षक
healthy	स्वस्थ, तन्दुरुस्त
hearing	सुनवाई
hearing of a case	मुकदमे की सुनवाई
hearing of objections	आपत्तियों की सुनवाई, एतराजों की सुनवाई
hearsay	सुना-सुनाया
hearsay evidence	सुनी-सुनायी शहादत
heart disease	हृदय रोग
heart failure	हृदयगति का रुक जाना
heartening	हौसला बढ़ाने वाला, उत्साहवर्धक
heartily	उल्लास के साथ
heartly	उल्लासपूर्ण
heartly welcome	उल्लासपूर्ण स्वागत
heater	तापक, हीटर
heat stroke	लू लगना, तापाघात
heavy	भारी, वजनी
heavy luggage	भारी सामान, वजनी सामान
heavy responsibility	भारी उत्तरदायित्व
heavily indebted	कर्ज से दबा हुआ
hegemony	नेतृत्व
height gauge	ऊँचाई मापक
heinous	जघन्य
heinous crime	जघन्य अपराध
heir	उत्तराधिकारी, वारिस
heir-apparent	प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी
heir-presumptive	संभाव्य उत्तराधिकारी
hence	अब से, इसलिए

henceforth	अब से, आगे से
herald <i>n.</i>	अग्रदूत, सन्देशवाहक
<i>vb.</i>	आगमन का सन्देश लाना
hereditary	पैतृक, दायगत, मौरूसी
hereditary claim	पैतृक दावा, मौरूसी दावा
hereditary right	पैतृक अधिकार
heredity	दाय वंश-परम्परा
heresy	नास्तिकता
heretic	नास्तिक
heritable	दाययोग्य, वंश-परम्परागत,
heritage	दाय, उत्तराधिकार, विरासत, वंश-परम्परा
ancient heritage	प्राचीन विरासत
heritor	उत्तराधिकारी, दायभागी
hesitant	संशयशील, संकोची
hesitance	संशय, संकोच, दुविधा, असमंजस
hesitate <i>vb.</i>	संशय करना, दुविधा, में असमंजस में पड़ना
hesitation	संशय, संकोच, दुविधा, असमंजस
heterodoxy	विद्यमिता
heterogeneous	विजातीय
heterogeniety	विजातीयता
hierarchy	पद-सोपान, दर्जावन्दी
higgling	मोल-तोल, भाव-ताव करना
high	ऊँचा, उच्च, श्रेष्ठ, महान, प्रबल, तेज
high commissioner	उच्च आयुक्त
high cost of living	रहन-सहन का ऊँचा खर्च
high court	हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय
high-handed	उदण्ड
high-handedness	उदण्डता
high priority	उच्च प्रथमता
high school	हाई स्कूल
high school examination	हाई स्कूल परीक्षा
high temperature	उच्च ताप, तेज बुखार
high way	राजपथ
high way robbery	राहजनी
national highway	राष्ट्रीय राजपथ
higher	ऊँचा, उच्चतर
higher class	उच्चतर दर्जा

higher education	उच्च शिक्षा
higher secondary school	हायर सेकण्डरी स्कूल
highest	सब से ऊँचा, उच्चतम
highly	बहुत अधिक, अत्यधिक
hill allowance	पहाड़ भत्ता
hill station	पहाड़ी स्थान
hinder <i>vb.</i>	रोकना
hindrance	रुकावट
hint <i>n.</i>	संकेत, इशारा
<i>vb.</i>	संकेत करना, इशारा करना
hire <i>n.</i>	भाड़ा
<i>vb.</i>	भाड़े पर लेना, भाड़े पर देना
hire purchase	किश्तों में खरीदना
hired	भाड़े का
hired transport	भाड़े का परिवहन
historic	ऐतिहासिक
historical	ऐतिहासिक
historical association	इतिहास परिपद्
historical evidence	ऐतिहासिक प्रमाण
historical monuments	ऐतिहासिक स्मारक
historical records	ऐतिहासिक अभिलेख
historical research	ऐतिहासिक अनुसन्धान
historian	इतिहासकार
history	इतिहास, पूर्ववृत्त, वृत्तान्त
history sheet	पूर्वापराध
history sheeter	पूर्वापराधी
history ticket	पूर्ववृत्त टिकट
hoard <i>vb.</i>	अपसंचय करना
hoarding	अपसंचय
hoarding and profiteering	अपसंचय और मुनाफ़ाखोरी
hoax <i>n.</i>	झाँसा
<i>vb.</i>	झाँसा देना
hold <i>vb.</i>	पकड़ना, रखना, धारण करना
hold office	पद ग्रहण करना
hold in abeyance	मुलतवी रखना
hold in check	रोक रखना
hold good	लानू होना

holding <i>n.</i>	खाता, जोत
holding-uneconomic	अलाभकर जोत
consolidation of holdings	जोत की चकवन्दी
homage	श्रद्धांजलि
home	घर, गृह
home department	गृह विभाग
home guards	होमगार्ड, गृहरक्षी
home industry	घरेलू उद्योग, गृह उद्योग
home made	घर में बना हुआ
home signal (Rly.)	निकट सिगनल
home trade	देशी व्यापार
homeless	बेघर
homicide	मानव हत्या, मानववध
homicide-culpable	अभियोक्त्य मानवहत्या, दण्डनीय मानव- हत्या
homicide-justifiable	न्यायसंगत मानवहत्या
homogenius	सजातीय
homogeneity	सजातीयता
honest	सच्चा, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, खरा
honest criticism	खरी आलोचना
honest intention	सदभिप्राय
honest opinion	सच्ची राय
honesty	सच्चाई, ईमान, सत्यनिष्ठा
honesty of purpose	उद्देश्य के प्रति सत्यनिष्ठा
honorarium	मानदेय
honorary	अवैतनिक
honorary magistrate	अवैतनिक मजिस्ट्रेट
honorary post	अवैतनिक पद
honour <i>n.</i>	आदर
<i>vb.</i>	आदर करना, सम्मान करना
honour a pledge	वचन निभाना
honourable	(i) आदरणीय (ii) सम्मानपूर्ण
hope <i>n.</i>	आशा, उम्मीद
<i>vb.</i>	आशा करना, उम्मीद करना
hopeful	आशापूर्ण
hopeless	निराश
hopelessness	निराशा

horticulture	वागवानी, उद्यानकी
hospital	अस्पताल
hospital dues	अस्पताल की देनगी
hospital leave	अस्पताली छुट्टी
hospital staff	अस्पताल के कर्मचारी
hospital-mobile	चलता-फिरता अस्पताल
hospitable	सत्कारशील
hospitality	सत्कार, खातिरदारी
hostel	हास्टल
hostile	वैरपूर्ण, शत्रुतापूर्ण
hostilities	लड़ाई, युद्ध
hostility	वैर, शत्रुता
hours of business	काम का समय
hours of employment	काम के घंटे
house	मकान, सदन
house accommodation	रहने की जगह
house breaking	नकवज़नी
house rent	मकान भाड़ा
house rent allowance	मकान भाड़ा भत्ता
house search	मकान की तलाशी
house tax	मकान कर
human	मानवीय
human failure	मानवीय विफलता
human treatment	मानवीय व्यवहार
human welfare	मानव कल्याण
humane	मानवोचित, सदय
humanitarian	मानवोचित, लोकोपकारी
humanity	मानवता
humble <i>adj.</i>	दीन-हीन विनम्र, निरभिमान
humble <i>vb.</i>	नीचा दिखाना, विनम्र करना
humidity	नमी
humiliate <i>vb.</i>	अपमान करना
humiliation	अपमान
humility	विनम्रता
hunger	भूख
hunger strike	भूख हड़ताल
hurt <i>n.</i>	चोट



<i>vb.</i>	चोट पहुँचाना
hurt-grievous	गहरी चोट
hurt-simple	मामूली चोट
husbandry	किसानी
animal husbandry	पशुपालन
animal husbandary department	पशुपालन विभाग
hutment	अस्थायी मकान
hydraulic engineering	हाइड्रालिक इंजीनियरिंग
hydro-electric	पनविजली
hydro-electric scheme	पनविजली योजना
hygiene	स्वास्थ्य विज्ञान
hygienic	स्वास्थ्यकर
unhygienic	अस्वास्थ्यकर
hypocrisy	पाखण्ड
hypocrite	पाखण्डी
hypothecation	बंधक
hypothecation of produce	उपज का बंधक
hypothecate, <i>vb.</i>	बंधक रखना
hypothecated	बंधक रखा हुआ
hypothesis	प्रकल्पना
hypothetical	प्रकल्पित, प्रकल्पनात्मक

## T

idea	विचार, आशय
ideal	आदर्श
ideal state	आदर्श राज्य
idealism	आदर्शवाद
idealist	आदर्शवादी
idealistic	आदर्शवादी
identical	समान, समरूप
identifiable	पहचानने योग्य
identification	पहचान, अभिज्ञान
identification mark	पहचान चिह्न
identification parade	पहचान परेड
identification of stolen articles	चुराये गये सामान की पहचान
identify <i>vb.</i>	(i) पहचानना, (ii) सदृश मानना, (iii) अभिन्न अंग समझना
identity	(i) पहचान, (ii) समता, (iii) अभिन्नता
identity card	पहचान-पत्र
identity certificate	पहचान प्रमाण-पत्र
ideological	विचार-सम्बन्धी, वैचारिक
ideology <i>n.</i>	विचार-धारा
idiom	मुहावरा
idiomatic	मुहावरेदार
idiosyncrasy	झक
idle	वेकार, निष्क्रिय
idle capacity	वेकार क्षमता
idleness	निष्क्रियता
ignoble	निकृष्ट
ignominious	अपकीर्तिकर
ignominy <i>n.</i>	अपकीर्ति, अपयश
ignorance	अज्ञान, अनभिज्ञता, अवोधता
ignorant	अनभिज्ञ, अवोध
ignore <i>vb.</i>	उपेक्षा करना

ignored	उपेक्षित
ill-advised	कुर्मन्त्रित
ill-fame	वदनामी
ill-will	द्वेष
illegal	गैरकानूनी, अवैध
illegal action	गैरकानूनी काम, अवैध कार्य
illegal entry	गैरकानूनी प्रवेश, अवैध प्रवेश
illegal possession	गैरकानूनी कब्जा, अवैध अधिकार
illegal practice	अवैध आचरण
illegally	गैरकानूनी तौर पर, अवैध रूप से
illegality	अवैधता
illegible	जो पढ़ा न जा सके, अवाच्य
illegibility	अवाच्यता
illegitimate	अवैध, जारज
illegitimacy	अवैधता, जारजता
illicit	अनुचित
illiteracy	निरक्षरता
illiterate	निरक्षर
illustrate <i>vb.</i>	उदाहरण देकर समझाना, निदर्शन करना
illustration	निदर्शन, दृष्टान्त
illustrative	निदर्शी
illustrious	नामी, सुविख्यात
imaginary	काल्पनिक
imagination	कल्पना
imaginative	कल्पनाशील
imagine <i>vb.</i>	कल्पना करना, सोचना
imbalance	असंतुलन
imitate <i>vb.</i>	नकल करना, अनुकरण करना
imitation	नकल, अनुकरण
immaterial	सारहीन, महत्वहीन
immature	कच्चा, अपरिपक्व
immaturity	कच्चापन, अपरिपक्वता
immediacy	तात्कालिकता, सन्निकटता
immediate	तुरत, तात्कालिक, सन्निकट
immediate needs	तात्कालिक आवश्यकताएँ
immediate objective	तात्कालिक लक्ष्य
immediate officer	सन्निकट अफसर

immediate reference	तात्कालिक निर्देश
immediate slip	तुरत पर्ची
immediately	तुरन्त, फौरन, तत्काल
with immediate effect	अभी से, तत्काल
immense	असीम, विशाल
immensity	विशालता
immigrant	आप्रवासी
immigrate <i>vb.</i>	दूसरे देश में जाकर बसना, <sup>f</sup> आप्रवारु करना
immigration	आप्रवास
imminence	सन्निकटता
imminent <i>adj.</i>	सन्निकट
imminent danger	सन्निकट खतरा
immobile	अचल, स्थिर
immoderate <i>adj.</i>	असामान्य, असंयत
immoral <i>adj.</i>	अनैतिक
immovable	स्थावर
immovable property	स्थावर सम्पत्ति
immune	मुक्त
immunity	मुक्ति
immunity from fear	भय से मुक्ति
immunity from hunger	भूख से मुक्ति
immunity from war	युद्ध से मुक्ति
impact	आघात
impact of taxation	कराघात
impair <i>vb.</i>	क्षीण बनाना, निर्दल करना
impartial	निष्पक्ष
impartiality	निष्पक्षता
impartible	अविभाज्य
impasse	गतिरोध
impatient	उतावला, व्यग्र, वैचैन
impeach <i>vb.</i>	महाभियोग लगाना
impeachment	महाभियोग
impede <i>vb.</i>	अड़चन डालना, विघ्न डालना
impediment	अड़चन, विघ्न
imperfect	अपूर्ण

imperial	साम्राज्य-सम्बन्धी
imperialism	साम्राज्यवाद
imperialist	साम्राज्यवादी
in peril <i>vb.</i>	खतरे में डालना, संकट में डालना
imperious <i>adj.</i>	सरजोर, घमण्डी
impersonal	अवैयक्तिक, अव्यक्तिवाचक
impertinence	घृष्टता, वेअदबी
impertinent	घृष्ट, वेअदब
impervious	अभेद्य, अगम्य
impetus	प्रेरणा, प्रोत्साहन
implement <i>n.</i>	उपकरण, औजार
<i>vb.</i>	परिपालन करना
implement an agreement	करार का परिपालन करना
implement a promise	वचन पूरा करना
tools and implements	उपकरण और साधन
implementation <i>n.</i>	परिपालन
implicate <i>vb.</i>	(i) फाँसना, (ii) लपेटना
implication	फलितार्थ
by implication	व्यंजना से
implicit	(i) अव्यक्त (ii) निर्विवाद.
(explicit)	व्यक्त
implied meaning	ध्वनित अर्थ
imply <i>vb.</i>	ध्वनित करना
impolite <i>adj.</i>	अविनीत
import <i>n.</i>	(i) आयात (ii) आशय, अभिप्राय
<i>vb.</i>	आयात करना
imported goods	विदेशी माल
importance	महत्व
important	महत्वपूर्ण
on important occasions	महत्वपूर्ण अवसरों पर
impose <i>vb.</i>	लगाना, आरोपित करना
impose fine	जुर्माना करना
impose restrictions	पाबन्दी लगाना
impose tax	कर लगाना
imposition	आरोपण
impossibility	असंभावना, असंभव बात
impossible	असंभव, शैरमुमकिन

imposter	बंचक
impress vb.	अंकित करना, प्रभावित करना
impression	अंकन, संस्करण, धारणा
first impression of a book	पुस्तक का पहला संस्करण
first impression of an individual	किसी व्यक्ति के विषय में पहली धारणा
impressive	प्रभावोत्पादक
imprest	अग्रदाय
imprest account	अग्रदाय लेखा
imprison vb.	कैदी बनाना, कारावास देना
imprisonment	कारावास
rigorous imprisonment	कठोर कारावास
simple imprisonment	साधारण कारावास
imprisonment of either count	दोनों प्रकार का कारावास
improbable	असंभाव्य
improbability	असंभाव्यता
improper	अनुचित
improperly	अनुचित रूप से
improvement	सुधार
improvement trust	सुधार न्यास
improvised	कामचलाऊ
impulse	आवेग, मनोवेग
impulsive	आवेगी, आवेगपूर्ण
impure	अशुद्ध
impurity	अशुद्धता
imputability	अध्यारोप्यता
imputation	अध्यारोप
impute vb.	अध्यारोप लगाना, अध्यारोपित करना
inaccessible	अगम्य, दुर्लभ
in that behalf	उस विषय में, उस सम्बन्ध में
in the capacity of	के रूप में, की हैसियत से
in the case of	की स्थिति में
in the circumstances	इन परिस्थितियों में
in the course of	के दौरान
in the event of	की अवस्था में
in fact	वास्तव में, दरअसल
in the first instance	पहले, प्रथमतः

in the first place  
 in the interest of  
 in lieu of  
 in the light of  
 in the meantime }  
 in the meanwhile }  
 in public interest  
 in pursuance of  
 in the shape of  
 inaccuracy  
 inaccurate  
 inactive  
 inactivity  
 inadequate  
 inadequacy  
 inadmissible  
 inadvertence  
 inadvertent  
 inadvertently  
 inalienable  
 inapplicable  
 inappropriate  
 inasmuch  
 inattention  
 inattentive  
 inaugural  
 inaugural address  
  
 inauguration  
 inborn  
 incapability  
 incapable  
 incapacitate vb.  
 incapacity  
 incendiary  
 incendiary bomb  
 incentive

सबसे पहले, सर्वप्रथम  
 के हित में  
 के बदले  
 को ध्यान में रखकर  
  
 इस बीच में  
  
 जनहित में, सार्वजनिक हित में  
 का अनुसरण करते हुए  
 के रूप में  
 गलती, अशुद्धि  
 गलत, अशुद्ध  
 निष्क्रिय, बेकार, अकर्मण्य  
 निष्क्रियता  
 अपर्याप्त  
 अपर्याप्तता  
 अग्राह्य  
 लापरवाही असावधानी  
 लापरवाह, असावधान, असावधानतापूर्ण  
 असावधानी से, लापरवाही से  
 असंक्राम्य, जो छीना न जा सके  
 अप्रयोज्य  
 अनुपयुक्त  
 जहाँ तक  
 उपेक्षा  
 उपेक्षापूर्ण  
 उद्घाटन-सम्बन्धी  
 उद्घाटन भाषण  
 उद्घाटन करना  
 उद्घाटन  
 सहज, जन्मजात  
 असमर्थता, अयोग्यता  
 असमर्थ, अयोग्य  
 असमर्थ बनाना, अक्षम करना  
 अयोग्यता, अक्षमता, असामर्थ्य  
 दाहक, आग लगाने वाला  
 दाहक बम  
 प्रोत्साहन

incentive scheme	प्रोत्साहन योजना
inception	आरंभ
from the very inception	आरंभ से ही
incharge	इंचार्ज, कार्यभारी
incidence	आघात
incidence of taxation	कराघात
incident <i>n.</i>	घटना
incidental	प्रासंगिक
incidental charges	प्रासंगिक प्रभार
incidental or consequential orders	प्रासंगिक या परिणामी आदेश
incidental works	प्रासंगिक कार्य
incidentally	प्रसंगवश
incite <i>vb.</i>	भड़काना
incitement	भड़काना
incivility	अशिष्टता
inclement weather	तूफानी मौसम
inclination	झुकाव, अभिनति
incline <i>vb.</i>	झुकना, अभिनत होना
inclined	अभिनत
include <i>vb.</i>	शामिल करना, मिलाना, समावेश करना
included	शामिल किया हुआ, समाविष्ट
inclusion	शामिल करना, समावेश
inclusive	सहित, समेत
incognito	अज्ञात, गुप्त रूप में
income	आमदनी, आय
per capita income	प्रतिव्यक्ति आय
income tax	आयकर
income tax assessment	आयकर निर्धारण
income tax bureau	आयकर ब्यूरो
income tax officer	आयकर अफसर
incompatible	असंगत
incompetence	अक्षमता
incompetency	अक्षमता
incompetent	अक्षम
incomplete <i>adj.</i>	अवूरा, अपूर्ण
inconceivable	अचिन्त्य



inconclusive <i>adj.</i>	अनिर्णायक, अनिर्णीत
inconsequence	अप्रसंगिकता
inconsiderate	अविवेकी, अविवेकपूर्ण, भावनाशून्य
inconsistency	असंगति
inconsistent	असंगत
inconvenience	असुविधा
inconvenient	असुविधाजनक
inconvertible	अपरिवर्तनीय, अविनिमेय
incorporate <i>adj.</i>	समाविष्ट, निगमित
<i>vb.</i>	शामिल करना, मिलाना, समावेश करना निगमित करना
incorporated	समाविष्ट, निगमित
incorporation	समावेश, निगमन
incorrect <i>adj.</i>	शलत्, अशुद्ध
incorrigible <i>adj.</i>	अशोध्य
incorruptible <i>adj.</i>	खरा, पवित्र
increase <i>n.</i>	वढ़ोतरी, वृद्धि
<i>vb.</i>	वढ़ना, वृद्धि करना, बढ़ाना
increased cost of production	उत्पादन की बढ़ी हुई लागत
incredible	अविश्वसनीय
increment	वृद्धि
annual increment	वार्षिक वृद्धि
incriminate <i>vb.</i>	दोषारोपण करना, अभिशंसा करना
incriminating	(i) दोषारोपण, अभिशंसा (ii) अभि- शंसक
incumbent <i>n.</i>	पदधारी
<i>adj.</i>	अनिवार्य
incurable	असाध्य
indebted	आभारी, ऋणी, कर्जदार
indebtedness	आभार, ऋणग्रस्तता
indecenty	अभद्रता
act of indecenty	अभद्र आचार
indecent	अभद्र
indecision	अनिर्णय
indecisive	अनिर्णीत
indefinite	अनिश्चित
indefinitely	अनिश्चित रूप से

Indian audit and accounts service	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा
Indian administrative service	भारतीय प्रशासन सेवा
Indian engineering service	भारतीय इंजीनियरिंग सेवा
Indian foreign service	भारतीय विदेश सेवा
Indian forest service	भारतीय वन सेवा
Indian police service	भारतीय पुलिस सेवा
indemnification	क्षतिपूरण
indemnify <i>vb.</i>	क्षतिपूर्ति करना
indemnity	क्षतिपूर्ति
indemnity bond	क्षतिपूर्ति बन्ध
indent <i>n.</i>	अधियाचना
<i>vb.</i>	अधियाचना करना
indenture	अनुबन्ध
indentured labour	अनुबद्ध मजदूर
indentured emigration	अनुबद्ध उत्प्रवास
independence	स्वाधीनता, स्वतंत्रता, आजादी
independence day	स्वतंत्रता दिवस
independent	स्वतंत्र, स्वाधीन, आजाद
independent candidate	स्वतंत्र उम्मीदवार
independent judgment	स्वनिर्णय
independently	स्वतंत्र रूप से
indeterminable <i>adj.</i>	अनिश्चेय, अनिर्धार्य
indeterminate	अनिश्चित
index	सूचक
index letter.	सूचक अक्षर
index number	सूचक अंक
index to correction slips	शुद्धि पत्रियों का सूचक
Indian standard time	भारतीय मानक समय
indicate <i>vb.</i>	बताना, संकेत करना
indicative	सूचक, संकेतक
indicating & ground signal (Rly)	सूचक और भूमि सिग्नल
indication	संकेत
indication board	संकेत पट्ट
indication lock	संकेतक ताला
indicative	सूचक, परिचायक

indicator	सूचक, संकेतक
indict <i>vb.</i>	दोष 'लगाना
indictment	दोषारोपण
indifference	उदासीनता
indifferent	उदासीन
indigenous	देशी
indigenous demand	देशी माँग
indigent	कंगाल
indigent passenger (Rly.)	कंगाल यात्री
indirect	अप्रत्यक्ष, परोक्ष
indirect election	परोक्ष चुनाव
indirect tax	परोक्ष कर
indirectly	परोक्ष रूप से
indiscipline	अनुशासनहीनता
indisputable	निर्विवाद
indistinct	अस्पष्ट
individual	व्यक्ति, व्यक्तिगत
individual judgment	व्यक्तिगत राय
individuality	व्यक्तित्व
individually	व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगः
indivisible	अविभाज्य
indomitable	अदम्य
indoor game	भीतरी खेल
indoor patient	भरती मरीज
induce <i>vb.</i>	फुसलाना, प्रलोभन देना
indulge <i>vb.</i>	आसक्ति, अनुग्रह, लाड़-प्यार
indulgence <i>n.</i>	आसक्त होना, अनुग्रह करना, लाड़-प्यार करना
indulgent	आसक्त, अनुग्राही
industrial	औद्योगिक
industrial area	औद्योगिक क्षेत्र
industrial delegation	औद्योगिक डिप्टमण्डल
industrial disputes	औद्योगिक झगड़े
industrial estate	औद्योगिक सम्पदा
industrial expansion	औद्योगिक विस्तार
industrial policy	औद्योगिक नीति
industrial progress	औद्योगिक प्रगति
industrial relations	औद्योगिक सम्बन्ध

industrial revolution	औद्योगिक क्रान्ति
industrial survey	औद्योगिक सर्वेक्षण
industrial training	औद्योगिक प्रशिक्षण
industrialism	उद्योगवाद
industrialization	औद्योगीकरण
industrialize <i>vb.</i>	औद्योगीकरण
industrious	मेहनती, परिश्रमी
industry <i>n.</i>	(i) कारोवार, उद्योग (ii) अध्यवसाय
inedible	न खाने योग्य, अखाद्य
inefficiency	अदक्षता
inefficient	अदक्ष
inelastic	अनम्य
inelastic demand	अनम्य माँग
ineligible	अपात्र
ineligibility	अपात्रता
inequality	असमानता
inequity	अन्याय, वेइंसाफ़ी
inert	जड़, गतिहीन
inertia	जड़ता, गतिहीनता
inescapable	अपरिहार्य
inevitability	अनिवार्यता
inevitable	अनिवार्य
inexperience	अनुभवहीनता, नातजुर्वा
inexperienced	अनुभवहीन, नातजुर्वेकार
infant	बच्चा, शिशु
infant mortality	शिशुमरण
infantry	पैदल सेना
infect <i>vb.</i>	दूषित करना, संक्रमण फैलाना
infected	दूषित, विपाक्त
infection	संक्रमण
infectious <i>adj.</i>	संक्रामक
infer <i>vb.</i>	नतीजा निकालना, परिणाम निकालना
inference	नतीजा, परिणाम
inferior	घटिया, अवर
inferior staff	अवर कर्मचारी
infirm	निर्बल, कमजोर
infirmary	अस्पताल

infirmity	निर्वलता, अवलता, कमजोरी
inflammable	आग पकड़ने वाला
inflamm <i>vb.</i>	आग पकड़ना, उत्तेजित करना
inflammatory	भड़काने वाला, उत्तेजक
inflate <i>vb.</i>	मुद्रा प्रसार करना, फुलाना
inflation <i>n.</i>	मुद्रा प्रसार, मुद्रास्फीति
inflationary	स्फीतिकारी
inflationary tendency	स्फीतिकारी प्रवृत्ति
inflict <i>vb.</i>	चोट पहुँचाना, दण्ड देना
infliction	चोट, दण्ड, यातना
influence <i>n.</i>	असर, प्रभाव
<i>vb.</i>	असर डालना, प्रभाव डालना
influenced	प्रभावित
influential	प्रभावी, वाबसर
influx <i>n.</i>	प्रवाह, घसारा (गुजराती)
inform <i>vb.</i>	वताना, सूचित करना
informal	अनौपचारिक, शैररस्मी
informally	अनौपचारिक रूप से, शैररस्मी तौर पर
information	जानकारी, सूचना
information bureau	सूचना व्यूरो
information centre	सूचना केन्द्र
informative <i>adj.</i>	ज्ञानवर्धक
informer	भेदिया
infringe <i>vb.</i>	(नियम) तोड़ना, उल्लंघन करना
infringement	उल्लंघन
infructuous	विफल, निष्फल
infuse <i>vb.</i>	प्रेरणा देना, अनुप्राणित करना
infusion	प्रेरणा, अनुप्राणन
ingenuity	पटुता
ingenious	चतुर, पटु, मेधावी
ingenious device	चतुर युक्ति
ingredient	अंग, अवयव
ingress	प्रवेश
inhabit <i>vb.</i>	वसना, निवास करना
inhabitant	वासिन्दा, निवासी
inherent	सहज, प्राकृत, जन्मजात, स्वभावगत
inherently	स्वभावतः, प्राकृत रूप से

inherit <i>vb.</i>	उत्तराधिकार में पाना, दाय पाना
inheritable	दाय योग्य
inheritance	दायभाग, उत्तराधिकार
inhibit <i>vb.</i>	निरोध करना
inhibition <i>n.</i>	निरोधन, निरोध
inimical	वैरपूर्ण, शत्रुतापूर्ण
iniquitous	अन्यायपूर्ण, अनुचित
inquiry	अन्याय, गैरइंसाफ
initial <i>adj.</i>	प्रारंभिक
<i>vb.</i>	नाम के प्रथमाक्षर लिखना
initial coaching book	प्रारंभिक कोचिंग पंजी
initial returns	प्रारंभिक विवरण
initials	(नाम के) प्रथमाक्षर
initially	शुरू में, आरंभ में
initiate <i>vb.</i>	पहल करना, सूत्रपात करना
initiation	पहल, सूत्रपात
initiative <i>n.</i>	पहल, सूत्रपात
inject <i>vb.</i>	सुई लगाना, इंजेक्शन देना
injection	सुई, इंजेक्शन
injunction	निषेधाज्ञा
injunction by civil court	दीवानी अदालत द्वारा निषेधाज्ञा
injure <i>vb.</i>	चोट पहुँचाना, चोट लगाना, घायल होना
injure feelings	भावनाओं को चोट पहुँचाना
injure reputation	प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाना
injurious	हानिकर
injury	चोट
injustice	अन्याय
inland	देशी
inland letter	देशी पत्र
inland telegram	देशी तार
innocence	(i) निर्दोषता, निरपराधता (ii) भोलापन
innocent	(i) निर्दोष, निरपराध (ii) भोला
inoculate <i>vb.</i>	टीका लगाना
inoculation	टीका
inoperative	अप्रवृत्त

inordinate	वेहद, अपरमित
inquest	मरण-जाँच
inquest report	मरण-जाँच रिपोर्ट
inquire <i>vb.</i>	जाँच करना
inquire into a complaint	शिकायत की जाँच करना
inquiry	(i) जाँच, (ii) पूछताछ
inquiry committee	जाँच समिति
inquiry office	पूछताछ कार्यालय
inquisition	जिज्ञासा
inquisitive <i>adj.</i>	जिज्ञासु
insane	विक्षिप्त
insanity	विक्षिप्तता
insanitary	अस्वास्थ्यकर
insecure	असुरक्षित
insecurity	असुरक्षा
insecurity of life and property	जान और माल की असुरक्षा
insecticide	कीड़े मारने की दवा, कीटनाशक दवा
insignificant	नगण्य
insist <i>vb.</i>	आग्रह करना
insistence	आग्रह, अनुरोध
insistent	आग्रही, आग्रहपूर्ण, अनुरोधपूर्ण
insolence	अविनय, गुस्ताखी
insolent <i>adj.</i>	अविनीत, गुस्ताख
insolvency	दिवाला
insolvent	दिवालिया
inspect <i>vb.</i>	निरीक्षण करना
inspection	निरीक्षण
inspection book	निरीक्षण पंजी
inspection note	निरीक्षण नोट
inspection report	निरीक्षण रिपोर्ट
inspector	निरीक्षक
inspector general	महानिरीक्षक
inspector general of police	पुलिस महानिरीक्षक
inspector general of prisons	कारागार महानिरीक्षक
inspector of schools	विद्यालय निरीक्षक
inspector of way & works	रेल पथ और निर्माण निरीक्षक

inspectorate	निरीक्षालय
install <i>vb.</i>	प्रस्थापित करना
installation	प्रस्थापन
installed capacity	प्रस्थापित क्षमता
instalment	किश्त
instance	उदाहरण, दृष्टान्त
at the instance of	के कहने पर, की प्रार्थना पर
instant	तात्कालिक, वर्तमान
instant month	वर्तमान महीना
instantaneous	तात्कालिक
instantaneously	तत्काल, उसी समय
inter	अन्तर्
inter-railway payment	अन्तर् रेलवे भुगतान
instigate <i>vb.</i>	उभाड़ना,
instigation	उभाड़ना
instigator	उभाड़ने वाला
instinct	सहज ज्ञान
instinctive <i>adj.</i>	सहज, नैसर्गिक
instinctively	सहज भाव से, नैसर्गिक रूप से
institute <i>n.</i>	संस्थान
<i>vb.</i>	प्रतिष्ठापित करना
institute an inquiry	जाँच कराना
institutional	संस्थागत
instruct <i>vb.</i>	हिदायत देना, अनुदेशदेना
instruction	हिदायत, अनुदेश, शिक्षा
instructive <i>adj.</i>	शिक्षाप्रद
instructor	अनुदेशक
instrument	(i) उपकरण, (ii) विलेख
instrument of instructions	निर्देश विलेख
instrumental <i>adj.</i>	सहायक
insubordination	अवज्ञा
guilty of insubordination	अवज्ञा का दोषी
insult <i>n.</i>	अपमान, तौहीन (उद्दू)
<i>vb.</i>	अपमान करना, तौहीन करना
insulting	अपमानजनक
insurance	बीमा
accident insurance	दुर्घटना बीमा



fire insurance	आग वीमा
health insurance	स्वास्थ्य वीमा
unemployment insurance	वेरोजगारी का वीमा
workmen's compensation insurance	कामगार क्षतिपूरक वीमा
insurant	जिसका वीमा किया जाय
insurer	वीमाकर्ता
insure <i>vb.</i>	वीमा करना, वीमा कराना
insured	वीमाकृत
insured letter	वीमाकृत पत्र
insured parcel	वीमाकृत पार्सल
insurgent	वासी, अभिद्रोही
integral	समग्र, समूचा
integrate <i>vb.</i>	समाकलन करना, एकीकरण करना
integration	(i) एकीकरण (ii) समाकलन
integrity	(i) अखण्डता (ii) ईमानदारी, सत्यनिष्ठा
integrity certificate	सत्यनिष्ठा का प्रमाणपत्र
intelligence	(i) वृद्धि, प्रज्ञा, समझ (ii) गुप्तवार्ता
intelligence bureau	गुप्तवार्ता व्यूरो
intelligence test	वृद्धि परीक्षा
intelligent	वृद्धिमान, समझदार
intelligible	सुबोध, सुगम
intend <i>vb.</i>	इरादा रखना, अभिप्राय रखना
intended	अभिप्रेत
intense	तीव्र, गंभीर, प्रबल
intensive	सघन, तीव्र
intensive cultivation	मघन खेती
intent <i>n.</i>	आशय
intention	अभिप्राय
intentional <i>adj.</i>	साभिप्राय
intentionally <i>adv.</i>	जानबूझकर
inter alia	अन्य बातों के साथ
intercept <i>vb.</i>	अन्तावरोध करना
interchange <i>vb.</i>	बदल-बदल करना
intercourse	मेल-जोल, समागम


interdependence	एक दूसरे पर निर्भर होना
interdependent	एक दूसरे पर निर्भर
interest <i>n.</i>	(i) हित, (ii) व्याज, सूद (iii) अभिरुचि, दिलचस्पी
<i>vb.</i>	दिलचस्पी या अभिरुचि पैदा करना
self-interest	स्वार्थ
in public interest	सार्वजनिक हित में, जनहित में
interfere <i>vb.</i>	दखल देना, हस्तक्षेप करना
interference	दखल, हस्तक्षेप
interfering <i>adj.</i>	दखल देनेवाला, हस्तक्षेप करने वाला
interim	अन्तरिम
interim compensation	अन्तरिम क्षतिपूर्ति, अन्तरिम मुआवजा
interior	भीतरी भाग
in terms of	के अनुसार
interlock <i>vb.</i>	अन्तर्पाश करना
interlocked	अन्तर्पाशित
interlocked sections (Rly.)	अन्तर्पाशित अनुभाग
interlocking	अन्तर्पाशिन
intermediary	मध्यस्थ, मध्यवर्ती
intermediate	बीच का, मध्यवर्ती
intermittent	सान्तराल
intern <i>vb.</i>	नज़रबन्द करना, कैद करना
internal <i>adj.</i>	आन्तरिक, भीतरी, अन्दरूनी
internal check	आन्तरिक जाँच
internal economy	आन्तरिक अर्थव्यवस्था
internal management	आन्तरिक प्रबन्ध
internal policy	घरेलू नीति
internal security	आन्तरिक सुरक्षा
interned	नज़रबन्द
internee	नज़रबन्द कैदी
international	अन्तर्राष्ट्रीय
international co-operation	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
international security	अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा
international tension	अन्तर्राष्ट्रीय तनाव
internecine <i>adj.</i>	विनाशकारी
interpellate <i>vb.</i>	प्रश्नारोध करना
interpellation	प्रश्नारोध

interpolate <i>vb.</i>	अनुक्षेप करना, अन्तर्वेश करना
interpolation	अनुक्षेप, क्षेपक, अन्तर्वेशन
interpret <i>vb.</i>	व्याख्या करना, भाषान्तर करना
interpretation	व्याख्या, भाषान्तर
interpreter	व्याख्याकार, दुभाषिया
inter-regional	अन्तर्-प्रादेशिक
inter-relate <i>vb.</i>	परस्पर सम्बद्ध होना
interrelation	परस्पर सम्बन्ध
interrelated	परस्पर सम्बद्ध
interstate	अन्तर् राज्यीय
interrupt <i>vb.</i>	व्यवधान करना, अवरुद्ध करना
interruption	व्यवधान, अवरोध
interval	अन्तर, अन्तराल
intervene <i>vb.</i>	विचवई करना, हस्तक्षेप करना
intervention	विचवई, हस्तक्षेप
intervening period	बीच की अवधि, मध्यवर्ती अवधि
interview <i>n.</i>	भेंट, मुलाकात, साक्षात्कार
<i>vb.</i>	भेंट करना, मुलाकात करना, साक्षात्कार करना
intestacy	इच्छापत्रहीनता
intestate	इच्छापत्रहीन
intimacy	घनिष्ठता
intimate <i>adj.</i>	घनिष्ठ, प्रगाढ़
<i>vb.</i>	सूचित करना
intimation	सूचना
intimidate <i>vb.</i>	अभित्रास देना, अभित्रस्त करना
intimidation	अभित्रास
criminal intimidation	आपराधिक अभित्रास
intoxicant	नशीली चीज़, मादक वस्तु
intoxicate <i>vb.</i>	नशा लाना, मदहोश करना
intoxicating	नशीला, मादक
intra	आन्तर
intricacy	उलझन, जटिलता
intricate <i>adj.</i>	उलझाना, जटिल बनाना
intrigue <i>n.</i>	पड्यंत्र, साजिश (उर्दू)
<i>vb.</i>	पड्यंत्र करना, साजिश करना

intriguing	पड्यंत्रकारी, भ्रान्तिमूलक
intrinsic	यथार्थ, वास्तविक
intrinsic value	यथार्थ मूल्य
introduce <i>vb.</i>	(i) परिचय कराना, आरंभ करना
introduction	(i) परिचय (ii) आरंभ, (iii) प्रस्ता- वना, भूमिका
introductory	आरंभिक, परिचयात्मक
introductory letter	परिचयात्मक पत्र
introductory speech	परिचयात्मक भाषण
intrude <i>vb.</i>	बिना बुलाये घुस आना, अतिक्रमण करना
intruder	अनधिकार प्रवेशी
intrusion	बिना बुलाये घुसना, अतिक्रमण
intrusive <i>adj.</i>	अनुचित हस्तक्षेप करनेवाला
invalid <i>n.</i>	अशक्त व्यक्ति
<i>adj.</i>	अमान्य
invalid election	अमान्य चुनाव, अमान्य निर्वाचन
invalidate <i>vb.</i>	अमान्य करना, अशक्त करना
invalidity	अशक्तता, अमान्यता
invalidity pension	अशक्तता पेंशन
invariable	अपरिवर्तनीय, स्थिर
invariably	हमेशा, नित्य
invasion	हमला, आक्रमण
invent <i>vb.</i>	ईजाद करना, आविष्कार करना
invest <i>vb.</i>	पूंजी लगाना, निवेश करना
investigate <i>vb.</i>	जाँच करना, अनुसंधान करना, अन्वेषण, तहकीकात करना
investigation	जाँच, अनुसंधान, तहकीकात, अन्वेषण
investigator	जाँच करने वाला, अन्वेषक
investment	पूंजी लगाना, निवेश
investor	पूंजी लगाने वाला, महाजन
investiture ceremony	अभिषेक समारोह
invidious	द्वेषजनक
invigilate <i>vb.</i>	परिचीक्षा करना
invigilation	परिचीक्षा
invigilator	परिचीक्षक
inviolable	अलंघ्य
inviolability of frontiers	सीमाओं की अलंघ्यता

invisible	जो दिखायी न पड़े, अदृश्य
invoice	इन्वायस, वीजक
invoice book	इन्वायस पंजी
invoice foil	इन्वायस पत्रा
invoice inward	आगत इन्वायस
outward invoice	निर्गामी इन्वायस
involve <i>vb.</i>	अन्तर्ग्रमित होना, अन्तर्ग्रसित करना
involved	अन्तर्ग्रसित, उलझा हुआ
inward	आगत, आने वाला
inwards way-bill	आगत रक्त्रा
inwards goods cash book	आगत माल की नकद पंजी
ipso facto	स्वतः, तथ्यतः
irrecoverable	असाध्य, अप्राप्य
irrecoverable arrears	अप्राप्य वकाया
irredeemable	अशोध्य, असुधार्य
irregular	अनियमित
irregularity	अनियमितता
irregularly	अनियमित रूप से
irrelevance	असंबद्धता
irrelevant	असंबद्ध
irreparable <i>adj.</i>	जो पूरा न किया जा सके, अपूर्य
irresistible	अप्रतिरोध्य, जिसके प्रभाव से बचा न जा सके
irrespective of	के बावजूद
irresponsible	अनुत्तरदायी, गैरजिम्मेदार
irrevocable <i>adj.</i>	अपरिवर्तनीय, जो बदला न जा सके
irrigation	सिंचाई
irrigation facilities	सिंचाई की सुविधाएँ
irrigation project	सिंचाई परियोजना
irritable	चिड़चिड़े मिजाज का, उत्तेजनाशील
irritate <i>vb.</i>	उत्तेजित करना, चिढ़ाना, क्षुब्ध करना
irritated	उत्तेजित, क्षुब्ध
irritation	उत्तेजना, क्षोभ
isolate <i>vb.</i>	अलग करना, पृथक करना
isolated	पृथक्कृत, विलग, इक्के-दुक्के, छिट-पुट
isolation	अलगाव, पृथकता

isolationist	पृथकतावादी
issue n.	(i) निर्गम, विकास (ii) सन्तान (iii) विचारणीय विषय
vb.	जारी करना
issue capital	निर्गम पूजा
issue section	निर्गम अनुभाग
issueless	निर्वंश, विन औलाद का
issuing authority	जारी करने वाला अधिकारी
item	मद, विषय
item on the agenda	कार्य-सूची वा विषय
item-wise	मदवार
itinerary	यात्रा का कार्यक्रम



## J

jail n.	जेल, कारावास
vb.	जेल का दण्ड देना, कारावास का दण्ड देना
jail depot	जेल डिपो
jail department	जेल विभाग
jail history	जेल वृत्त
jail history ticket	जेल वृत्त टिकट
jail industry	जेल उद्योग
jail manual	जेल नियमावली
jail staff	जेल कर्मचारी
jail warder	जेल वार्डर
jail superintendent	जेल अधीक्षक
jailor	जेलर
janitor	जैनितर
jarring adj.	कर्कश
jealous	(i) डाह करने वाला, द्वेषी, ईर्ष्यालु (ii) अपने अधिकारों के प्रति जागरूक
jealously	डाह से,
jealousy	(i) डाह, द्वेष, ईर्ष्या (ii) अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता
jeopardise vb.	खतरे में डालना, संकट में डालना
jeopardy	खतरा, संकट
jerk n.	झटका
vb.	झटका देना
job	नौकरी, काम, धन्धा, छोटा-मोटा काम
job analysis	कार्य विद्वलेपण
job instructions	काम-सम्बन्धी हिदायतें
job work	छोटा-मोटा काम
jobbery	स्वार्थाचार, स्वार्थ साधन
join vb.	(i) जोड़ना, मिलाना (ii) शामिल होना, भाग लेना (iii) कार्य ग्रहण करना

join duty	कार्यभार सम्हालना
join office	पदभार सम्हालना
join hands	हाथ बटाना, मिलकर काम करना, सहयोग देना
joinder (law)	मिलाव, संयोजन
joining date	काम पर आने की तारीख
joining report	कार्यग्रहण रिपोर्ट
joining time	कार्यग्रहण अवधि
joining time pay	कार्यग्रहण अवधि का वेतन
joint <i>n.</i>	जोड़, गाँठ
<i>adj</i>	साझे का, संयुक्त, अविभक्त, सह-
joint capital	संयुक्त पूंजी
joint consultation	संयुक्त परामर्श
joint director	सह निदेशक
joint family	संयुक्त परिवार
joint electorate	संयुक्त चुनाव-प्रणाली
joint liability	संयुक्त दायित्वा
joint ownership	संयुक्त स्वामित्व,
joint property	साझे की जायदाद, संयुक्त सम्पत्ति
joint representation	संयुक्त प्रतिवेदन
joint responsibility	मिली जुलीजवाबदेही, संयुक्त उत्तरदायित्व
joint and collective responsibility	संयुक्त और सामूहिक उत्तरदायित्व
joint secretary	सह सचिव
joint session	संयुक्त अधिवेशन
joint stock company	साझे की कम्पनी
joint tenancy	सहाभोग, संयुक्त आभोग
joint tenant	सहाभोगी, संयुक्त आभोगी
jointure	स्त्रीधन
joke <i>n.</i>	मजाक, परिहास
<i>vb.</i>	मजाक करना, परिहास करना
jolt	धक्का, हचका
journal	(i) दैनिक रजिस्टर, रोज़नामचा (ii) पत्रिका
economic journal	आर्थिक पत्रिका
purchase journal	खरीद रजिस्टर
sales journal	विक्री रजिस्टर



journalism	पत्रकारिता
journalist	पत्रकार
journalistic	पत्रकारिता-सम्बन्धी
journey	सफ़र, यात्रा
journeyman	जर्नीमैन
journey ticket	यात्रा-टिकट
return journey	वापसी यात्रा
single journey	एक ओर की यात्रा, इकहरी यात्रा
return journey ticket	वापसी टिकट short for वापसी यात्रा टिकट
single journey ticket	इकहरी टिकट short-for इकहरी यात्रा टिकट
jubilate <i>vb.</i>	खुशी मनाना
jubilation	खुशी, उल्लास
jubilee	जयंती
jubilee-silver	रजत जयंती
jubilee-golden	स्वर्ण जयंती
jubilee-diamond	हीराक जयंती
judge <i>n.</i>	(i) जज (ii) निर्णायक (iii) पारखी
<i>vb.</i>	(i) निर्णय करना, (ii) परखना (iii) विवेचन करना
judges' court	जज की कचहरी
additional judge	एडिशनल जज, अपर जज
chief judge	मुख्य जज
district judge	ज़िला जज
session judge	दौरा जज
sub-judge	सब-जज
judgeship	जज का पद
judgment	(i) फैसला, निर्णय (ii) राय, विचार
judgment debt	निर्णीत ऋण
judgment debtor	निर्णीत ऋणी
judgment creditor	निर्णीत ऋणदाता
judicate <i>vb.</i>	विवेचन करना
indicator	विवेचक
judicature	अदालत, न्यायालय
judicial	अदालती, न्यायिक, न्याय-सम्बन्धी
judicial act	अदालती कार्य

judicial cognizance	अदालती प्रसंज्ञान
judicial committee	न्याय समिति
judicial declaration	अदालती घोषणा
judicial department	न्याय विभाग
judicial enquiry	अदालती जाँच
judicial evidence	अदालती शहादत
judicial notice	अदालती नोटिश
judicial office	अदालती पद, न्यायिक पद
judicial officer	जूडीशियल अफसर, न्यायिक अफसर
judicial power	न्यायिक शक्ति
judicial proceedings	अदालती कार्रवाई
judicial process	अदालती समादेश
judicial record	अदालती कागज़-पत्र, अदालती अभिलेख
judicial stamp	अदालती टिकट
judicial tribunal	न्याय अधिकरण
judiciary	न्यायपालिका, न्यायांग
judicious	विवेकपूर्ण, विवेकसंगत
judiciously	विवेकपूर्ण ढंग से
junction	जंक्शन
junction station	जंक्शन स्टेशन
junior	जूनियर, कनीय
junior administrative grade	कनीय प्रशासी ग्रेड
junior officer	जूनियर अफसर, कनीय अफसर
junior scale	कनीय वेतन-मान, जूनियर वेतन-मान
juniority	कनीयता, जूनियारिटी
juridical	न्यायविधान-सम्बन्धी
jurisdiction	(i) अधिकार-क्षेत्र (ii) क्षेत्राधिकार
jurisdiction—appellate	अपील क्षेत्राधिकार
jurisdiction—exclusives	अनन्य क्षेत्राधिकार, अनन्य अधिकार-क्षेत्र
jurisdiction—original	मूल क्षेत्राधिकार
jurisdiction—pecuniary	आर्थिक क्षेत्राधिकार
jurisdiction—territorial	प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र
jurisprudence	न्यायशास्त्र, विधिशास्त्र
jurist	विधिवेत्ता
jurior	जूरर
jury	जूरी

juryman

just

justice

chief justice

justifiable

justification

justify *vb.*

juvenile

juvenile court

juvenile delinquency

juvenile delinquent

juvenile offender

जूरी का सदस्य

ठीक, उचित, न्यायपूर्ण

(i) न्याय, इंसफ़ (ii) न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश

न्यायसंगत

औचित्य

उचित या ठीक ठहराना

वाल .

वाल न्यायालय,

वाल अपराधियों का न्यायालय

वाल अवचार

वाल अवचारी

वाल अपराधी

## 'K'

keen	(i) उत्सुक (ii) तेज, तीक्ष्ण
keen competition	कड़ा मुकाबला
keenly	सरगर्मी के साथ, उत्सुकता के साथ
keenness	सरगर्मी, उत्सुकता
keep <i>vb.</i>	अधिकार में रखना, देख-भाल करना, पालन करना
keeper	रक्षक, पालक, देख-भाल करने वाला
gate keeper	दरवाना, द्वारपाल
record keeper	अभिलेख पाल
stationery keeper	लेखन-सामग्री पाल
keeping	(i) रक्षण (ii) सामंजस्य, मेल
in keeping with	के अनुसार
key <i>n.</i>	कुंजी, साधन, व्याख्या
adj.	मूल, आधार, आधारभूत, महत्वपूर्ण
key board	आधार पटल
key industry	मूल उद्योग
key position	महत्वपूर्ण स्थान
key note	मूल स्वर, मूल मंत्र
kidnap <i>vb.</i>	भगा ले जाना, अपहरण
kidnapped	भगाया हुआ, अपहृत
kidnapper	अपहर्ता, भगाने वाला
kidnapping	अपहरण
kill <i>vb.</i>	मार डालना, कत्ल करना, नष्ट करना, समाप्त करना
kin	सम्बन्धी, स्वजन
kith and kin	भाई-बन्धु
next of kin	निकटतम सम्बन्धी
kindred	(i) सम्बन्ध, बन्धुता (ii) सम्बन्धी, सजातीय
kinship	सम्बन्ध, भाई-चारा
kinsman	स्वजन, सम्बन्धी

kind <i>n.</i>	प्रकार, 'भेद
<i>adj.</i>	दयालु, कृपालु, मेहरवान
payment in cash	नकद देनगी
payment in kind	वस्तु के रूप में देनगी, जिन्म में देनगी
kindness	कृपा, दया, मेहरवानी
kine house	मवेशीखाना
kit	थैला
knack	युक्ति
kneel <i>vb.</i>	घुटने टेकना
nock <i>n.</i>	घक्का
<i>vb.</i>	(i) घक्का देना, (ii) खटखटाना
knock down	घक्का देकर गिराना
knot	गाँठ
knotty	(i) नटखट (ii) जटिल
know <i>vb.</i>	जानना, समझना, परिचित होना
know-how	कार्य-विधि
knowingly	जान-बूझकर
knowledge	जानकारी, ज्ञान
knowledgeable	सुपरिचित, सुविज्ञ
known	जाना हुआ, ज्ञात, विदित

## ‘L’

label *n.*

*vb.*

laboratory

laboratory test

laborious

labour *n.*

*vb.*

labour appellate tribunal

labour bureau

labour dispute

labour federation

labour laws

labour pay sheet

labour room

labour union

labour unrest

labour welfare centre

labour welfare officer

labour—manual

labour—skilled

labour unskilled

labourer

labourite

lack *n.*

*vb.*

lacking.

lacking in manners

lady doctor

lag behind *vb.*

laissez faire

नामपर्ची

नामपर्ची लगाना

प्रयोगशाला

प्रयोगशाला जाँच

(i) मेहनती, परिश्रमी, (ii) दुर्वोध

(i) मेहनत, परिश्रम (ii) मजदूरवर्ग,

श्रमिकवर्ग (iii) प्रसवपीड़ा

मेहनत करना, परिश्रम करना, कठिनाई

से आगे बढ़ना, प्रसव-पीड़ा होना

श्रमिक अपील अधिकरण

श्रमिक व्यूरो

श्रमिक विवाद

श्रमिक संघ

श्रमिक कानून

श्रमिक वेतन पत्र

प्रसव कक्ष

श्रमिक संघ

श्रमिक अशान्ति

श्रमिक कल्याण केन्द्र

श्रमिक कल्याण अफसर

शारीरिक श्रम

कुशल मजदूर

अकुशल मजदूर

मजदूर, श्रमिक

मजदूर दलीय

अभाव, कमी

अभाव होना, कमी होना

अभाव,

शिष्टता का अभाव

महिला डाक्टर

पिछड़ना, पीछे रह जाना

अहस्तक्षेप

laissez faire policy	अहस्तक्षेप की नीति
land <i>n.</i>	जमीन, भूमि, स्थल, प्रदेश
<i>vb.</i>	( जहाज आदि का ) जमीन पर उतरना या उतारना
land acquisition	भूमि अधिग्रहण
land acquisition Act	भूमि अधिग्रहण अधिनियम
land acquisition officer	भूमि अधिग्रहण अफसर
land holder	जागीरदार
land lady	गृह स्वामिनी, मकान की मालकिन
land legislation	भूमि-सम्बन्धी विधान
land lord	(i) जमीनदार, भू-स्वामी (ii) मकान मालिक
land mark	निशान, चिह्न, सीमा- चिह्न
land mortgage	जमीन की रेहन
land of public utility	सार्वजनिक उपयोग की भूमि
land records	भूमि अभिलेख
land revenue	मालगुजारी, भूराजस्व
land settlement	जमीन का बन्दोबस्त
land survey	भूमि सर्वेक्षण, जमीन की पैमाइश
land tax	भूमिकर
land tenure	जमीन का पट्टा
landed interests	भूमिगत स्वार्थ
landless	भूमिहीन
landless labourer	भूमिहीन मजदूर
landing ground	( जहाज ) उतरने का अड्डा
landing permit	( जहाज ) उतरने का परमिट
language	भाषा
language policy	भाषा-नीति
language test	भाषा-परीक्षा
lapse <i>n.</i>	चूक, व्यपगमन, वीतना
<i>vb.</i>	व्यपगत होना, वीतना
larceny	चोरी
large	बड़ा, विशाल, उदार
to a large extent	बहुत कुछ
on a large scale	बड़े पैमाने पर
large-hearted	उदार

largely	बहुत कुछ
last	अन्तिम, आखिरी, इससे पहले का
last pay certificate	अन्तिम वेतन पत्र short for अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र
last phase	अन्तिम चरण
last step	अन्तिम उपाय
last stop signal (Rly.)	अन्तिम रोक सिगनल
last will	अन्तिम वसीयत, अन्तिम इच्छापत्र
late	(i) समय से पीछे (ii) भूतपूर्व, स्वर्गीय
to be late	देर से आना
late attendance	देर से आना
late comer	देर से आने वाला
late fee	विलम्ब शुल्क
latent	अप्रकट, सुसुप्त
later	बाद में
latitude	(i) अक्षांस (ii) छूट, विचार की स्वतंत्रता
launch <i>n.</i>	नौका
<i>vb.</i>	(i) प्रहार करना (ii) पानी में उतारना (iii) आरम्भ करना
lavatory	शौचालय
law	कानून, नियम, धर्म, विधि
law-abiding	कानून का पाबन्द, शान्तिप्रिय, विधि परायण
law agent	कानूनी एजेंट
law-book (a book of law cases)	मुकदमों की पुस्तक
law charges	कानूनी खर्च
law court	अदालत, न्यायालय
law maker	विधायक, स्मृतिकार, कानून बनाने वाला
law officer	कानून अफसर
administrative-law	प्रशासकी कानून
civil law	व्यवहार विधि, सिविल कानून
constitution law	संवैधानिक कानून
criminal law	फौजदारी कानून
international law	अन्तर्राष्ट्रीय कानून
moral law	नैतिक नियम



natural law	प्राकृतिक नियम
personal law	वैयक्तिक नियम
statutory law	सांविधिक कानून
lawful (legal)	कानूनी, न्यायसंमत
lawfully	नियमतः, न्यायतः
law suit	मुकदमा
lawless	अराजक
lawlessness	अराजकता
lawyer	वकील
lay down <i>vb.</i>	(i) निर्धारित करना, (ii) रख देना
lay on the table	पटल पर रखना
layout	खाका ,
lead <i>n.</i>	(i) सीसा (ii) नेतृत्व (iii) दूरी
<i>vb.</i>	(i) मार्ग दिखाना, नेतृत्व करना, रहनु- माई करना (ii) आगे होना
leader (i)	नेता
(ii)	अग्रलेख
leader of the house	सदन का नेता
leader of the opposition	प्रतिपक्ष का नेता
leaderette	अग्रलेख
leading <i>adj.</i>	प्रमुख
leaflet	पत्ची
league	(i) संघ (ii) संघात
in league with	से मिल कर
labour league	श्रमिक संघ
league of nations	राष्ट्र संघ
leak <i>vb.</i>	(i) चूना, टपकना, (ii) रहस्य खुलना
leakage	(i) टपकन (ii) रहस्य खुलना
leakage of secret documents	गुप्त प्रलेखों का रहस्य खुलना
leap year	अधिवर्ष
learn <i>vb.</i>	(i) सीखना (ii) समाचार पाना
learned	विद्वान
learning	विद्वत्ता
lease <i>n.</i>	पट्टा
<i>vb.</i>	पट्टा करना, पट्टे पर लेना या देना

lease deed	पट्टानामा
lease hold	पट्टेदारी
lease-hold property	पट्टेदारी जायदाद
lease holder	पट्टेदार
lease money	पट्टे की रकम
lease period	पट्टे की अवधि
least	कम से कम, न्यूनतम
without the least delay	तुरन्त
least possible delay	यथासंभव, कम से कम देरी में
leave <i>n.</i>	( i ) छुट्टी, ( ii ) अनुमति, इजाजत
<i>vb.</i>	छोड़ना, अलग होना
leave account	छुट्टी लेखा
leave allowance	छुट्टी-भत्ता
leave concession voucher	छुट्टी का रियायती वाउचर
leave reserve post	छुट्टी आरक्षित पद
leave reservist	छुट्टी आरक्षित (कर्मचारी)
leave rules	छुट्टी नियम,
leave salary	छुट्टी वेतन
leave vacancy	छुट्टी रिक्ति
leave-casual	आकस्मिक छुट्टी
leave-commuted	परिवर्तित छुट्टी
leave-compensatory	क्षतिपूरक छुट्टी
leave-due	देय छुट्टी
leave-earned	अर्जित छुट्टी
leave-extraordinary	असाधारण छुट्टी
leave-furlow	फलों छुट्टी
leave medical	डाक्टर की छुट्टी
leave not due	अग्रिम छुट्टी
leave on average pay	औसत वेतन छुट्टी
leave on half average pay	आधे औसत वेतन पर छुट्टी
leave preparatory to retirement	निवृत्ति पूर्व छुट्टी
leave-privilege	विशेषाधिकार छुट्टी
leave-sick	बीमारी की छुट्टी
leave-special disability	विशेष अशक्तता छुट्टी
leave-study	अध्ययन छुट्टी
leave with full pay	पूरे वेतन पर छुट्टी

leave without pay	बिना वेतन छुट्टी
lecture <i>n.</i>	भाषण
<i>vb.</i>	भाषण देना,
lecturer	लेक्चरर, भाषणकर्ता
ledger	वही
purchase ledger	खरीद वही
sales ledger	विक्री वही
creditors' ledger	उधार वही
left luggage (Rly.)	अमानती सामान
left luggage office (Rly.)	अमानती सामान घर
(the same as cloak room)	
left luggage ticket (Rly.)	अमानती सामान टिकट
leftist	वामपंथी
legacy	विरासत,
legal	कानूनी, वैध
legal action	कानूनी कार्रवाई
legal adviser	कानूनी सलाहकार
legal charges	कानूनी खर्च
legal disability	कानूनी निर्योग्यता
legal ground	कानूनी आधार
legal heir	कानूनी वारिस , वैध उत्तराधिकारी
legal liability	कानूनी दायिता
legal interpretation	कानूनी व्याख्या
legal notice	कानूनी नोटिस
legal process	कानूनी समादेश
legal profession	विधि व्यवसाय, कानून पेशा
legal proof	कानूनी प्रमाण, कानूनी सबूत
legal provision	कानूनी उपबन्ध
legal remedy	कानूनी उपाय
legal representative	कानूनी प्रतिनिधि
legal right	वैध अधिकार , कानूनी अधिकार
legal tender	वैध मुद्रा
legalisation	वैधकरण
legalise <i>vb.</i>	वैध बनाना, कानून सम्मत बनाना
legality	वैधता
legally	वैधरूप से, कानूनन
legatee	दायादी, रिक्थग्राही

legation	दूतावास, दूत भेजना
legibility	सुवाच्यता, स्पष्टता
legible	सुवाच्य, स्पष्ट
legislate <i>vb.</i>	विधान बनाना, कानून बनाना
legislation	विधान
legislative	विधान-सम्बन्धी, वैधानिक
legislative assembly	विधान सभा
legislative authority	वैधानिक अधिकार
legislative business	विधान-कार्य
legislative council	विधान परिषद्
legislative power	वैधानिक शक्ति
legislature	विधान-मण्डल, विधानांग
legislature-bicameral	दो सदनी विधान-मण्डल
legislature-unicameral	एक सदनी विधान-मण्डल
legitimacy	औरसता, औचित्य
legitimate <i>adj.</i>	औरस, उचित, वैध
legitimately	उचित रूप से
legitimatised <i>vb.</i>	औरस बनाना, वैध बनाना
leisure	अवकाश
leisurely	धीरे-धीरे, मन्दगति से
leniency	नरमी
lenient	नरम
lessee	पट्टेदार, पट्टाधारी
lesson	(i) पाठ (ii) शिक्षा, नसीहत
lessor	पट्टादाता
let <i>vb.</i>	(i) पट्टे पर देना, भाड़े पर उठाना (ii) अनुमति देना, होने देना
letting	पट्टे पर देना, भाड़े पर देना
<i>lethal</i>	घातक
lethal weapon	घातक हथियार
lethargic	आलसी
lethargy	आलस
letter	(i) पत्र, चिट्ठी (ii) अक्षर
letter-head	नामांक पत्र
letter number	पत्र संख्या
letter of acceptance	स्वीकृति पत्र
letter of allotment	नियतन पत्र

letter of attorney	मुस्तारनामा
letter of authority	अधिकारपत्र
letter of credit	प्रत्यय पत्र, हुण्डी
letter of introduction	परिचय पत्र
letter of regret	नकार पत्र
letter writing	पत्र-लेखन
lettering	अक्षर-लेखन
level <i>n.</i>	(i) तल (ii) स्तर (iii) समतल
<i>vb.</i>	समतल करना
level crossing	समपार short-for समतल पार
level of prices	मूल्य स्तर
leavy <i>n.</i>	उगाही
<i>vb.</i>	उगाहना, कर आदि लगाना
liability	(i) दायिता, देयता, देनदारी (ii) भागिता
liable	उत्तरदायी, भागी
liable to ejection	वेदखली के भागी
liaison	(i) सम्पर्क (ii) अनुचित प्रेम-सम्बन्ध
liaison office	सम्पर्क कार्यालय
liaison officer	सम्पर्क अफसर
libel	अपमान, अपमानलेख
libellous	अपमानपूर्ण
liberal	उदार
liberality	उदारता
liberally	उदारता ले साथ
liberate <i>vb.</i>	उद्धार करना, मुक्त करना
liberation	उद्धार, मुक्ति
liberation army	मुक्ति सेना
liberator	उद्धारक, मुक्तिदाता
liberty	स्वतंत्रता, मुक्ति, छुटकारा
licence	लाइसेन्स, अनुज्ञप्ति
licence fee	लाइसेन्स फीस
licence holder	लाइसेन्सदार
license <i>vb.</i>	लाइसेन्स देना
licensed	लाइसेन्सप्राप्त, लाइसेन्सदार
licensed porter	लाइसेन्सप्राप्त भारिक, लाइसेन्सदार
	भारिक
licensee	लाइसेन्सदार

licenser	लाइसेन्सदाता
licensing authority	लाइसेन्स देना वाला अधिकारी
licensing policy	लाइसेन्स देने की नीति
licensing rules	लाइसेन्स देने के नियम
licentiate	अनुज्ञप्तिधारी
licentious	लंपट, कामी
licentiousness	लंपटता, कामुकता
lien	पूर्वाधिकार
lien of service	सेवा का पूर्वाधिकार
life	जीवन, जिन्दगी
life annuity	आजीवन वार्षिकी
life insurance	जीवन बीमा
life certificate	जीवन प्रमाण पत्र
life estate (an estate held during the life-time of the possessor)	आजीवन सम्पदा
life history	जीवन वृत्तान्त
life tenant	आजीवन पट्टेदार
life tenure	आजीवन पट्टा, आजीवन कार्यकाल
lifeless	वेज्ञान, निर्जीव
life-long	आजीवन, जीवन भर
life policy	जीवन बीमा
life imprisonment	आजीवन कारावास
life time	जीवन काल
lift <i>n.</i>	लिफ्ट
<i>vb.</i>	उठाना
liftman	लिफ्ट चालक
light <i>n.</i>	रोशनी, प्रकाश
<i>adj.</i>	मन्द, हलका,
<i>vb.</i>	रोशनी करना
light coins	रेज़गारी
light engine	अकेला इंजन
light house	प्रकाश स्तंभ
light railway	लाइट रेलवे
light ship	प्रकाश पोत
like <i>adj.</i>	समान, समरूप, सदृश
<i>vb.</i>	चाहना, पसन्द करना

likelihood	संभावना
likely	संभाव्य, संभव
likeness	समानता, समरूपता
likewise	इसी तरह, इसी प्रकार
liking	पसन्द
limit <i>n.</i>	हद, सीमा,
<i>vb.</i>	सीमित करना
limitation	सीमा
limited	सीमित
limited liability	सीमित दायिता
limited resources	सीमित साधन
line	लाइन, रेखा, वंश
line clear (Rly)	लाइन क्लियर
line of action	कार्य दिशा
line of argument	तर्क दिशा
lineage—linage	घराना, वंश, वंश-परम्परा
lineal ( <i>adj</i> )	(i) पैतृक । (ii) वंश-परम्परागत
lingua franca	सामान्य भाषा,
lingual	भाषा-सम्बन्धी
linguist	भाषाविद्
linguistic states	भाषाई राज्य
linguistics	भाषा विज्ञान
link <i>n.</i>	कड़ी
<i>vb.</i>	जोड़ना, नत्थी करना
linked file	नत्थी फाइल
liquidate <i>vb.</i>	(i) कर्ज चुकाना (ii) परिसमाप्त करना (i i) निर्धारित, करना चुकता, परिसमाप्त निर्धारण
liquidation	परिसमाप्त करना
go into liquidation	परिसमाप्त
liquidator	शराव
liquor	सूची
list	कार्य-सूची
list of business	साक्षरता
literacy	साक्षरता अभियान
literacy drive	शाब्दिक
literal	शाब्दिक अर्थ
literal meaning	शब्दानुवाद
literal translation	

literacy	सारक्षरता
literate <i>adj.</i>	साक्षर, पढ़ा-लिखा
literature	साहित्य
litigant	मुकदमेवाज
litigate <i>vb.</i>	मुकदमेवाजी करना
litigation	मुकदमेवाजी
livelihood	आजीविका
live-stock	पशुधन
live-wire	गरम तार
living <i>n.</i>	आजीविका, निर्वाह
<i>adj.</i>	जीवित, जीवन्त
living wages	निर्वाह मजदूरी, निर्वाह वेतन
load <i>n.</i>	भार, बोझ
<i>vb.</i>	लादना
loading charges	लदाई, लदाई-प्रभार
loading restrictions	लदान पर पाबन्दी
loan <i>n.</i>	कर्ज, उधार
<i>vb.</i>	उधार देना
loan and advances	उधार और अग्रिम
loan on mortgage	रेहन पर कर्ज
loan-private	निजी कर्ज
loan-public	सार्वजनिक कर्ज
lobby	लॉबी
local	स्थानीय
local administration	स्थानीय प्रशासन
local allowance	स्थानीय भत्ता
local arrangement	स्थानीय व्यवस्था
local authority	स्थानीय अधिकरण
local board	स्थानीय बोर्ड
local cheque	स्थानीय चेक
local bodies	स्थानीय निकाय
local cess	स्थानीय उपकर
local invoice (Riy.)	स्थानीय इन्वायस
foreign invoice	इतर इन्वायस
local passenger	स्थानीय यात्री
local passenger classification	स्थानीय यात्रियों का वर्गीकरण
local purchase	स्थानीय खरीद



local self-government	स्थानीय स्वायत्त शासन
local tax	स्थानीय कर
local train	स्थानीय गाड़ी
localize <i>vb.</i>	एक दायरे में सीमित रखना क्षेत्र-विशेष में सीमित रखना
localized	क्षेत्र-सीमित
locality	इलाका
locate <i>vb.</i>	पता लगाना, स्थान निर्धारित करना
location	स्थान, जगह, मौका
lock-out <i>n.</i>	तालाबन्दी
lock-up	हवालात
loco	रेल इंजन
loco crew	रेल इंजन कर्मी
locomotion	संचलन
locomotive	रेल इंजन
locus standi	स्थानाधिकार, प्रवेशाधिकार
lodge <i>n.</i>	निवास
<i>vb.</i>	(i) ठहरना, निवास करना, ठहराना (ii) प्रस्तुत करना (as complaint)
lodging	निवास
lodging and broading	निवास और भोजन
log book	कार्य पंजी
logic	तर्क , दलील
logical	तर्कसंगत
long-term	दीर्घकालिक, लम्बी अवधि का
long-term credit	दीर्घकालिक ऋण
long-term imprisonment	लम्बा कारावास
long-term policy	दीर्घकालिक नीति
longevity	दीर्घजीवन, दीर्घायुत्व
loop	लूप, चाप
loop-hole	वचकर निकलने का रास्ता
loop-line (Rly.)	लूप लाइन
loose <i>adj.</i>	(i) ढीला, शिथिल, (ii) भ्रष्ट
loose character	भ्रष्ट आचरण
loose shunting	धक्का शॉटिंग
loosen <i>vb.</i>	ढीला करना, मुक्त करना, छोड़ देना
looseness	(i) ढीलापन, शिथिलता (ii) भ्रष्टता

lose <i>vb.</i>	खोना, नुकसान उठाना, हारना,
loss	हानि, नुकसान, घाटा
lost	खोया हुआ, शायद
lost property office	खोये हुए सामान का दफ़्तर
lottery	लॉटरी
lower <i>adj.</i>	निचला, निम्न, अवर
<i>vb.</i>	नीचा करना, नीचे गिराना
lower class	निचला दर्जा
upper class	ऊँचा दर्जा
lower grade	अवर पदक्रम
upper grade	प्रवर पदक्रम
lower house	अवर सदन
upper house	प्रवर सदन
loyal	निष्ठ, भक्त
loyally	निष्ठा के साथ
loyalty	निष्ठा, भक्ति, स्वामिभक्ति
lucrative	लाभदायक
lucrative profession	लाभदायक व्यवसाय
lucky	भाग्यवान, भाग्यशाली
ludicrous	भौंड़ा, हास्यास्पद
luggage booking	सामान की बुकिंग
luggage charges	सामान का महसूल
luggage ticket	सामान टिकट
luggage van	सामान का डिब्बा, सामान यान
lump	एकमुश्त
lump-sum	एकमुश्त रकम
lunacy	पागलपन
lunatic	पागल
lunatic asylum	पागलखाना
lunch	दोपहर का भोजन
luxurious	विलासी, विलासमय
luxuriousness	विलासिता,
luxury	विलास, सुख-साधन, ऐश
luxury goods	विलास की वस्तुएँ
luxury tax	विलास कर

## 'M'

machine	मशीन
machine man	मशीन चालक
machine part	मशीन के पुर्जे
machine room	मशीनघर
machine tool	मशीनी औज़ार
machinery	(i) मशीन, (ii) तंत्र
mad	पागल
madness	पागलपन
magazine	(i) पत्रिका (ii) हथियारघर
magisterial	मजिस्ट्रेट-सम्बन्धी
magisterial enquiry	मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच
magisterial power	मजिस्ट्रेटी शक्ति
magistracy	मजिस्ट्रेट का पद, मजिस्ट्रेटी
magistrate	मजिस्ट्रेट
additional magistrate	अपर मजिस्ट्रेट
city magistrate	नगर मजिस्ट्रेट
district magistrate	ज़िला मजिस्ट्रेट
joint magistrate	सह मजिस्ट्रेट
judicial magistrate	न्यायिक मजिस्ट्रेट
resident magistrate	स्थानिक मजिस्ट्रेट
magnet	चुम्बक
magnetic	चुम्बकीय, आकर्षक
magnetic effect	आकर्षण
magnetic personality	आकर्षक व्यक्तित्व
magnanimous	उदार
magnanimity	उदारता
magnificence	ज्ञान, भय्यता
magnificent	ज्ञानदार, भव्य
magnify vb.	बड़ा-बड़ा कर कहना
mail	डाक
mail bag	डाक-थैला

mail train	डाकगाड़ी
mailing list	प्रेषण सूची
magnitude	विशालता, महत्व, आकारमान
main <i>adj.</i>	मुख्य, प्रमुख, खास
main line	मुख्य लाइन
main problem	प्रमुख समस्या
mainly	मुख्यतः
mainstay	मूल आधार
maintain <i>vb.</i>	(i) कायम रखना, बनाये रखना (ii) भरण-पोषण करना (iii) अनुरक्षण करना (iv) खर्च चलाना (v) संधारण करना
maintain discipline	अनुशासन कायम रखना
maintain a family	परिवार का भरण-पोषण करना
maintain an institution	संस्था चलाना
maintenance	भरण-पोषण, गुजारा, निर्वाह, अनुरक्षण
maintenance allowance	गुजारा, निर्वाह-भत्ता
maintenance charges	अनुरक्षण प्रभार
maintenance grant	अनुरक्षण अनुदान
maintenance, cost of	अनुरक्षण की लागत
maintenance, suit for	गुजारे के लिए मुकदमा
repairs and maintenance	मरम्मत और अनुरक्षण
major <i>n.</i>	मेजर (सैनिक अधिकारी)
<i>adj.</i>	बड़ा, प्रमुख, मुख्य
major head	मुख्य शीर्षक
major port	बड़ा बन्दरगाह
minor port	छोटा बन्दरगाह
major repairs	बड़ी मरम्मत
minor repairs	मामूली मरम्मत
majority	(i) बहुमत (ii) बहुसंख्यक (iii) वयस्कता
attain the age of majority	वालिग होना, वयस्क होना
majority absolute	पूर्ण बहुमत
majority community	बहुसंख्यक सम्प्रदाय
majority party	बहुसंख्यक दल
make <i>vb.</i>	बनाना, निर्माण करना
<i>n.</i>	रचना, गढ़न
make amends for	क्षतिपूर्ति करना
make-shift arrangement	कामचलाऊ व्यवस्था

make over	हवाले करना
maladjustment	कुसमंजन
maladministration	कुशानन
malady	रोग, व्याधि
malaise	अस्वस्थता
mala-fide	दुराशय
*mala-fides	दुराशयता
malaria	मलेरिया
malariaologist	मलेरिया विशेषज्ञ
malconduct	कदाचार
malcontent	अनन्तुष्ट व्यक्ति
malefic	अनिष्टकर
malefactor	अपकारी
malvoience	अशुभचिन्तन
malevolent	अशुभचिन्तक, अपकारपूर्ण
malfeasance	दुराचरण
malformation	विकृति
malice	दुर्भावना
malicious	दुर्भावनापूर्ण, द्वेषपूर्ण
malicious act	दुर्भावनापूर्ण कार्य
malicious prosecution	द्वेषपूर्ण अभियोजन
maliciously	द्वेषपूर्ण ढंग से
malign <i>vb.</i>	(i) बदनाम करना, अपवाद करना (ii) घातक होना
malignant	अपवादक, घातक
malignant disease	घातक बीमारी
malignity	अपवाद, घातकता
mal nutrition	अपर्याप्त पोषण
malpractice	अनाचार
maltreat <i>vb.</i>	दुर्व्यवहार करना, बुरा सलूक करना
maltreatment	दुर्व्यवहार, बुरा सलूक
manage <i>vb.</i>	प्रबन्ध करना, उपाय निकालना
manageable	सम्हालने योग्य, जो सम्हाला जा सके
management	प्रबन्ध
management charges	प्रबन्ध प्रभार
management technique	प्रबन्ध तकनीक
*bonafides	सदाशयता

managing committee	प्रबन्ध समिति
manager	प्रबन्धक, मैनेजर
general manager	महा प्रबन्धक, जनरल मैनेजर
managerial	प्रबन्ध-सम्बन्धी
managing agency	प्रबन्ध अभिकरण
managing agent	प्रबन्ध अभिकर्ता
managing director	प्रबन्ध निदेशक
mandamus	परमादेश
mandate <i>n.</i>	अधिदेश
<i>vb.</i>	अधिदेश देना
mandatory	अधिदेशक, अधिदिष्ट
mandatory <i>adj.</i>	अधिदेश-सम्बन्धी, अधिदेशात्मक
manhandle <i>vb.</i>	हाथापाई करना
manhood	पुरुषत्व
manhood suffrage	पुरुष मताधिकार
man hour	जन-घण्टा
man power	जनशक्ति
mania	सनक
maniac	सनकी
manifest <i>adj.</i>	प्रकट, जाहिर
<i>vb.</i>	प्रकट करना, जाहिर करना
manifestation	प्रकटरूप, अभिव्यंजना
manifestly	प्रकटतः, प्रकट रूप से
manifesto	नीति-घोषणा
manifold	अनेक, भिन्न प्रकार का
manipulate <i>vb.</i>	छल-योजना करना, कारसाजी करना, फेर-वदल करना
manipulation	छल-योजना, कारसाजी, फेर-वदल
manipulation of accounts	लेखों
manipulator	छलयोजक, कारसाज
mankind	मानवजाति
manly	पुरुषोचित, साहसी
manner	(i) तरीका, ढंग, रीति (ii) आचार
mannerism	तकियाकलाम
manners	शिष्टाचार
mannerless	अशिष्ट
mannerliness	शिष्टता
mannerly	शिष्ट


manoeuvre <i>n.</i>	(i) युद्ध-अभ्यास (ii) चाल,
<i>vb.</i>	युक्ति
	चाल चलना, युक्ति करना
manoeuvring	चाल, युक्ति
manual <i>n.</i>	नियमावली
<i>adj.</i>	(i) हाथ का (ii) शारीरिक
office manual	कार्यालय नियमावली
manual art	दस्तकारी, हत-कला
manual labour	शारीरिक श्रम
manual training	दस्तकारी की प्रशिक्षण
manual work	हाथ का काम
manufacture <i>n.</i>	निर्माण
<i>vb.</i>	निर्माण करना, गढ़ना
manufactured	निर्मित, गढ़ा हुआ
manufactured evidence	गढ़ी हुई शहान्त
manufacturing charges	निर्माण-प्रभार
manufactured goods	निर्मित वस्तुएँ, तैयार माल
manufacturing details	निर्माण-सम्बन्धी ब्यौरा
manufacturing process	निर्माण-विधि
manufacturing programme	निर्माण-कार्यक्रम
manure <i>n.</i>	खाद
<i>vb.</i>	खाद डालना
manurial	खाद-सम्बन्धी
manuscript	हस्तलिपि, पाण्डुलिपि
map <i>n.</i>	नक्शा, मानचित्र
<i>vb.</i>	नक्शा बनाना
map out	योजना बनाना
mar <i>vb.</i>	नष्ट करना, विगाड़ना
maraud <i>vb.</i>	लूटमार करना
marauder	लुटेरा
margin	(i) हाशिया, पार्श्व (ii) अन्तर, मात्रा,
	गुंजाइश (iii) सीमा, उपान्त
margin of profit	लाभ की मात्रा
marginal	पार्श्विक, सीमान्त, उपान्त
marginal balance	उपान्त शेष
marginal cost	उपान्त लागत
marginal demand	उपान्त माँग

marginal profit	उपान्त लाभ
marginal note	पार्श्व नोट
marginal return	उपान्त प्रतिफल
marginal utility	उपान्त उपयोगिता
marginal yield	उपान्त उपज
marine <i>n.</i>	समुद्र
<i>adj.</i>	समुद्री, जहाजी
marine insurance	समुद्री बीमा
marine shipping	जहाजरानी
mariner	नाविक
marital	विवाह-सम्बन्धी, वैवाहिक
maritime	समुद्री
mark <i>n.</i>	निशान, चिह्न, अंक
<i>vb.</i>	निशान लगाना, अंकित करना
mark sheet	अंक पत्र
marked	अंकित, स्पष्ट, निश्चित
marked tendency	निश्चित झुकाव
markedly	स्पष्ट रूप से
market	(i) बाजार, हाट (ii) भाव
market fluctuation	बाजार का चढाव-उतार
market price	बाजार भाव
market rate	बाजार दर
market study	बाजार का अध्ययन
market tendency	बाजार का रुझान
market value	बाजार-मूल्य
marketable	विकाऊ, विक्रीय
marketing	क्रय-विक्रय, हाट
marketing federation	क्रय-विक्रय संघ, हाट संघ
marksman	निशानची
maroon <i>vb.</i>	असहाय अवस्था में छोड़ना
marriage	विवाह, शादी
marriage allowance	विवाह भत्ता
married quarters	दम्पतिवासा
marriageable	विवाह योग्य
marriageable age	विवाह योग्य आयु
marshal <i>n.</i>	मार्शल
<i>vb.</i>	विन्यास करना, क्रमबद्ध करना



marshalling yard (Rly.)	मार्शलिंग यार्ड
martial	(i) सैनिक (ii) युद्धप्रिय
martial law	सैनिक कानून
martial races	युद्धप्रिय जातियाँ
martyr	शहीद, वलिदानी
martyrdom	वलिदान
martyrize <i>vb.</i>	शहीद बनना, आत्म-वलिदान करना
marvel <i>n.</i>	विलक्षण
<i>vb.</i>	चकित होना, अचम्म में पड़ना
marvellous	विलक्षण
mask	नकाब, मुख़ावरण
masonry	चिनाई
masonry work	चिनाई का काम
masquerade <i>n.</i>	कपटवेश, क्षत्रवेश
<i>vb.</i>	कपट पेश या क्षत्रवेश धारण करना
mass <i>n.</i>	ढेर, पुंज
<i>adj.</i>	जन, सामूहिक
mass contact	जन-सम्पर्क
mass evacuation	सामूहिक निष्क्रमण
mass movement	जन-आन्दोलन
mass production	बड़े पैमाने पर उत्पादन
masses	जनता, जन-साधारण
massive	भारी
master <i>n.</i>	मास्टर, अध्यापक, स्वामी, विशेषज्ञ
<i>vb.</i>	अधीन करना, हावी होना, पारंगत होना
master key	सर्वकुंजी
master piece	सर्वोत्तम रचना
mastery	निपुणता, प्रवीणता
mate	साथी
material <i>n.</i>	सामग्री, सामान
material <i>adj.</i>	महत्वपूर्ण, भौतिक
material change	महत्वपूर्ण परिवर्तन
material gain	भौतिक लाभ
material prosperity	सांसारिक वैभव
material resources	भौतिक साधन
material train	सामान गाड़ी
material well-being	भौतिक कल्याण

material variation	महत्वपूर्ण परिवर्तन
materialise <i>vb.</i>	कार्यरूप में परिणत होना
materialist	भौतिकवादी
materialistic	भौतिकवादी
materially	सारतः
maternal	मातृक
maternity	प्रसूति
maternity centre	प्रसूति केन्द्र
maternity and child welfare centre	जच्चा-बच्चा कल्याण केन्द्र
maternity relief	प्रसूति सहायता
maternity welfare	प्रसूति कल्याण
mathematical	गणित विषयक
matriarchal	मातृप्रधान
matriarchy	मातृ-प्रधान समाज
matricide	मातृवध
matriculate <i>n.</i>	मैट्रिकुलेट
<i>vb.</i>	मैट्रिक परीक्षा पास करना
matriculation	मैट्रिकुलेशन
matter <i>n.</i>	(i) बात, मामला, (ii) विषय, (iii) द्रव्य, पदार्थ
matter of fact	यथार्थ
matter of fact statement	यथार्थ वयान, यथार्थ विवरण
mature <i>adj.</i>	परिपक्व
<i>vb.</i>	परिपाक होना, अवधि पूरी होना
maturity	परिपक्वता, परिपाक
maturity of a bill	हुण्डी का परिपाक
maturity of an insurance policy	बीमा पालिसी का परिपाक
maxim	सूत्र, सिद्धान्त
maximize <i>vb.</i>	अधिक से अधिक बढ़ाना
maximum	सबसे अधिक, अधिकतम
maximum average pay	अधिकतम औसत वेतन
maximum effort	अधिकतम प्रयास
maximum output	अधिकतम उत्पादन
maximum speed	अधिकतम रफ्तार
meagre	स्वल्प



mean <i>n.</i>	औसत
<i>vb.</i>	अर्थ होना, अभिप्राय होना
<i>adj.</i>	नीच, कमीना
means	साधन, जरिया
means of communication	संचार-साधन
means of transport	परिवहन के साधन
meaning	अर्थ
within the meaning of	की अर्थ-सीमा में
meaningful	साथक
meaningless	निरर्थक
measure <i>n.</i>	(i) नाप, माप (ii) उपाय (iii) सीमा
<i>vb.</i>	नापना, अनुमान लगाना
in some measure	कुछ सीमा तक
beyond measure	अत्यधिक
measurement	माप
measurement book	माप-पंजी
mechanic <i>n.</i>	मिस्त्री
<i>adj.</i>	यांत्रिक
mechanical defect	यांत्रिक खराबी
mechanical engineering	यांत्रिक इंजीनियरिंग
mechanical signalling	यांत्रिक सिगनल-व्यवस्था
mechanically	यंत्र द्वारा, यंत्रवत्
mechanician	यंत्रविद्
mechanics	यांत्रिकी
mechanism	कल-पुर्जे, यंत्रविन्यास
mechanization	यंत्रीकरण
mechanize <i>vb.</i>	यंत्रीकरण करना
mechanized farm	मशीनी फार्म
mechanized transport	यांत्रिक परिवहन
mechanized warfare	यांत्रिक युद्ध
meddle <i>vb.</i>	(दूसरे के काम में) हस्तक्षेप करना
meddlesome <i>adj.</i>	हस्तक्षेपक
meddling	हस्तक्षेप करने वाला
medieval	मध्यकालीन, मध्ययुगीन
mediate <i>vb.</i>	मध्यस्थता करना
mediator	मध्यस्थ
medical	इलाज-सम्बन्धी, चिकित्सा-सम्बन्धी

medical attendance	चिकित्सा
medical attendance rules	चिकित्सा नियम
medical board	चिकित्सक मण्डल
medical certificate	डाक्टरी प्रमाण-पत्र
medical college	मेडिकल कालेज
medical department (in a hospital)	भेषज विभाग
medical examination	डाक्टरी जाँच, स्वास्थ्य परीक्षा
medical leave	डाक्टरी छुट्टी
medical officer	चिकित्सा अफसर
medical practitioner	चिकित्सक, चिकित्सा व्यवसायी
medical relief	डाक्टरी सहायता
medical report	डाक्टरी रिपोर्ट
medical treatment	इलाज, चिकित्सा
medical ward	भेषज कक्ष
medicate <i>vb.</i>	दवा मिलाना
medicine	दवा, औषधि
medicinal	औषधीय
medicinal properties	औषधीय तत्व
medicinal value	औषधीय उपयोगिता
mediocre	साधारण बुद्धि का व्यक्ति
medium <i>n.</i>	माध्यम
<i>adj.</i>	दरमियानी
medium height	दरमियानी ऊँचाई
medium variety	दरमियानी किस्म
medium of instruction	शिक्षा का माध्यम
meet <i>adj.</i>	समीचीन
<i>vb.</i>	मिलना
meeting	(i) बैठक, (ii) मुलाकात
member	मेम्बर, सदस्य
membership	सदस्यता
membership fee	सदस्यता की फ़ीस, सदस्यता-गुल्क
memo	मीमो, ज्ञापन
cash memo	नकदनामा
memoirs	जीवन-वृत्तान्त
memorable	स्मरणीय, याद रखने योग्य
memorandum	ज्ञापन

memorial	(i) यादगार, स्मारक (ii) अभ्यावेदन
memorialist	अभ्यावेदक
memorise <i>vb.</i>	याद करना, कंठस्थ करना
memorium	यादगार, स्मृति
memory	याददायन, स्मरणशक्ति
menace <i>n.</i>	तर्जना
<i>vb.</i>	तर्जन करना, डराना
menacing	तर्जनापूर्ण
mend <i>vb.</i>	(i) सुधारना, (ii) मरम्मत करना
mend ones ways	अपनी हरकतों को सुधारना
mendacious	प्रवंचनापूर्ण
menial	घरेलू
menial duty	घरेलू कार्य
menial staff	घरेलू कर्मचारी
mental <i>adj.</i>	मानसिक, दिमागी
mental defect	मानसिक विकार
mental deficiency	मानसिक दुर्बलता, दिमागी कमजोरी
mental hospital	पागलखाना
mentally	मानसिक दृष्टि से
mentally deficient	मानसिक दृष्टि में दुर्बल
mentally unfit	मानसिक दृष्टि से अयोग्य
mentality	मनोवृत्ति
mention <i>n.</i>	जिक्र, उल्लेख
<i>vb.</i>	जिक्र करना, उल्लेख करना
above mentioned	उपर्युक्त, उल्लिखित
menu	भोजन-सूची, मेन्यू
mercantile	व्यापारिक, व्यावसायिक
mercantile community	व्यावसायिक वर्ग
mercantile marine	व्यापारिक वेड़ा
mercantile treaty	व्यावसायिक सन्धि
mercenary	भाड़े का, अवक्रीत, स्वार्थगत
mercenary motive	स्वार्थगत उद्देश्य
merchandise	तिजारती माल, व्यापारी माल
mercy petition	दया याचिका
merge <i>vb.</i>	विलीन होना
merged states	विलीन राज्य

merger	विलयन
merit <i>n.</i>	गुण, योग्यता
<i>vb.</i>	योग्य होना
merits and demerits	गुण और दोष
meritorious	गुण-सम्पन्न, सराहनीय
message	सन्देश
messenger	सन्देशवाहक
metalled road	पक्की सड़क
metallic currency	धातु का सिक्का
metallography	धातुविज्ञान
matallurgical	धातुशोधन-सम्बन्धी
meter	मीटर
meteorological	मौसम-सम्बन्धी
meterological report	मौसम की रिपोर्ट
meteorology	मौसम विज्ञान
method	ढंग, रीति, विधि, प्रणाली, व्यवस्था
methodical	विधिवत्, व्यवस्थित
methodical study	विधिवत् अध्ययन
methodically	यथाविधि
metre	मीटर
metropolis	राजधानी, प्रमुखनगर
metropolitan <i>n.</i>	बड़ा पादरी, धर्माध्यक्ष
<i>adj.</i>	राजधानी-सम्बन्धी
microscope	सूक्ष्मदर्शक, लुदंवीन
microscopic	सूक्ष्मदर्शी
middle	बीच का, मध्यवर्ती, माध्यमिक
middle class	मध्यम वर्ग
middle course	बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग
middle school	मिडिल स्कूल, माध्यमिक स्कूल
midwife	दाई
midwifery	दाईगीरी
migrate <i>vb.</i>	प्रवजन करना
migration <i>n.</i>	प्रवजन
migration certificate	प्रवजन प्रमाणपत्र
milch cattle	दुधारू जानवर
mileage	मील, मील-दूरी
mileage allowance	मील-भत्ता

militancy	युद्धप्रियता
militant	युद्धप्रिय
militarist	युद्धवादी
militarization	सैन्यीकरण
militarize <i>vb.</i>	सैन्यीकरण करना
military <i>n.</i>	सेना, फ़ौज
<i>adj.</i>	सैनिक
military base	सैनिक अड्डा, फ़ौजी अड्डा
military escort	सैनिक मार्गरक्षक
military store	सैनिक भण्डार
military training	सैनिक प्रशिक्षण
military warrant form	सैनिक वारन्ट फ़ार्म
militia	नागरिक सेना
mill-made	मिल का बना हुआ
mineral	खनिज
mineral resources	खनिज सम्पदा
mineralogical	खनिज-सम्बन्धी
mineralogist	खनिजवेत्ता
mineralogy	खनिज विज्ञान
miniature	लघुरूप
minimize <i>vb.</i>	कम करना, घटाना
minimum	कम से कम, न्यूनतम
minimum requirements	न्यूनतम अपेक्षाएँ, न्यूनतम आवश्यकताएँ
minimum wages	न्यूनतम मजदूरी
mining	खान की खुदाई, खनन
mining engineer	खान इंजीनियर
mining industry	खान उद्योग
minister	मंत्री
minister-in-charge	कार्यभारी मंत्री
minister of state	राज्य मंत्री
minister without portfolio	निर्विभाग मंत्री
ministerial	(i) मंत्रियों से सम्बन्धित, (ii) मंत्रालय से सम्बन्धित (iii) सचिवालय सम्बन्धी सचिवालयिक
ministerial party	मंत्रिपक्ष
ministerial services	सचिवालयिक सेवाएँ
ministerial staff	सचिवालयिक कर्मचारी

ministry	मंत्रि परिषद्, मंत्रालय
ministry of commerce	उद्योग मंत्रालय
ministry of communications	संचार मंत्रालय
ministry of defence	प्रतिरक्षा मंत्रालय
ministry of education	शिक्षा मंत्रालय
ministry of external affairs	विदेश मंत्रालय
ministry of finance	वित्त मंत्रालय
ministry of food & agriculture	खाद्य और कृषि मंत्रालय
ministry of health	स्वास्थ्य मंत्रालय
ministry of home affairs	गृह मंत्रालय
ministry of information & broad- casting	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
ministry of irrigation and power	सिंचाई और विजली मंत्रालय
ministry of labour	श्रम मंत्रालय
ministry of law	विधि मंत्रालय, कानून मंत्रालय
ministry of natural resources and scientific research	प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय
ministry of production	उत्पादन मंत्रालय
ministry of railways	रेल मंत्रालय
ministry of rehabilitation	पुनर्वास मंत्रालय
ministry of states	राज्य मंत्रालय
ministry of transport	परिवहन मंत्रालय
ministry of works, housing and supply	निर्माण, भवन और पूर्ति मंत्रालय
minor <i>n.</i>	नावालिग , अवयस्क
<i>adj.</i>	छोटा, मामूली, साधारण, गौण
minor operation	छोटा आपरेशन ( medical )
minor repairs	मामूली मरम्मत
minor works	छोटे निर्माण कार्य
minorities	अल्पसंख्यक सम्प्रदाय
minority	अल्पमत, अल्पसंख्यक, अवयस्कता
minority community	अल्पसंख्यक सम्प्रदाय
mint <i>n.</i>	टकसाल
<i>vb.</i>	सिक्का बनाना
mintage	सिक्के की ढलाई, मुद्रांकन
minute <i>n.</i>	लेन्व
<i>adj.</i>	सूक्ष्म, बारीक




minute of dissent	विमति लेख
minute observation	सूक्ष्म अवलोकन
minutely	बारीकी के साथ, सूक्ष्मतः
minutes	कार्य-विवरण
misapplication	कुप्रयोग
misapply <i>vb.</i>	कुप्रयोग करना
misappropriate <i>vb.</i>	दुर्विनियोग करना
misappropriation	दुर्विनियोग
misappropriation of money	धन का दुर्विनियोग
misbehave <i>vb.</i>	कदाचार करना
misbehaviour	कदाचार
miscarriage	(i) विफलता, (ii) गर्भपात, (iii) अपवहन
miscarriage of justice	न्याय की विफलता, न्याय का हनन
miscarry <i>vb.</i>	विफल होना, गर्भपात होना
miscellaneous	विविध
miscellaneous accounts	विविध लेखे
miscellaneous demands	विविध माँग
miscellaneous expenses	विविध खर्च
mischief	शरारत, अपकार
mischievous	शरारती, अपकारी, अपकारपूर्ण
misconceive <i>vb.</i>	भ्रान्त धारणा रखना
misconception	भ्रान्तधारणा
misconduct	अवचार
misdeed	कुकर्म
misdemeanour	दुराचरण
misgiving	अन्देशा, अनिष्ट की आशंका
misguide	गुमराह करना, गलत रास्ते पर ले जाना
mishandle	गलत इस्तेमाल करना, बुरी तरह पेश आना
misinform <i>vb.</i>	गलत खबर देना
misinterpret <i>vb.</i>	गलत अर्थ लगाना
mislead <i>vb.</i>	बहकाना, भ्रम में डालना
misleading <i>adj.</i>	भ्रामक
misnomer	मिथ्यानाम
misplace <i>vb.</i>	गलत जगह में रखना
misprint <i>n.</i>	छपाई की भूल
<i>vb.</i>	गलत छापना
misrepresent <i>vb.</i>	गलत बयान करना
misrepresentation	गलत बयानी

misrule	कुशासन
mission	मिशन, शिष्टमण्डल, उद्देश्य
misstate <i>vb.</i>	गलत बयान करना
misstatement	गलत बयान
mistake <i>n.</i>	गलती
<i>vb.</i>	गलती करना, गलत समझना
misunderstand <i>vb.</i>	गलत समझना, गलत अर्थ लगाना
misunderstanding	गलतफ़हमी, भ्रान्त धारणा
misuse <i>n.</i>	कुप्रयोग
<i>vb.</i>	कुप्रयोग करना
mitigate <i>vb.</i>	कम करना, शमन करना
mitigating <i>adj.</i>	शमनकारी
mix <i>vb.</i>	मिलना, मिलाना, मिश्रण करना, बोलना
mixed	मिश्रित, मिला-जुला
mixed economy	मिश्रित, या मिली-जुली अर्थ व्यवस्था
mixture	घोल
mixed farming	मिली-जुली खेती
mob <i>n.</i>	भीड़, मजमा
<i>vb.</i>	मजमा करना, घेर लेना
mobile	चल, गतिशील, गश्ती
mobile traffic squad	गश्ती यातायात दस्ता
mobile training squad	गश्ती प्रशिक्षण दस्ता
mobility	गतिशीलता
mobilization	लामबन्दी
mobilize <i>vb.</i>	लामबन्दी करना, जुटाना
mock <i>adj.</i>	नकली, बनावटी, कृत्रिम
<i>vb.</i>	चिढ़ाना, उपहास करना, मजाक उड़ाना
mode	ढंग, रीति, प्रणाली
mode of election	चुनाव-प्रणाली, निर्वाचन-प्रणाली
mode of payment	भुगतान-प्रणाली
model <i>n.</i>	नमूना, प्रतिमान
<i>adj.</i>	आदर्श
model police station	आदर्श थाना
model school	आदर्श स्कूल
moderate <i>adj.</i>	संयत, परिमित
<i>vb.</i>	संयत करना, परिमित करना, अनुसीमन करना

moderate climate	परिमित जलवायु
moderate charges	परिमित प्रभार
moderate demand	परिमित माँग
moderate means	परिमित साधन
moderate rainfall	परिमित वर्षा
moderately	संयत रूप से, परिमित रूप से
moderation	संयताचार, परिमितता, अनुसीमन
moderator	अनुसीमनकार
modern	आधुनिक
modernisation	आधुनिक ढंग का बनाना
modernise <i>vb.</i>	आधुनिकीकरण
modest <i>adj.</i>	विनम्र
modesty	शील, विनम्रता
modicum	अंश, टुकड़ा
modification	रूपान्तरण, तरमीम
modified	रूपान्तरित
modify <i>vb.</i>	रूपान्तर करना, तरमीम करना
modus operandi	काम करने का ढंग, कार्य-प्रणाली
moiety	आधा, अर्धभाग
moiety fee	आधो फ्रीस
moist	नम, भीगा हुआ
moisture	नमी, सीलन
molest <i>vb.</i>	छेड़ना, छेड़-छाड़ करना
molestation	छेड़-छाड़
moment	क्षण
momentum	जोर, वेग, गति
momentary	क्षणिक
monarchy	राजतंत्र
monarchy constitutional	संवैधानिक राजतंत्र
monetary	मुद्रा-सम्बन्धी, आर्थिक
monetary help	आर्थिक सहायता
monetary policy	मुद्रानीति
monetary transaction	रुपये-पैसे का लेन-देन
monetize <i>vb.</i>	धातु का सिक्का बनाना
money	धन, रकम, मुद्रा
money bill	धन विधेयक
money lender	साहूकार

money market  
 money lending  
 money order  
 monitor  
 monitory  
 monogram  
 monograph  
 monopolize *vb.*  
 monogamy  
 monopolistic  
 monopolize *vb.*  
 monopoly  
 monopoly profit  
 monsoon  
 monthly  
 monthly abstract  
 monthly instalment  
 monthly ticket  
 monument *n.*  
 monumental  
 monumental work  
  
 mood  
 moral *n.*  
     *adj.*  
 moral character  
 morale  
 morality  
 more or less  
 mortal  
 mortal wound  
 mortality  
 mortality rate  
 mortgage *n.*  
     *vb.*  
 mortgage deed  
 mortgagee

मुद्रा बाज़ार  
 साहूकारी  
 मनीआर्डर  
 मॉनिटर  
 मॉनिटर-सम्बन्धी  
 मोनोग्राम  
 निबन्ध  
 एकाधिकार करना  
 एक पत्नी रखने की प्रथा, एकपत्नीत्व  
 एकाधिकार सम्बन्धी  
 एकाधिकार करना  
 एकाधिकार  
 एकाधिकार का लाभ  
 मानसून  
 मासिक  
 मासिक सारांश  
 मासिक किश्त  
 मासिक टिकट  
 स्मारक  
 स्मारक-सम्बन्धी, चिरस्थायी  
 चिरस्थायी कृति  
 (i) चित्तवृत्ति, मिजाज (ii) क्रोध,  
     गुस्सा  
 शिक्षा, उपदेश  
 नैतिक  
 नैतिक चरित्र  
 मनोबल, हौसला  
 नैतिकता, सदाचार  
 बहुत कुछ  
 (i) घातक (ii) नश्वर  
 घातक चोट  
 मरण  
 मरण अनुपात  
 रेहन, बन्धक  
 रेहन करना, बन्धक रखना  
 रेहननामा, बन्धक पत्र  
 मूर्तहिन, बन्धकप्राही



mortgagor	राहिन, बन्धककर्ता
mortuary	लाशघर
mother tongue	मातृभाषा
motion	(i) प्रस्ताव (ii) गति
motion picture	चलचित्र
motion of adjournment	कामरोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव
motion of censure	निन्दा प्रस्ताव
motion of closure	समापन प्रस्ताव
motion of confidence	विश्वास प्रस्ताव
motion of non-confidence	अविश्वास प्रस्ताव
motivate <i>vb.</i>	प्रेरित करना
motivated	प्रेरित
motive <i>n.</i>	प्रेरणा, नीयत, मंशा,
motive power	प्रेरक शक्ति
mould <i>n.</i>	साँचा
<i>vb.</i>	साँचे में ढालना
mounted police	घुड़सवार पुलिस
mounting	वढ़ता हुआ
mounting debt	वढ़ता हुआ ऋण
movable	चल, चलायमान
immovable	अचल, स्थावर
movable property	चल सम्पत्ति
move <i>vb.</i>	आगे बढ़ना, सरकाना, दरखास्त देना, प्रस्ताव रखना, हृदय पर प्रभाव डालना अदालत में दरखास्त देना
move a court	प्रस्ताव रखना
move a motion	गति, गतिविधि, संचलन, आन्दोलन
movement	सविनय अवज्ञा आन्दोलन
civil disobedience movement	असहयोग आन्दोलन
non-co-operation movement	माल का संचलन
movement of goods	चलता-फिरता, चलायमान (ii) कारुणिक
moving	चलता-फिरता पुस्तकालय
moving library	कारुणिक दृश्य
moving sight	बहु
multi	बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं
multi purpose projects	बहुउद्देश्यीय सहकार समिति
multi purpose co-operative society	

multifarious	विविध, विभिन्न प्रकार का
multilateral	बहुपक्षीय
multiple <i>n.</i>	गुणित, अपवर्त्य
<i>adj.</i>	बहु-बहुगुण
multiple tax system	बहुकर प्रणाली
multiplicity	बहुतायस, अधिकता
multiply <i>vb.</i>	गुणा करना, संख्या में बढ़ाना
multitude	जनसमूह
municipal	नगर-सम्बन्धी
municipal area	नगर क्षेत्र
municipal authority	नगर अधिकारी, नगर अधिकरण
municipal board	म्यूनिसिपल बोर्ड, नगर मण्डल
municipal committee	नगर समिति
municipal dispensary	नगर दवाखाना
municipal duty	नगर शुल्क
municipal law	नगर विधि, म्यूनिसिपल कानून
municipal limits	नगर सीमा
municipal rates	नगर उपकर
municipal town	म्यूनिसिपल नगर
municipality	म्यूनिसिपैलिटी, नगरपालिका
munitions	लड़ाई का सामान, युद्ध सामग्री
murder <i>n.</i>	हत्या, कत्ल
<i>vb.</i>	हत्या करना, कत्ल करना
murder appeal	कत्ल की अपील
murder case	कत्ल का मुकदमा
murder charge	हत्या का अभियोग
murderer	हत्यारा, कातिल
museum	संग्रहालय, अजायबघर
muster roll	हाजिरी रजिस्टर
mutation (law)	नामान्तर, दाखिलखारिज
mutation entry	नामान्तर इन्दराज
mutation suit for	नामान्तर के लिए मुकदमा
mutatis mutandis	दाखिलखारिज का मुकदमा
mutilate <i>vb.</i>	आवश्यक परिवर्तनों के नाथ
mutilated cheque	विकृत करना, फाड़ना
mutilated leaves	फटा हुआ चेक
	फटे हुए पन्ने

mutilated ticket	फटा हुआ टिकट
mutilation	विकृति ,
mutiny	सैनिक विद्रोह, फ़ौजी ग़दर
mutual	आपसी, पारस्परिक
mutual agreement	आपसी करार
mutual consent	पारस्परिक सहमति
mutual exchange	पारस्परिक विनिमय
mutual help	पारस्परिक सहायता
mutual help society	पारस्परिक सहायता समिति
mutual security	पारस्परिक सुरक्षा
mutually	आपस में, परस्पर
mysterious	रहस्यमय
mystery	रहस्य .

## N

name <i>n.</i>	नाम, ख्याति
<i>vb.</i>	नाम रखना
bad name	अपयश, कुख्याति
good name	सुयश, सुख्याति
name-board	नामपट्ट, नाम की तख्ती
name-stamp	नाम मुहर
namely	अर्थात्, यानी
narcotic <i>adj.</i>	प्रमीलक
narcotic drug	प्रमीलक दवा
non-nariotic	अप्रमीलक
narrate <i>vb.</i> . .	वयान करना, वर्णन करना
narration	वर्णन
narrative <i>adj.</i>	वर्णनात्मक
narrative report	वर्णनात्मक रिपोर्ट
narrow	तंग, सँकरा, संकीर्ण
narrow escape	बाल-बाल बचना
narrow gauge (Rly)	छोटी लाइन, सँकरी लाइन
narrow-minded	संकीर्ण विचार का, तंगदिल
narrow-mindedness	संकीर्णता, तंगदिली
narrowness	संकीर्णता, तंगदिली
nation	राष्ट्र
national <i>adj.</i>	राष्ट्रीय
national <i>n.</i>	राष्ट्रिक
national character	राष्ट्रीय विशेषता
national emergency.	राष्ट्रीय आपात
national highways	राष्ट्रीय राजपथ
national income	राष्ट्रीय आय
national railways users' consul- tative council	राष्ट्रीय रेल उपयोक्ता सलाहकार परिषद
national self-determination	राष्ट्रीय आत्मनिर्णय
national wealth	राष्ट्रीय सम्पत्ति
national welfare	राष्ट्रीय कल्याण



nationality	राष्ट्रीयता
nationalism	राष्ट्रवाद
nationalist	राष्ट्रवादी
nationalization	राष्ट्रीयकरण करना
nationalization key industries	मुख्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण
nationalization of land	भूमि का राष्ट्रीयकरण
nationalization of transport	परिवहन का राष्ट्रीयकरण
nationalize <i>vb.</i>	राष्ट्रीयकरण करना
nationalized	राष्ट्रीयकृत
nationalized undertaking	राष्ट्रीयकृत उपक्रम
native <i>n.</i>	(i) देशी, (ii) देशज,
<i>adj.</i>	सहज, स्वाभाविक, प्राकृत
nature	प्रकृति, स्वभाव
natural	प्राकृतिक, स्वाभाविक
natural history	प्रकृति विज्ञान
natural resources	प्राकृतिक साधन
natural tendency	स्वाभाविक प्रवृत्ति
naturalize <i>vb.</i>	(i) नागरिक अधिकार प्राप्त करना, देशीकरण
naturalization	देशीकरण
naturalized citizen	देशीकृत नागरिक
nautical	समुद्री
nautical engineering	समुद्री इंजीनियरिंग
nautical engineering college	समुद्री इंजीनियरिंग कालेज
naval	नौसैनिक
naval base	नौसैनिक अड्डा
naval force	नौसेना
naval power	नौसैनिक शक्ति
navigable	नाव चलाने योग्य, जहाज चलाने योग्य
navigate <i>vb.</i>	नाव चलाना, जहाज चलाना, नौचालन करना
navigation	नौपरिवहन, नौचालन, जहाजरानी
navigator	नाविक
navy	नौसेना
necessarily	आवश्यक रूप से, अनिवार्यतः
necessitate <i>vb.</i>	आवश्यक बनाना, अनिवार्य करना
necessary	आवश्यक, जरूरी
necessary qualifications	आवश्यक अर्हताएँ

necessity	आवश्यकता, जरूरत
need <i>n.</i>	आवश्यकता, जरूरत
<i>vb.</i>	आवश्यक होना, जरूरी होना
needful	आवश्यक, अपेक्षित
do the needful	आवश्यक कार्यवाही करना, जरूरी कार्रवाई करना
needy	अभावग्रस्त, मोहताज
nefarious	नीच, पतित, निकृष्ट
nefariousness	नीचता, पतन
negation	नकार
negative <i>n.</i>	नकारात्मक
<i>vb.</i>	निषेध करना
negative attribute	नकारात्मक गुण
neglect <i>n.</i>	उपेक्षा, लापरवाही
<i>vb.</i>	उपेक्षा करना
neglect of duty	कर्त्तव्य के प्रति उपेक्षा
negligence	उपेक्षा, लापरवाही
negligent	लापरवाह
negligent and reckless	लापरवाह और प्रमादी, लापरवाही और प्रमाद से भरा हुआ
negligently	लापरवाही से
negligible	नगण्य, उपेक्षणीय
negotiate <i>vb.</i>	समझौते की बातचीत करना, परक्रामण करना
negotiable	परक्राम्य
negotiable bond	परक्राम्य बंध
non-negotiable bond	अपरक्राम्य बंध
negotiable instruments Act	परक्राम्य विलेख अधिनियम
negotiating machinery	वार्तातंत्र
negotiation	वार्ता, बातचीत
negotiator	मध्यस्थ, विचौलिया
nepotism	भाईचारावाद, भाई-भतीजावाद
nerve	स्नायु
nervous	(i) स्नायु-नम्बन्वी (ii) अधीर
nervous system	(i) स्नायु प्रणाली,
nervous disease	स्नायु रोग
nervousness	अधीरता, घबराहट

net <i>n.</i>	जाल
<i>adj.</i>	असल, शुद्ध, वास्तविक
net addition	वास्तविक वृद्धि
net assets	वास्तविक परिसम्पत्तियाँ
net earning	वास्तविक कमाई
net income	वास्तविक आय
net profit	वास्तविक लाभ, शुद्ध लाभ
net revenue receipt	शुद्ध राजस्व प्राप्ति
neutral <i>adj.</i>	तटस्थ
neutral country	तटस्थ देश
neutrality	तटस्थता
neutrality treaty	तटस्थता संधि
neutralize <i>vb.</i>	निष्प्रभाव करना, निराकरण करना
new construction	नव निर्माण
new works	नये काम
news agency	समाचार एजेंसी, समाचार अभिकरण
newsprint	अखबारी कागज
news reel	समाचार दर्शन
night duty	रात की ड्यूटी
night duty patrol	रात की गश्त
night duty squad	रात ड्यूटी दस्ता
night watch	रात का पहरा
no demand certificate	वेवाकी प्रमाणपत्र
no objection certificate	अनापत्ति प्रमाणपत्र
noble	श्रेष्ठ, महान
noble-minded	उच्च विचार का
nobility	कुलीनता, श्रेष्ठता
nobility of character	चरित्र की श्रेष्ठता
nomenclature	नामपद्धति
nominal	नाममात्र का, वरायनाम
nominal head	नाममात्र का प्रधान
nominal roll	नामावली
nominal value (face value)	अंकित मूल्य
nominate <i>vb.</i>	नामजद करना, मनोनयन करना
nominated	नामजद, मनोनीत
nomination	नामजदगी, मनोनयन
nomination papers	नामजदगी का पर्चा, मनोनयन पत्र

ominee	नामज्जद व्यक्ति, मनोनीत व्यक्ति
on-acceptance	अस्वीकृति
on-appearance	अनुपस्थिति, गैरहाजिरी
on-belligerent	युद्धविरत
on-cognizable	अप्रसंज्ञेय
on-cognizable offence	अप्रसंज्ञेय अपराध
on-combatant	असामरिक, असैनिक
on-committal	अवचनवद्धता
on-compliance	अननुपालन, पालन न करना
ion-co-operation	असहयोग
ion-co-operation movement	असहयोग आन्दोलन
ion-feasance (legal)	अकरण
ion-ferrous	अलौह
ion-ferrous metal	अलौह धातु
ion-gazetted	अराजपत्रित
ion-intervention	अहस्तक्षेप
ion-judicial	गैर अदालती
ion-occupancy tenant	गैर दखीलकार किसान
ion-official	गैर सरकारी
ion-official bill	गैर सरकारी विधेयक
ion-official day	गैर सरकारी दिन
ion-payment	अभुगतान, अशोधन, न चुकाना
ion-plus	निरुत्तर करना
ion-plused	निरुत्तर
ion-recurring	अनावर्ती
ion-recurring expenditure	अनावर्ती व्यय
ion-residential	निवासेतर, गैर रिहाइशी
nonsense	अनर्गल
non-transferable	अपरदेय
non-transference	अपरदेयता
non-vegetarian	(i) सामिपभोजी (ii) सामिप
non-votable	अमतदेय
non-votable item	अमतदेय मद
normal	सामान्य
normal position	सामान्य स्थिति
normalcy	सामान्यता, सामान्य स्थिति
normality	सामान्यता, सामान्य स्थिति

normally	सामान्यतः
notable	उल्लेखनीय
noteworthy	उल्लेखनीय
notary public	लेख प्रमाणक
note <i>n.</i>	नोट
<i>vb.</i>	ध्यान देना, अवगत होना, नोट करना
notes and orders	टिप्पणी और आदेश
note of dissent	विमति-पत्र
noted	नामवर, प्रसिद्ध, लब्धप्रतिष्ठ
notice <i>n.</i>	नोटिस, सूचना
<i>vb.</i>	देखना, ध्यान देना
notice board	सूचना-पट्ट
notice office	नोटिस कार्यालय
notice of ejection	वेदखली का नोटिस
notice of suits	मुकदमों का नोटिस
notice in writing	लिखित नोटिस
notification	अधिसूचना
notified	अधिसूचित
notified area	अधिसूचित क्षेत्र
notify <i>vb.</i>	अधिसूचित करना
notion	धारणा
wrong notion	गलत धारणा
notoriety	कुख्याति
notorious	कुख्यात
notwithstanding anything	किसी बात के होते हुए भी, वावजूद
notwithstanding anything to the contrary	इसके कि किसी बात के अन्यथा होते हुए भी
nourish <i>vb.</i>	पालना, पोषण करना
nourishing	पोषक
nourishment	पोषक आहार, पोषण
novel <i>adj.</i>	नूतन
<i>n.</i>	उपन्यास
novelty	नवीनता, नूतनता
nucleus	केन्द्र
nuisance	कण्टक, उत्पात, बला, अपचार
public nuisance	सार्वजनिक उत्पात, सार्वजनिक अपचार

null and void	रद्द
nullification	मंसूखी
nullify <i>vb.</i>	रद्द करना, मंसूख करना
number <i>n.</i>	नम्बर, अंक, संख्या, तादाद
<i>vb.</i>	गिनना
numbered	क्रमांकित
annual number	वार्षिक अंक
letter number	पत्र संख्या
numerals	अंक
numerical	संख्यावाचक
numerically	गिनती में , संख्या में
numerous	अनेक, बहुत
nurse	नर्स
nursery	पौधशाला, गुटिशाला (वं०)
nursery school	शिशुपाठशाला, बच्चों का स्कूल
nursing	उपचार, उपचारण
nursing home	उपचार गृह
in a nutshell	संक्षेप में
nurture <i>vb.</i>	(i) पालन-पोषण करना (ii) संजोना
nutrient	पोषक
nutrition	पौष्टिक आहार
nutritious	पौष्टिक
nutritive	"

oath <i>n.</i>	शपथ, हलफ़
oath of allegiance	निष्ठा-शपथ, वफ़ादारी का शपथ
to administer oath	शपथ दिलाना
to take oath	शपथ लेना
oath of office and secrecy	पद और गोपनीयता का शपथ
evidence on oath	शपथ पर दी हुई शहादत, वयान हल्फिया
obduracy	हठ, दुराग्रह
obdurate	हठी, दुराग्रही
obedience	आज्ञा पालन
obedience to law	कानून का पालन
obedient	आज्ञाकारी
obediently yours	आपका आज्ञाकारी, भवदीय आज्ञाकारी
obey <i>vb.</i>	आज्ञा पालन करना, कहना मानना
obituary	मृत्यु समाचार
object <i>n.</i>	(i) वस्तु पदार्थ (ii) उद्देश्य, प्रयोजन
<i>vb.</i>	आपत्ति करना, एतराज करना
objection	आपत्ति, एतराज, उज्रदारी
objectionable	आपत्तिजनक, एतराज के काविल
objective <i>n.</i>	उद्देश्य, लक्ष्य
<i>vb.</i>	(i) मूर्त (ii) वास्तविक, वस्तुपरक
objectives resolution	उद्देश्य प्रस्ताव
objectively	वास्तविक रूप से
objectivity	वास्तविकता, वस्तुपरकता
objector	आपत्तिकर्ता
obligate <i>vb.</i>	आभारी बनाना, वाध्य करना
obligation	(i) आभार (ii) बन्धन
obligations and liabilities	आभार और दायिताएं
under obligation	आभारी
obligatory	वाध्यकर
oblige <i>vb.</i>	अनुग्रह करना

oblige <i>vb.</i>	(i) अनुगृहीत करना (ii) बाध्य करना, मजबूर करना,
obliging	अनुग्रहशील
obliterate <i>vb.</i>	मिटाना, लोप करना
oblivion	भुलाए जाने की स्थिति, विस्मृति
oblivious	अचेत, विस्मारक
obnoxious	(i) अप्रिय (ii) अनिष्टकर
obscene	अश्लील
obscene literature	अश्लील साहित्य
obscenity	अश्लीलता
obscure	(i) दुल्ह, दुर्बोध (ii) अज्ञात, अंधकारमय
obscurity	(i) दुल्हता, दुर्बोधता (ii) अंधकार
obsequies	अन्त्येष्टि, (मरणोत्तर) क्रिया-कर्म
observance	पालन
observance of rules	नियमों का पालन
observation	(i) पालन (ii) अवेक्षण (iii) विचार
observatory	वेधशाला
observe <i>vb.</i>	देखना, पालन करना, अवेक्षण करना
observer	अवेक्षक
obsess <i>vb.</i>	मनोग्रस्तहोना, मनोग्रस्तकरना, अभिमूतहोना
obsessed	मनोग्रस्त, अभिमूत
obsession	मनोग्रस्तता
obsolete	अप्रचलित, गतप्रयोग
obstacle	बाधा
obstinate	हठी, दुराग्रही, जिद्दी
obstinacy	हठ, दुराग्रह, जिद
obstruct <i>vb.</i>	रोकना, बाधा डालना
obstruction	रुकावट, बाधा
obstructive	बाधक
obtain <i>vb.</i>	पाना, प्राप्त करना, प्रचलित होना
obviate <i>vb.</i>	हटाना, निराकरण करना
obvious	स्पष्ट, जाहिर, प्रकट
obviously	स्पष्टतः, जाहिरा तौरपर
occasion <i>n.</i>	अवसर, उपलक्ष, कारण
<i>vb.</i>	कारण बनना
occasional	कभी-कभी घटित होने वाला, कदाचरमिक



occasionally	कमी-कमी
occupancy	अधिमोग, दखीलकारी
occupancy right	अधिमोग अधिकार, दखीलकारी अधिकार
occupancy tenant	अधिमोगी किसान, दखीलकार किसान
occupant	काविज, अधिमोगी
occupation	(i) कच्चा (ii) पेशा, व्यवसाय, आजीविका
occupier	काविज, अधिमोगी
occupy <i>vb.</i>	कच्चा करना, अधिमोग करना
occur <i>vb.</i>	होना, घटित होना
occurrence	घटना
common occurrence	साधारण घटना
place of occurrence	घटना स्थल
report of occurrence	घटना की रिपोर्ट
octroi	चुंगी
octroi duty	चुंगीकर
offence	अपराध, कसूर, कुकर्म, आक्रमण, धिन
offenceless	निरपराध, बेकसूर
offend <i>vb.</i>	(i) अपराध करना (ii) रुष्ट करना
offend against	उल्लंघन करना
feel offended	रुष्ट होना
offender	अपराधी, कसूरदार
offensive <i>n.</i>	आक्रमण
<i>adj.</i>	(i) घिनौना (ii) आक्षेप्य, (iii)
offensive action	आक्रामक, घातक
offensive goods	आक्रामक कार्रवाई
offensive weapon	घिनौना माल
offer <i>n.</i>	घातक हथियार
<i>vb.</i>	प्रस्ताव, अर्पण
offering	प्रस्ताव करना, अर्पण करना
office	मट, अर्घ्य
(i) post (ii) function	पद, कार्य, कर्तव्य, कार्यालय । दफ्तर
(iii) duty (iv) place of duty	
office assistant	कार्यालय सहायक
office copy	कार्यालय प्रति
office routine	कार्यालय का नित्यकर्म

office of profit	लाभ का पद
officer	अफसर
officer in-charge	इंचार्ज अफसर, कार्यभारी अफसर
officer on special duty	विशेष कार्य अफसर
official n.	कर्मचारी, अह्लकार
adj.	सरकारी, शासकीय, आधिकारिक
official duty	सरकारी काम
official residence	सरकारी निवास
official tour	सरकारी दौरा
officially (in an official manner)	आधिकारिक रूप से
officiate vb.	कार्यवहन करना
officiating	कार्यवाहक
officiating allowance	कार्यवहन भत्ता
officious	अनधिकार हस्तक्षेप करने वाला, अनधिकारपूर्ण
officiousness	अनधिकार हस्तक्षेप
old-age pension	वृद्धापे की पेंशन
old fashioned	पुराने ढंग का
old hand	अनुभवी व्यक्ति
ominous	अपशकुनसूचक
omission (leaving out, failure, neglect)	(i) चूक (ii) अकृत, न करना
error or omission	भूल या चूक
commission and omission	कृत और अकृत
omit vb.	(i) छोड़ देना, लोप करना (ii) चूक जाना
onerous	कठिन, कष्टसाध्य
onerous burden	कठिन कार्य
onesided	एक पक्षीय, एकतरफा
onus of proof	प्रमाण-भार, साबित करने का भार
open adj.	खुला
open competition	खुला मुकाबला
open discussion	खुला वाद-विवाद
open session	खुला अधिवेशन
open-minded	पक्षपात रहित
keep an open mind	पक्षपात रहित होना
open an account	खाता खोलना
open a debate	वहस शुरू करना, वाद-विवाद आरंभ करना

open fire	गोली चलाना
opening	उद्घाटन, अवसर
opening ceremony	उद्घाटन ममारोह
operate <i>vb.</i>	(i) चलाना, परिचालन करना (ii) आपरेशन करना (चीड़ना) (iii) लागू होना, प्रवर्तित होना
operating cost	परिचालन लागत
operation	(i) आपरेशन (ii) परिचालन (iii) प्रवर्तन
operational	परिचालन-सम्बन्धी
operational restrictions	परिचालन-सम्बन्धी पावन्दियाँ
operative	प्रवर्ती
operator	चालक
telephone operator	टेलीफोन चालक
wireless operator	वेतार चालक
opinion	राय, मत
difference of opinion	मतभेद
opinionated	हठी, जिद्दी, अड़ियल
opportune	समयोचित, अवसरपरक
opportunist	अवसरवादी
opportunity	अवसर
equality of opportunity	अवसर की समानता
oppose <i>vb.</i>	विरोध करना
opposite	(i) विरोधी (ii) सामने
opposition	(i) विरोध (ii) प्रतिपक्ष
oppress <i>vb.</i>	सताना, उत्पीडन करना
oppressive	उत्पीडक
opt <i>vb.</i>	विकल्प देना
optimism	आशावादिता
optimist	आशावादी
optimistic	आशावादी
option	विकल्प
optional	वैकल्पिक
optional subject	वैकल्पिक विषय
oral	जवानी, मौखिक
oral evidence	जवानी गवाहदत

documentary evidence	दस्तावेज़ी शहादत
order <i>n.</i>	आदेश, क्रम, व्यवस्था, प्रकार
<i>vb.</i>	आदेश देना
government order	सरकारी आदेश
order of merit	योग्यता क्रम
in order	क्रम में, व्यवस्थित
in order that	ताकि, इसलिए कि
in order to	के लिये, के अभिप्राय से
out of order	बिगड़ा हुआ, अव्यवस्थित
order book	आदेश-पुस्तक
order cheque	आदेश चेक
orderly (methodical) <i>adj.</i>	संयत, व्यवस्थित
<i>n.</i>	अर्दली
orderly conduct	संयत आचरण
orderliness	सुव्यवस्था
ordinance	फरमान, अध्यादेश
ordnance	सैनिक सामग्री, आयुध
ordnance factory	आयुध कारखाना
ordinarily	साधारणतः
organize <i>vb.</i>	संगठन करना, संगठित करना
organized	संगठित
organization	संगठन, संस्था
organizational	संगठन-सम्बन्धी
orient or orientate <i>vb.</i>	अनुस्थापन करना
oriental	पूर्वदेशीय, प्राच्य
orientalist	प्राच्य भाषाविद्
orientation <i>n.</i>	अनुस्थापन
origin	उत्पत्ति, आरंभ
original	मूल, मौलिक, प्रारम्भिक
original copy	मूल-प्रति
original jurisdiction	मौलिक क्षेत्राधिकार
originality	मौलिकता
originally	आरम्भ में, शुरु में
originate <i>vb.</i>	आरम्भ होना, शुरु होना
orphan	अनाथ
orphanage	अनाथालय

orthodox	हृद्दिवादी, हृद्दिनिष्ठ, पुराने विचार या दंग का
orthodox residential accommo- dation	पुराने दंग का निवासस्थान
unorthodox	अहृद्दिवादी, नये विचार या दंग का
otherwise	नहीं तो, अन्यथा
outcome	नतीजा, फल, परिणाम
outdoor	वाहरी, बाह्य, मैदानी
outdoor department	बाह्य विभाग
outdoor game	मैदानी खेल
indoor game	भीतरी खेल
outdoor patient	बाह्य रोगी
indoor patient	भरती रोगी
outgoing	निर्गामी
outfit	परिधान
outfit allowance	परिधान भत्ता
out house	नौकर-वासा
outlaw (deprived of legal bene- fit).	विधिवहिष्कृत
to be declared an outlaw	विधिवहिष्कृत घोषित होना
outlay	परिव्यय
outlet	निकास
outline <i>n.</i>	रूप-रेखा
<i>vb.</i>	रूप-रेखा बताना
<i>adj.</i>	संक्षिप्त
outline map	संक्षिप्त मानचित्र
outlying	दूरस्थ, दूर स्थित
output—outturn	उत्पादन
outrage <i>n.</i>	(i) अनाचार (ii) बलात्कार (iii) अपमान
<i>vb.</i>	(i) अनाचार करना (ii) बलात्कार करना (iii) अपमानित करना
outrageous	अनाचारपूर्ण
outright <i>adv.</i>	अनाचारपूर्ण, अनैतिक
outspoken	निरा, नितान्त, पूर्णरूप से स्पष्ट
outspoken statement	स्पष्ट करना
outstand	वाकी रहना

outstanding	(i) विशिष्ट (ii) बाकी शेष
outstanding merit	विशिष्ट योग्यता
out station	बाहरी स्टेशन
out station rest	बाहरी स्टेशन पर आराम
over and above	इसके अलावा, इसके अतिरिक्त
over charge n.	अधिप्रभार
vb.	अधिप्रभार लेना
overcharged	अधिप्रभारित
over come vb.	काबू पाना, पराजित करना, पार पाना
adj.	पराजित, अभिभूत
over-draft	बैंक में जमा रकम से अधिक की हुण्डी
over-draw vb.	बैंक में जमा रकम से अधिक रकम निकालना
over-haul vb.	पुनर्कल्प करना
overhauling	पुनर्कल्पन
overhead charge	ऊपरी खर्च
overlap vb.	अतिव्याप्त होना, ढकलेना
overlapping	अतिव्याप्ति
overleaf	दूसरे सफ़े पर
overlook vb.	उपेक्षा करना, ध्यान न देना
overpower vb.	काबू में करना, हावी होना, पराजित करना
over-populated	अत्यधिक घना वसा हुआ
over population	अत्यधिक घनी आवादी
override vb.	चढ़ आना, अभिभूत करना
overrule vb.	विपरीत आदेश देना, प्रत्यादेश देना
overseas	समुद्रपार
over seas allowances	समुद्रपार भत्ता
over-time	ममयोपरि
overturn vb.	उलट देना, पराजित करना
overweight	अधिक भार
overwhelm vb.	हावी होना, अभिभूत करना
overwhelmed	पराजित, अभिभूत
overwhelming	अदम्य, प्रचुर
overwhelming evidence	प्रचुर प्रमाण
overwhelming majority	भागी बहुमत
overwork n.	अतिश्रम
vb.	अतिश्रम करना

overwrite	(i) लिखने के ऊपर लिखना, उपरिलेखन (ii) बहुत अधिक लिखना, अतिलेखन
overwriting	(i) उपरिलेखन (ii) अतिलेखन
own <i>adj.</i>	अपना, निजी, सगा
<i>vb.</i>	मान लेना, स्वीकार करना
own up to it	(अपराध) स्वीकार
owner	स्वामी, मालिक
house owner	मकान मालिक
ownership	स्वामित्व, मालिकाना
joint ownership	अविभक्त स्वामित्व
right of ownership	स्वामित्व अधिकार, हकमालिकाना (उर्दू)

‘P’

pace	.कदम, पग
to keep pace with	साथ साथ चलना, बराबर चलना
pacific	शान्त, प्रशान्त
pacifically	शान्तिपूर्वक
pacification	शान्तिकरण
pacificatory	शान्तिकारी
pacifism	शान्तिवाद
pacifist	शान्तिवादी
pacify <i>vb.</i>	शान्त करना,
pack <i>vb.</i>	वेठन बाँधना
packing charges	वेठन प्रभार
pact	समझौता
pact commercial	व्यापारिक समझौता
pact—military	सैनिक समझौता
pact—non-aggression	अनाक्रमण समझौता
paid	(i) दत्त, भुगताया हुआ (ii) वैतनिक
paid up capital	भुगताई हुई पूंजी
pain <i>n.</i>	(i) पीड़ा, दर्द (ii) दण्ड
<i>vb.</i>	क्लेश पहुँचाना, दर्द करना, दुखना
pains	परिश्रम, मेहनत
painful	दुःखदायी
painstaking	परिश्रमी, मेहनती
palatable	रुचिकर, स्वादिष्ट
palliate <i>vb.</i>	उपशमन करना
palliation	उपशमन
palliative	उपशामक
palpable	प्रतीयमान
palpably	प्रतीयमान रूप से
pamphlet	पुस्तिका
panacea	सर्वबीपधि, रामबाण
pandemonium	कोलाहल, गड़बड़



panel	}	नामिका
panel of names		आतंक
panic		आतंकित
panicky		कागज़
paper		विचाराधीन कागज़
paper under consideration		कागज़ी सिक्का
paper currency		कागज़
papers		सम, समान
par		अधिक मूल्य पर
above par		सममूल्य पर
at par		कम मूल्य पर । घाटे पर
below par		हवाई छतरी
parachute		परेड
parade <i>n.</i>		(i) परेड करना (ii) प्रदर्शन करना
<i>vb.</i>		परेड मैदान
parade ground		विरोधाभास
paradox		विरोधाभासी
paradoxical		पैरा
paragraph		समानान्तर
parallel		समानान्तर संगठन
parallel organisation		लकवा, मारना, निकम्मा करना, पंगु करना,
paralyse <i>vb.</i>		ठप करना
paralysed		पंगु
paralysis		लकवा
paralytic		लकवा रोगी
paramount		सार्वभौम
paramount power		सार्वभौम शक्ति
paramountcy		सार्वभौमिकता
parasite		परजीवी
pardon <i>n.</i>		क्षमा, माफ़ी
<i>vb.</i>		क्षमा करना, माफ़ करना
pardonable		क्षम्य, माफ़ करने योग्य
parent		पिता, मूल
parent office		मूल कार्यालय
parent organization		मूल संगठन
parents		माता-पिता


parentage (lineage)	वंश-उत्पत्ति
parental	माता-पिता सम्बन्धी
parity	बराबरी, समता, साम्य
parlance	बोलचाल
parley	वार्तालाप
parliament	संसद्
parliamentarian	सांसद्
parliamentary	संसदीय
parliamentary debates	संसदीय वाद-विवाद
parliamentary democracy	संसदीय गणतंत्र
parliamentary practice	संसदीय प्रथा
parliamentary procedure	संसदीय प्रक्रिया
parliamentary system of government	शासन की संसदीय प्रणाली
parole	अभिवचन
release on parole	अभिवचन पर रिहाई
parry the question	सवाल को टाल जाना
parsimony	कंजूसी
parsimonious	कंजूस
part n.	भाग, हिस्सा, अंश
adj.	आंशिक
vb.	अलग करना, अलग होना
part payment	आंशिक भुगतान
part-time	अंशकालिक
part-time employment	अंशकालिक
part-time servant	अंशकालिक नौकर
parting	अलग होना, अलगाव
partial	(i) पक्षपातपूर्ण (ii) आंशिक
partiality	पक्षपात, तरफदारी
partible	विभाज्य
participate vb.	भाग लेना, सम्मिलित होना
participant	भागी, सहभागी
participation	भाग लेना, शिरकत
particular	विशेष, नाम
particulars	तफ़्तील
in particular	विशेष रूप से, ख़ासतौर पर
particularity	विशेषता, ख़ासियत

panel	}	नामिका
panel of names		आतंक
panic		आतंकित
panicky		कागज़
paper		विचाराधीन कागज़
paper under consideration		कागज़ी सिक्का
paper currency		कागज़
papers		सम, समान
par		अधिक मूल्य पर
above par		सममूल्य पर
at par		कम मूल्य पर । घाटे पर
below par		हवाई छतरी
parachute		परेड
parade <i>n.</i>		(i) परेड करना (ii) प्रदर्शन करना
<i>vb.</i>		परेड मैदान
parade ground		विरोधाभास
paradox		विरोधाभासी
paradoxical		पैरा
paragraph		समानान्तर
parallel		समानान्तर संगठन
parallel organisation		लकवा, मारना, निकम्मा करना, पंगु करना,
paralyse <i>vb.</i>		ठप करना
		पंगु
paralysed		लकवा
paralysis		लकवा रोगी
paralytic		सार्वभौम
paramount		सार्वभौम व्यक्ति
paramount power		सार्वभौमिकता
paramountcy		परजीवी
parasite		धमा, माफ़ी
pardon <i>n.</i>		धमा करना, माफ़ करना
<i>vb.</i>		धम्य, माफ़ करने योग्य
pardonable		पिता, मूल
parent		मूल कार्यालय
parent office		मूल संगठन
parent organization		माता-पिता
parents		

parentage (lineage)	वंश-उत्पत्ति
parental	माता-पिता सम्बन्धी
parity	बराबरी, समता, साम्य
parlance	बोलचाल
parley	वार्तालाप
parliament	संसद्
parliamentarian	सांसद्
parliamentary	संसदीय
parliamentary debates	संसदीय वाद-विवाद
parliamentary democracy	संसदीय गणतंत्र
parliamentary practice	संसदीय प्रथा
parliamentary procedure	संसदीय प्रक्रिया
parliamentary system of government	शासन की संसदीय प्रणाली
parole	अभिवचन
release on parole	अभिवचन पर रिहाई
parry the question	सवाल को टाल जाना
parsimony	कंजूसी
parsimonious	कंजूस
part n.	भाग, हिस्सा, अंश
adj.	आंशिक
vb.	अलग करना, अलग होना
part payment	आंशिक भुगतान
part-time	अंशकालिक
part-time employment	अंशकालिक
part-time servant	अंशकालिक नौकर
parting	अलग होना, अलगाव
partial	(i) पक्षपातपूर्ण (ii) आंशिक
partiality	पक्षपात, तरफ़दारी
partible	विभाज्य
participate vb.	भाग लेना, सम्मिलित होना
participant	भागी, सहभागी
participation	भाग लेना, शिरकत
particular	विशेष, खान
particulars	तफ़्तील
in particular	विशेष रूप में, खानतौर पर
particularity	विशेषता, खासियत

particularization	विशेषण
particularize <i>vb.</i>	निदिष्ट करना
particularly	विशेष रूप से, खास तौर पर
partisan	साझीदार, पक्षपातपूर्ण
partisanship	साझा, पक्षपात
partition <i>n.</i>	विभाजन, बँटवारा
<i>vb.</i>	विभाजन करना, बँटवारा करना
partition secretariat	विभाजन सचिवालय
partly	अंशतः
partner	(i) साझीदार (ii) 'साथी
partnership	साझा
party	दल, पक्ष
party discipline	दलीय अनुशासन
party government	दलगत शासन
party spirit	दलगत भावना
pass <i>n.</i>	पास, प्रवेशपत्र
<i>vb.</i>	पास होना, पास करना, गुजरना उत्तीर्ण होना
pass away	मर जाना
pass over	निगाह से छूट जाना
pass through	से होकर जाना, से गुजरना
pass (attainment of a standard in an examination)	पास होना, सफलता, नाजुक हालत
pass book	पासबुक
passage	मार्ग, यात्रा, यात्रा करने का स्थान
right of passage	मार्ग अधिकार
passenger	यात्री, मुसाफिर
passenger amenities	यात्री सुख-साधन
passenger earning	यात्री यातायात से आमदनी
passenger train	सवारी गाड़ी
passenger train miles	सवारी गाड़ी मील
passion	रोष, राग, जोश
passive	रागहीन
passive debt	निष्क्रिय, निश्चेष्ट
passive resistance	बिना सूद का ऋण
passively	निष्क्रिय रूप से
pass-port	पासपोर्ट, पार-पत्र

past	वीता हुआ, पहले का
pasturage	चरागाह
pasture	चरागाह
patent	पेटेन्ट, एकस्व
patent medicine	पेटेन्ट दवा
patent system	पेटेन्ट प्रणाली
patents and designs	पेटेन्ट और खाक
letter patent	पेटेन्ट पत्र
pathetic	करुण, करुणापूर्ण
pathology	निदान
patience	धैर्य, सन्न
patient <i>n.</i>	मरीज, रोगी
<i>adj.</i>	धीर, सहनशील
patiently	धीरज के साथ, धैर्यपूर्वक
patriarch	आदिपुरुष, पुरखा
patriarchal society	पितृप्रधान समाज
patricide	पितृवध, पितृहत्या
patrimonial	पैतृक
patrimony	वपौती, पितृदाय
patriot	देशभक्त
patriotic	देशभक्तिपूर्ण
patriotism	देशभक्ति
patrol <i>n.</i>	गश्त, पहरेदार
<i>vb.</i>	गश्त लगाना, पहरा देना
patron	संरक्षक
patronage	संरक्षण
patronize <i>vb.</i>	संरक्षण देना, प्रश्रय देना
pattern	नमूना, प्रतिमान
paucity	न्यूनता, कमी
paucity of funds	रकम की कमी
pauper	कंगाल
pauper suit	कंगालवाद
pave the way	मार्ग प्रशस्त करना
pawn <i>n.</i>	गिरवी
<i>vb.</i>	गिरवी रखना



pay	वेतन
dearness pay	महँगाई वेतन
joining time pay	योगकाल वेतन
officiating pay	कार्यवाहक वेतन
personal pay	वैयक्तिक वेतन
presumptive pay	संभावी वेतन
special pay	विशेष वेतन
substantive pay	मूल वेतन
pay advance	वेतन अग्रिम
pay bill	वेतन पत्र
pay clerk	वेतन क्लर्क
pay day	वेतन दिवस
pay office	वेतन कार्यालय
pay receipt	वेतन रसीद
pay sheet	वेतन पर्ची
pay order	वेतन आदेश
pay scale	वेतन-मान
pay and allowances	वेतन और भत्ते
payable	देय
payee	पाने वाला
payees receipt	पाने वाले की रसीद
payment	देनगी
payment in cash	नकद देनगी
payment in kind	वस्तु के रूप में देनगी, जिन्स में देनगी
payment position	देनगी की स्थिति
payment voucher	देनगी वाउचर
peace	शान्ति
peace and tranquillity	शान्ति और व्यवस्था
peaceful	शान्त
peacefully	शान्तिपूर्वक
peace—public	सार्वजनिक शान्ति
peasant	किसान
peasantry	किसान-वर्ग
peculiar	(i) विचित्र (ii) व्यक्तिगत
peculiarity	विचित्रता
pecuniary	आर्थिक
pecuniary liability	आर्थिक दायिता

pedagogical institute	शिक्षण संस्थान
pedagogue	शिक्षणविद्
pedagogy	शिक्षाशास्त्र
pedigree	(i) वंशावली, कुर्सीनामा (ii) अच्छी नस्ल का
penal	दण्ड-सम्बन्धी
penal clause	दण्ड-सम्बन्धी धारा
penal code	दण्ड संहिता
Indian penal code	भारतीय दण्ड संहिता
penal law	दण्ड विधि, दण्ड कानून
penal servitude	सख्त कैद
penal settlement	अपराधियों की वस्ती
penalize <i>vb.</i>	दण्ड देना
penalty	दण्ड, जुर्माना
pendency	दौरान
during the pendency of the case	मुकदमे, मामले के दौरान
pending <i>adj.</i>	विचाराधीन
pending ( <i>adv.</i> )	तक, पर्यन्त
pending approval	अनुमोदन मिलने तक, अनुमोदन पर्यन्त
pending case	विचाराधीन मामला
pending reference	विचाराधीन संदर्भ
penitence	पछतावा, पश्चात्ताप
penitent	पश्चात्तापी
penological	दण्डशास्त्र-सम्बन्धी
penologist	दण्डशास्त्रविद्
penology	दण्डशास्त्र
pension	पेंशन
pension manual	पेंशन नियमावली
pensionable	पेंशनीय
pensioner	पेंशनभोगी
pensionery	पेंशन-सम्बन्धी
pensionery charges	पेंशन प्रभार
peon	चपरासी
peon-book	पत्रवाह पंजी
per	(i) प्रति । फ़ी (ii) द्वारा (iii) के अनुसार
as per instructions	हिदायतों के अनुसार



per annum	प्रति वर्ष
per bearer	वाहक द्वारा
per capita	प्रति व्यक्ति
per cent	प्रतिशत, फीसदी
percentage	प्रतिशतक, फीसदी
perception	अनुभूति
per day	प्रतिदिन
per force	बलात्, जबरन
per mensem	प्रतिमास
per se	आपसी, पारस्परिक
perennial	सतत, चिरस्थायी
peremptory	अलंब्य
perfect <i>adj.</i>	पूर्ण
perfection	पूर्णता
perfectly	पूर्ण रूप से
perfidy	विश्वासघात
perform <i>vb.</i>	पालन करना, करना
perform a ceremony	अनुष्ठान करना
perform one's duty	अपने कर्तव्य का पालन करना
performance	(i) पालन (ii) कार्य
perfunctory	उत्साहहीन
peril	खतरा, संकट
perilous	खतरनाक, संकट
period	अवधि
periodic	आवधिक, समय-समय पर
periodical <i>adj.</i>	आवधिक
	<i>n.</i>
periodical inspection	पत्रिका
periodical over-hall	आवधिक निरीक्षण
periodical report	आवधिक पुनर्कल्प
periodical review	आवधिक रिपोर्ट
perish <i>vb.</i>	आवधिक समीक्षा
	(i) नाश होना (ii) जल्द नष्ट होना
perishable	जल्द विगड़ना
perjure <i>vb.</i>	(i) नाशमान (ii) जल्द विगड़ने वाली
	चीज
perjury	झूठी गवाही देना, झूठी शपथ लेना
	झूठी गवाही, झूठी शपथ

permanence	स्थायित्व
permanent	स्थायी
permanent establishment	स्थायी सिव्वन्दी
permanent foundation	स्थायी नींव
permanent post	स्थायी पद
permanent residences	स्थायी निवास
permanently	स्थायी रूप से
permissible	अनुमेय
permissible errors	अनुमेय भूल
permissible speed	अनुमेय रफतार
permission	अनुमति
permissive	अनुमेय
permit <i>n.</i>	परमित
<i>vb.</i>	अनुमति देना, होने देना
pernicious	हानिकर
pernicious doctrine	हानिकर सिद्धान्त
pernicious drug	हानिकर औषधि
perpetrate <i>vb.</i>	नृशंस कार्य करना
perpetrator	नृशंस व्यक्ति
perpetual	सतत, शाश्वत, स्थायी
perpetual lease	स्थायी पट्टा
perpetuate <i>vb.</i>	स्थायी बनाना
perpetuity	स्थायित्व, शाश्वतता, सातत्य
perplex <i>vb.</i>	घबराना, व्यग्र होना
perplexing	घबरा देने या व्यग्र करने वाला
persecute <i>vb.</i>	सताना, उत्पीड़न करना, जुल्म करना
persecution	उत्पीड़न, जुल्म
perseverance	अध्यवसाय, सतत उद्यम
persevere <i>vb.</i>	अध्यवसाय में लगा रहना, सतत उद्यम करना
persist <i>vb.</i> (continue obstinately)	आग्रह करना, साग्रह स्थिर रहना
persistence	आग्रह, स्वैयं
persistent	आग्रहपूर्ण, स्थायी
person	(i) व्यक्ति, (ii) शरीर
persona grata	मान्य व्यक्ति
persona non-grata	अमान्य व्यक्ति

personal	(i) व्यक्तिगत, वैयक्तिक, निजी (ii) शारीरिक
personal allowance	वैयक्तिक भत्ता
personal assistant	वैयक्तिक सहायक
personal bail	वैयक्तिक जमानत
personal bond	वैयक्तिक बन्ध
personal character	वैयक्तिक चरित्र
personal claim	वैयक्तिक दावा
personal injury	शारीरिक चोट
personal law	वैयक्तिक कानून
personal luggage	निजी सामान
personal pay	वैयक्तिक वेतन
personal responsibility	वैयक्तिक उत्तरदायित्व
personal staff	वैयक्तिक कर्मचारी
personal surety	मुचलका
personality	व्यक्तित्व
personally	(i) स्वयं, (ii) व्यक्तिगत रूप से
personate <i>vb.</i>	पररूप धारण करना
personation	पररूप धारण करना
personnel	कार्मिक
personnel management	कार्मिक प्रबन्ध
perspective <i>n.</i>	दृष्टिकोण
persuade <i>vb.</i> (to convince, to influence by advice, entreat- ing or arguments)	मनाना, अनुनय करना
persuasion	अनुनय
persuasive	अनुनयपूर्ण
pertain <i>vb.</i> (to belong to, to have reference to)	सम्बन्धित होना
pertaining to	के सम्बन्ध में
pertinence	तर्कसंगति
pertinent	तर्कसंगत
perturb <i>vb.</i>	घबरा देना, उद्ध्विग्न करना
perturbed	उद्ध्विग्न
perusal	अवलोकन
for perusal	अवलोकनार्थ
peruse <i>vb.</i>	अवलोकन करना, ध्यान से पढ़ना

perverse	विकृत
perversity	विकृति, विकार
perverted taste	विकृत रुचि
perversion	विकृति
pessimism	निराशा, निराशावादिता
pessimist	निराशावादी
pessimistic outlook	निराशावादी दृष्टिकोण
pest	मारक कीट, महामारी
pestilence	महामारी
petition <i>n.</i>	याचिका
<i>vb.</i>	याचिका दाखिल करना, निवेदन करना
election petition	चुनाव याचिका
petitioner	याची, निवेदक
petty	छोटा, अल्प, संकीर्ण
petty cash book	खुदरा रोकड़ वही
petty contract	छोटा ठेका
petty executive establishment	लघु कार्यकारी सिव्बन्दी
petty offence	छोटा अपराध
petty works	छोटे काम
phase	चरण
phased	चरणिक
phased programme	चरणिक कार्यक्रम
philatic	टिकट संग्राहक
philately	डाक टिकट संग्रह
phenomenon	दृश्य, घटना
phenomenal	अद्भुत
philologist	भाषा वैज्ञानिक, भाषाविद्
philology	भाषा विज्ञान
philosophy	दर्शन, दर्शनशास्त्र
philanthropic	लोकोपकारी
philanthropic institution	लोकोपकारी संस्था
philanthropist	लोकोपकारक
philanthropy	लोकोपकार
physical	(i) भौतिक (ii) प्राकृतिक (iii) शारीरिक
physical defects	शारीरिक दोष
physical fitness	आरोग्यता

certificate of physical fitness	आरोग्यता प्रमाणपत्र
physical geography	प्राकृतिक भूगोल
physical laboratory	भौतिक प्रयोगशाला
physically	भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से
physically fit	आरोग्य
physician	चिकित्सक
physiology	शरीर विज्ञान
physiological	शरीर-सम्बन्धी
physique	शरीर का गठन
picket <i>n.</i>	घरना, घरना देने वाला, दस्ता
<i>vb.</i>	घरना देना
picketing	घरना
pick pocket	गिरहकट, जेबकतरा
pick up	उठाना
pictorial	सचित्र
picture <i>n.</i>	चित्र, तस्वीर
<i>vb.</i>	चित्रण करना, अनुमान लगाना
piece-meal	अलग-अलग टुकड़ों में, खण्डशः
pilfer	उठाईगीर
pilferage	उठाई गीरी
pilgrim tax	तीर्थ यात्री कर
pilot <i>n.</i>	चालक
<i>adj.</i>	अग्रगामी, पथप्रदर्शक ,
<i>vb.</i>	रास्ता दिखाना, पथ प्रदर्शन करना
pilot a bill	विधेयक का संचालन करना , (विधेयक पर उठाये प्रश्नों का उत्तर देना )
pilot guard system (Rly.)	अग्रगामी गार्ड प्रणाली
pilot project	अग्रगामी परियोजना
pioneer <i>n.</i>	मार्गदर्शक
<i>vb.</i>	मार्ग दिखाना
piracy	समुद्री डाक, साहित्यिक चोरी, अनधिकृत उपयोग
radio piracy	रेडियो का अनधिकृत उपयोग
pirate	समुद्री डाका, साहित्यिक चोर,
pitfall	गड्ढा
pivot	चूल
plaint	अर्जीदावा, इस्तगासा

plaintiff	वादी, मुद्दई
*plan <i>n.</i>	आयोजना
<i>vb.</i>	आयोजन् करना
plan period	आयोजना अवधि
planned	आयोजित
planned economy	आयोजित अर्थव्यवस्था
planned progress	आयोजित प्रगति
planning commission	आयोजना आयोग
planning department	आयोजना विभाग
planning officer	आयोजना अफसर
plant <i>n.</i>	(i) पौधा, (ii) संयंत्र
plausible	सत्याभासी
plausibly	सत्याभासी रूप से
plea <i>n.</i>	दलील
plead <i>vb.</i>	दलील देना
plead a cause	पक्ष समर्थन करना
pleader	वकील
pleasant	रुचिकर
pleasure	(i) आनन्द, आमोद-प्रमोद (ii) प्रसाद
during pleasure	प्रसाद पर्यन्त
pledge <i>n.</i>	(i) प्रतिज्ञा (ii) आधान
<i>vb.</i>	(i) प्रतिज्ञा करना (ii) आधान करना
pledgee	आधान गृहीता
pledger	आधाता
plenary	पूर्ण
plenary session	पूर्ण अधिवेशन
plenary power	पूर्ण शक्ति
plenipotence	पूर्ण अधिकार
plenipotentiary	पूर्ण अधिकार प्राप्त
plenitude	पूर्णता, सर्वांगीणता
plenty	प्रचुरता
pliability	अवनम्यता
pliable	अवनम्य
plight	दशा, दुर्दशा
plot <i>n.</i>	(i) कथानक
<i>vb.</i>	(ii) पडयंत्र, साजिश
	पडयंत्र करना, साजिश करना

plural	(i) बहुवचन (ii) अनेक, बहु-
plural voting	बहुमतदान
plurality	अनेकता
plunder <i>n.</i>	लूट
<i>vb.</i>	लूटना
plutocracy	धनिकतंत्र
plutocrat	धनिक तंत्री
point <i>n.</i>	(i) नोक (ii) विन्दु (iii) काँटा
<i>vb.</i>	(Rly.) (ii) प्रश्न
point indicator (Rly)	संकेत करना, इशारा करना
point of order	काँटा संकेतक
point of view	बीचित्य का प्रश्न
pointsmen (Rly.)	दृष्टिकोण
poise	पैटमैन
well-poised	संतुलन,
poison <i>n.</i>	सुसंतुलित
<i>vb.</i>	जहर, विष
poisoned	जहर देना, विष देना
poisoning	विपाक्त
poisonous	विष देना, जहर देना
poke one's nose	जहरीला
police	टाँग अड़ाना, अनधिकार हस्तक्षेप करना
police administration	पुलिस
police constable	पुलिस प्रशासन
police force	पुलिस का सिपाही
police diary	पुलिस दल
police man	पुलिस डायरी
police picket	पुलिस
police surveillance	पुलिस दस्ता
policy	पुलिस की निगरानी
polite	नीति
politeness	नम्र
political	नम्रता
political prisoner	राजनैतिक, राज्य-सम्बन्धी
political science	राजनैतिक कैदी
political upheaval	राज्य शास्त्र
	राजनैतिक उथल-पुथल, राजनैतिक विप्लव

politician	राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ
politics	राजनीति, कूटनीति
polity	राज्यतंत्र
poll	(i) मतदान (ii) मुण्ड प्रतिव्यक्ति
poll-tax	प्रतिव्यक्ति कर
polling agent	मतदान एजेंट
polling booth	मतदान केन्द्र
polling officer	मतदान अफसर
heavy polling	भारी मतदान
polygamy	बहुविवाह
poor attendance	कम उपस्थिति
poor collection	कम वसूली
poor law	दरिद्र रक्षा कानून
populace	जन साधारण
popular	लोकप्रिय, जन-सम्बन्धी
popular agitation	जन आन्दोलन
popular feeling	जनता की भावना
popularity	लोकप्रियता
popularize <i>vb.</i>	लोकप्रिय बनाना
popularly	साधारणतः
population	जन संख्या, आवादी
over population	अत्यधिक घनी आवादी
port	बन्दरगाह, पत्तन
port area	पत्तन क्षेत्र
port commissioner	पत्तन कमिश्नर
port quarantine	पत्तन संगरोध
port trust	पत्तन न्यास
portable	सुवहनीय, सुवाह्य
portable typewriter	सुवहनीय । सुवाह्य टाइप मशीन
portability	सुवहनीयता, सुवाह्यता
porter	पोर्टर, भारिक
portfolio	संभाग, वस्ता
position	स्थिति
positive	(i) निश्चयात्मक (ii) सकारात्मक
positively	निश्चित रूप



possess <i>vb.</i>	(i) अधिकार में रखना, कब्जा रखना
possession	(ii) वारण करना (iii) सम्पन्न होना
possessor	(i) अधिकार, (ii) कब्जा, आविपत्य
possible	(iii) सम्पन्नता, वन-दीलत
possibility	काविज्ञ, अधिकारी, परिभोगी
possibly	संभव
post <i>n.</i>	संभावना
<i>vb.</i>	संभवतः
<i>adj.</i>	(i) पद (ii) चौकी (iii) खंभा
post box	तैनात करना, डाक से भेजना, खाले में
post card	चढ़ाना
post copy	वाद का, उत्तर
post master	डाक-बक्स
post master general	पोस्ट कार्ड
post budgetary	डाक प्रति
post budgetary liability	पोस्ट मास्टर
post-dated	पोस्ट मास्टर जनरल
post-free	वजट के बाद का
post-mortem	वजट के बाद की दायिता
post-script	वाद की तारीख का, उत्तर तिथीय
post-war	निःशुल्क डाक
post-war economic depression	शव-परीक्षा
postal	अनुलेख
postal address	युद्धोत्तर, लड़ाई के बाद का
postal certificate	युद्धोत्तर आर्थिक मन्दी, लड़ाई के बाद
postal order	की आर्थिक मन्दी
poster	डाक-सम्बन्धी
posterior	डाक का पता
posterity	डाक प्रमाण पत्र
posthumous	पोस्टल आर्डर
posthumous award	इस्तहार
posthumous child	भावी
	भावी सन्तान
	मरणोत्तर
	मरणोत्तर पुरस्कार
	पिता की मृत्यु के बाद पैदा होने वाला
	बच्चा

posting	(i) तैनाती (ii) लेखा चढ़ाना (iii) डाक से भेजना
posting of an account	लेखा चढ़ाना
posting of a letter	पत्र डाक में छोड़ना
posting of an officer	किसी अफसर की तैनाती
postpone <i>vb.</i>	स्थगित करना
postponement	स्थगन
postponement certificate	स्थगन प्रमाणपत्र
postulate <i>n.</i>	उपधारणा
<i>vb.</i>	उपधारण करना
potent	प्रबल, शक्तिशाली
potential	(i) सक्षम (ii) संभाव्य
potential capacity	संभाव्य क्षमता
potential danger	संभाव्य खतरा
potential energy	सक्षम ऊर्जा
potential strength	संभाव्य संख्या
potentiality	सक्षमता, संभाव्यता
potentially	सक्षम रूप से, संभाव्यतः
poultry	मुर्गीपालन
poultry farming	शक्ति, विजली
power <i>n.</i>	विजली द्वारा खेती
power cultivation	विजली करघा
power loom	मुस्तारनामा
power of attorney	शक्ति से परे
beyond power	शक्तिशाली
powerful	शक्तिहीन
power less	शक्तिहीनता
powerlessness	विजली-घर
power-house	व्यवहार्यता
practicability	व्यवहार्य
practicable	व्यावहारिक
practical	व्यावहारिक प्रशिक्षण
practical training	व्यावहारिकता
practicality	व्यावहार रूप में
practically	(i) अभ्यास (ii) पद्धति, प्रथा
practice	(iii) आचार

bad practice	दोषपूर्ण पद्धति
old practice	पुरानी प्रथा
practice-legal	कानून व्यवसाय, विधि व्यवसाय
practice-medical	डाक्टरी व्यवसाय, चिकित्सा व्यवसाय
practise <i>vb.</i>	(i) अभ्यास करना (ii) करना
practise a profession	व्यवसाय करना
practising lawyer	व्यवसायी वकील
practioner	व्यवसायी
practioner-legal	कानून व्यवसायी, विधि व्यवसायी
practioner-medical	चिकित्सा-व्यवसायी
praise <i>n.</i>	सराहना
<i>vb.</i>	सराहना करना
praiseworthy	सराहनीय
preacquaintance	पूर्व परिचय
preacquainted	पूर्व परिचित
preamble	प्रस्तावना
preamble to an act	अधिनियम की प्रस्तावना
preambulatory	प्रस्तावना-सम्बन्धी
pre-apprehension	पूर्वाशंका ( पूर्व-आशंका )
precarious	(i) अनिश्चित (ii) परावलम्बी
precariousness	(i) अनिश्चितता (ii) परावलम्ब
precaution	एहतियात । पूर्व सावधानी
precautionary	एहतियाती
precautionary measures	एहतियाती उपाय
precede <i>vb.</i>	पहले होना, पूर्ववर्ती होना
precedence	पूर्ववर्तिता, दृष्टान्त
precedent	दृष्टान्त, पूर्ववर्ती
preceding	पूर्ववर्ती, पहले का
precept	(i) उपदेश (ii) आज्ञा
example is better than precept	उदाहरण उपदेश से अच्छा है
pre check and post check	पूर्व जाँच और बाद की जाँच
precinct	प्रसीमा
precious	कीमती, बहुमूल्य
precis	सार-लेख
precis writing	सार-लेखन
precise	(i) यथार्थ (ii) सूक्ष्म
precisely	(i) यथार्थतः (ii) सूक्ष्मतः

preciseness	(i) यथार्थता (ii) सूक्ष्मता
precision	” ”
precision factory	सूक्ष्म पुर्जों का कारखाना
preclude <i>vb.</i>	प्रतिवारण करना
preclusion	प्रतिवारण
preclusive	प्रतिवारक
precursor	अग्रदूत, अग्रज, अग्रलक्षण
predecessor	पूर्ववर्ती
predetermination	पूर्वनिश्चय
predicament	विकट परिस्थिति
predict <i>vb.</i>	भविष्यवाणी करना, पूर्वकथन करना
prediction	भविष्य वाणी, पूर्व कथन
predominance	(i) प्रबलता, (ii) प्रभुत्व
predominant	(i) प्रबल
predominate <i>vb.</i>	(i) प्रबल होना (ii) प्रभुत्व रखना
predomination	प्रभुता, प्रबलता
pre-emption	पूर्वक्रम अधिकार, हकशफा
pre-emptioner	पूर्वक्रम अधिकारी, हकशफा का अधिकारी
preface	प्राक्कथन
prefect	प्रिफेक्ट
prefer <i>vb.</i>	अधिक अच्छा समझना, अधिमान देना, तरजीह देना
preferable	अधिमान्य
preference	अधिमान
preferential	अधिमान्य, तरजीही
preferential movement	अधिमान्य संचरण
preferential tariff	अधिमान्य, तरजीही तटकर
preferential transport	अधिमान्य, तरजीही परिवहन
prefix <i>n.</i>	उपसर्ग
<i>vb.</i>	पहले जोड़ना
prehistoric	प्रागैतिहासिक
prejudge <i>vb.</i>	पूर्वधारणा बना लेना
prejudge an issue	किसी प्रश्न पर पूर्वधारणा बनाना
prejudicate <i>vb.</i>	पूर्व निर्णय करना
prejudice	(i) पक्षपात, पूर्वग्रह (ii) प्रतिकूल प्रभाव
prejudiced	पक्षपातपूर्ण

prejudicial	प्रतिकूल (प्रभाव डालने वाला)
act prejudicial to law and order	शान्ति और व्यवस्था के प्रतिकूल कार्य
preliminary	प्रारंभिक
preliminary expenses	प्रारंभिक खर्च
preliminary injunction	प्रारंभिक
preliminary survey	प्रारंभिक सर्वेक्षण
preliminaries <i>n.</i>	वाद में जोड़ना
prelude <i>n.</i>	प्रारंभिक व्यवस्थाएँ
premature	भूमिका
prematurely	समय पूर्व, असामयिक
prematurity	असामयिक रूप से
premeditate <i>vb.</i>	समयपूर्वता, असामयिकता
premeditated	पूर्वचिन्तन करना
premier <i>n.</i>	पूर्व चिन्तित
<i>adj.</i>	प्रधान मंत्री
premises	प्रमुख
premium	(i) प्रमेय (ii) चौहद्दी, परिसीमा
preparation	प्रीमियम
preparatory	तैयारी
prepare <i>vb.</i>	आयोजन
prepared	तैयार होना, तैयार करना
prerogative	तैयार
prescribe <i>vb.</i>	परमाधिकार
prescribed	विहित करना
prescription	विहित
prescriptive right	(i) नुस्खा, उपचार विधि
presence	(ii) चिरभोग
present <i>n.</i>	चिरभोगाधिकार
<i>adj.</i>	उपस्थिति
<i>vb.</i>	उपहार
present a case	उपस्थित
presentation	पेश करना, प्रस्तुत करना, उपहार देना
colour presentation ceremony	मामला पेश करना
presently	(i) प्रस्तुत करने की शैली (ii) पुरस्करण, पुरस्कार
	ध्वज पुरस्कार समारोह
	अभी, इस समय

preserve <i>vb.</i>	परिरक्षा करना
preservation	परिरक्षण
preservable	परिरक्षणीय
self-preservation	आत्म-परिरक्षा
preside <i>vb.</i>	अध्यक्ष होना, सभापतित्व करना
presidency	अध्यक्ष, राष्ट्रपति का पद
president	(i) अध्यक्ष (ii) राष्ट्रपति
presidential address	अध्यक्ष का भाषण, राष्ट्रपति का भाषण
presidential government	राष्ट्रपतीय शासन
presidentship	(i) अध्यक्षता (ii) राष्ट्रपति का पद
presiding officer	अध्यक्ष
press <i>n.</i>	प्रेस
<i>vb.</i>	दवाना
press act	प्रेस अधिनियम
press commission	प्रेस कमीशन
freedom of the press	प्रेस की स्वतंत्रता
pressing needs	तात्कालिक आवश्यकता
press conference	पत्रकार सम्मेलन
press regulations	प्रेस प्रनियम ( मुद्रण तथा प्रकाशन सम्बन्धी प्रनियम )
pressure	दबाव, भार
pressure of work	काम का भार
prestige	प्रतिष्ठा
presume <i>vb.</i>	धारणा रखना, अनुमान करना
presumable	आनुमानिक
presumably	अनुमानतः ( संभवतः )
presumption	धारणा, अनुमान
presumptive <i>adj.</i>	संभावी
presumptive pay	संभावी वेतन
presumptuous	दुःसाहसी, डीठ
presumptuousness	दुःसाहस, क्रिठाई
presuppose <i>vb.</i>	पहले से मान लेना, पूर्व कल्पना करना
presupposition	पूर्वकल्पना
pretence	वहाना
pretender	झूठा दावेदार
pretention	झूठा दावा
pretext	वहाना

prevail <i>vb.</i>	(i) प्रबल होना, हावी होना (ii) प्रचलित होना
prevailing	(i) प्रबल (ii) प्रचलित
prevalence	(i) प्रबलता (ii) प्रचलन
prevalent	(i) प्रबल (ii) प्रचलित
prevaricate <i>vb.</i>	वददियानत करना
prevarication	वददियानती
prevent <i>vb.</i>	रोकना, निवारण करना
preventable	जो रोका जा सके, निवार्य
prevention	निवारण
preventive	निवारक
preventive detention	निवारक नज़रबन्दी
previous	(i) पहले का (ii) पूर्व
previous consent	पूर्व सहमति
previous sanction	पूर्व मंजूरी
previously	पहले
price	मूल्य, दाम, कीमत
price list	मूल्य-सूची
prima facie	प्रकटतः । जाहिर तौर पर
primary	(i) प्रारंभिक (ii) प्रथम (iii) मौलिक
primary education	प्रारंभिक शिक्षा
primary election	प्रारंभिक चुनाव
primary receipt	मौलिक प्राप्ति
primary school	प्राइमरी स्कूल, प्रारंभिक पाठशाला
primarily	प्रधानतः
prime <i>n.</i>	प्रौढ़ावस्था
prima of life	जीवन की प्रौढ़ावस्था
of prime importance	विशेष महत्त्व का
primer	वर्णमाला की पुस्तक
primitive	आदिम, आदिकालीन
primogeniture	जेष्ठानधिकार
principal <i>n.</i>	(i) मूलवन (ii) प्रिन्सिपल
<i>adj.</i>	मुख्य
principality	अधीन राज्य
principally	मुख्यतः
principle	सिद्धान्त
principled	सिद्धान्तवादी, सिद्धान्तसम्मत

unprincipled	विना किसी सिद्धान्त का, सिद्धान्तहीन
print <i>n.</i>	छाप
<i>vb.</i>	छापना, मुद्रित करना
finger-print	अँगुली छाप
finger-print bureau	अँगुली छाप व्यूरो
out of print	अप्राप्य
printer	मुद्रक
printing	छपाई, मुद्रण
printing charges	मुद्रण-प्रभार, छपाई का खर्च
printing press	छापाखाना
prior	पूर्व, पहले
prior to this	इससे पहले
prior sanction	पूर्व मंजूरी, पूर्व सम्मोदन
priority	पूर्वता, प्रथमता
prison	बन्दीगृह, कारागार
prisoner	कैदी, बन्दी
security prisoner	नजरबन्द कैदी
state prisoner	राजबन्दी
prisoner of war	युद्ध बन्दी
privacy	एकान्तता
private <i>adj.</i>	गुप्त, प्राइवेट, निजी, व्यक्तिगत, गैर-सरकारी
private candidate (at an examination)	प्राइवेट परीक्षार्थी
private party	गैर सरकारी पक्ष
private property	निजी सम्पत्ति
private service	गैर सरकारी नौकरी
private sources	निजी साधन
privateer	प्राइवेटियर
privately	व्यक्तिगत रूप से
privation	तंगी, अभावग्रस्तता
privilege	विशेषाधिकार
privilege ticket	विशेषाधिकार टिकट
privileged ticket order	विशेषाधिकार टिकट आदेश
privileged position	विशेषाधिकृत स्थिति
privy council	प्रीवी कौन्सिल
privy purse	निजी थैली



programme <i>n.</i>	कार्यक्रम
<i>vb.</i>	कार्यक्रम बनाना,
progress <i>n.</i>	प्रगति
<i>vb.</i>	प्रगति करना
progress report	प्रगति रिपोर्ट
progressive	प्रगतिशील, वर्धमान
progressive taxation	प्रगतिशील कराधान
progressive views	प्रगतिशील विचार
progressively	उत्तरोत्तर, अधिकाधिक
prohibit <i>vb.</i>	मना करना, निषेध करना
prohibited	निषिद्ध
prohibition	निषेध, नशाबन्दी
prohibitive	निषेधक
prohibitory	निषेधात्मक
project	परियोजना
prologue	मंगलाचरण
prolong <i>vb.</i>	(i) समय या अवधि बढ़ाना, (ii) जारी रखना
prominence	प्रमुखता, प्राधान्य
prominent	प्रमुख, उन्नत, सुदृश्य
promise <i>n.</i>	वादा, वचन
<i>vb.</i>	वादा करना, वचन देना
promising	होनेहार, उदीयमान
promissory note	वचन-पत्र, प्रामिसरी नोट
promote <i>vb.</i>	(i) पदोन्नत करना (ii) प्रोत्साहन देना
promoted	पदोन्नत
promotee	पदोनीत
promotion	(i) पदोन्नति (ii) प्रोत्साहन
prompt	सत्वर, तुरत
prompt action	सत्वर कार्यवाही, तुरत कार्रवाई
promulgate <i>vb.</i>	(i) एलान करना, प्रख्यापित करना (i) लागू करना, प्रवर्तित करना
promulgation	(i) एलान, प्रख्यापन (ii) लागू करना, प्रवर्तन
pronote	प्रोनोट
pronounce <i>vb.</i>	उच्चारण करना, अधिघोषणा करना
pronouncement	अधिघोषणा

proof	प्रूफ, प्रमाण, सबूत
proof-reader	प्रूफवाचक
proof-reading	प्रूफ पढ़ना, प्रूफ वाचन
burden of proof	प्रमाण-भार
propaganda	प्रचार
propagandist	प्रचारकर्ता
propagate <i>vb.</i>	प्रचार करना
propagation	प्रचार-कार्य, प्रचारण
proper	उचित, उपयुक्त
properly	उचितरूप से, उपयुक्त रूप से
prophecy	भविष्यवाणी
prophecy <i>vb.</i>	भविष्यवाणी करना
property	सम्पत्ति
property—immovable	अचल सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति
property—movable	चल सम्पत्ति
propitiate <i>vb.</i>	तुष्टीकरण करना
proportion	समानुपात
proportionate	समानुपातिक
proportionately	समानुपाततः
proposal	(i) प्रस्ताव (ii) योजना
propose <i>vb.</i>	प्रस्ताव रखना, विचार रखना, इरादा करना
proposer	प्रस्तावक
proposition	प्रस्ताव
proprietary rights	स्वामित्व, मालिकाना अधिकार
proprietor	स्वामी, मालिक
proprietorship	स्वामित्व
propriety	औचित्य
on pro-rata basis	समानुपातिक आधार पर
prorogation	अधिवेशन की समाप्ति
prorogue <i>vb.</i>	अधिवेशन समाप्त करना
pros and cons	पक्ष और विपक्ष
proscribe <i>vb.</i>	अभिनियेध करना
proscribed book	अभिनियेधित पुस्तक
proscribed literature	अभिनियेधित साहित्य
prosecute <i>vb.</i>	अभियोग चलाना
prosecution	अभियोग, अभियोजन
prosecution counsel	अभियोग पक्ष का वकील

prosecution witness	अभियोग पक्ष का गवाह
prosecutor	अभियोजक
assistant public prosecutor	सहायक अभियोजक
public prosecutor	अभियोजक
prospect n.	(i) दृश्य (ii) भविष्य
<i>vb.</i>	खनिज की खोज करना
bright prospect	उज्ज्वल भविष्य
prospecting	खनिज की खोज
prospective	भावी
prospectus	प्रविवरण
prosper <i>vb.</i>	समृद्ध होना
prosperity	समृद्धि
prosperous	समृद्ध
protect <i>vb.</i>	वचाना, रक्षा करना
protection	रक्षा
protective	रक्षक, रक्षात्मक
protective duty	रक्षण शुल्क
protective tariff	रक्षण तटकर
protector	रक्षक
protectorate	रक्षित राज्य
protest n.	प्रतिवाद
<i>vb.</i>	प्रतिवाद करना
protocol	(i) राजनयिक शिष्टाचार (ii) संवि का प्रारूप
provable	सिद्ध करने योग्य, साध्य
provability	साध्यता, प्रामाण्यता
prove <i>vb.</i>	सिद्ध करना, साबित करना, प्रमाणित करना
proved	सिद्ध, साबित, प्रमाणित
proverb	कहावत, लोकोक्ति
proverbial	लोक प्रचलित
provide <i>vb.</i>	(i) प्रवन्व करना (ii) उपवन्व करना
provided that	यदि
providence	दूरदर्शिता, दैव
provident	(१) समझदार, (२) दूरदर्शी
provident fund	भविष्य निधि

province	(i) प्रान्त (ii) कार्यक्षेत्र, अधिकार- क्षेत्र
provincial	प्रान्तीय
provincial service	प्रान्तीय सेवा
provincial civil service	प्रान्तीय असैनिक सेवा
provincial subjects	प्रान्तीय विषय
provincialism	प्रान्तीयता
provision	(i) उपबन्ध (ii) रसद
provisional	अनन्तिम
provisional pay bill	अनन्तिम वेतन-पत्र
provisional payment	अनन्तिम भुगतान
provisionally	अनन्तिम रूप से
proviso	परन्तुक
provoke <i>vb.</i>	उत्तेजित करना
provoking <i>adj.</i>	(i) उत्तेजनापूर्ण (ii) प्रेरणात्मक
provocation	उत्तेजना
under provocation	उत्तेजना में
provocative	उत्तेजक
provocative slogans	उत्तेजक नारे
proximate <i>adj.</i>	सन्निकट,
proximity	सन्निकटता
proxy	प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व
proxy voting	प्रतिनिधि द्वारा मतदान
prudence	समझ, दूरदर्शिता
prudent	समझदार, दूरदर्शी
prudently	समझदारी के साथ
psychiatrist	मनोविकारविद्
psychiatry	मनोविकार विज्ञान
psychological	मनोवैज्ञानिक
psychologist	मनोवैज्ञानिक
psychology	मनोविज्ञान
puberty	यौवनागम
puberty—age of	यौवनागम आयु
public <i>n.</i>	जनता
<i>adj.</i>	जन-सम्बन्धी, लोक-सम्बन्धी, सार्वजनिक, सरकारी
public accounts committee	लोक लेखा समिति

public borrowing	सरकार द्वारा ऋण लेना
public debt	सरकारी ऋण
public demand	सार्वजनिक माँग
public document	सार्वजनिक प्रलेख
public health	जनस्वास्थ्य
public health department	जन स्वास्थ्य विभाग
public interest	सार्वजनिक हित
public investment	सार्वजनिक निवेश
public money	सार्वजनिक धन
public opinion	लोकमत
public peace	सार्वजनिक शान्ति
public purpose	सार्वजनिक उद्देश्य
public relations	जन सम्पर्क
public relations branch	जन सम्पर्क शाखा
public relations officer	जन सम्पर्क अफसर
public servant	लोक सेवक
public service	लोक सेवा
public service commission	लोक सेवा आयोग
public traffic	सार्वजनिक यातायात
public works	लोक निर्माण कार्य
public works department	लोक निर्माण विभाग
publication	प्रकाशन
publicity	प्रचार, प्रकाशन
publicity branch	प्रकाशन शाखा
publicity inspector	प्रकाशन निरीक्षक
publicize <i>vb.</i>	प्रचार करना
publish <i>vb.</i>	प्रकाशित करना
publisher	प्रकाशक
punctual <i>adj.</i>	समयनिष्ठ, समय पर आने वाला
punctuality	समय पर आना, समयनिष्ठा
punish <i>vb.</i>	दण्ड देना, सजा देना
punishable	दण्डनीय
punishment	दण्ड, सजा
punitive	दण्ड-सम्बन्धी, ताजीरी
punitive police	ताजीरी पुलिस
punitive tax	ताजीरी कर
pupil teacher	क्षात्र-शिक्षक

purge <i>n.</i>	परिष्कार, निष्कासन
<i>vb.</i>	परिष्कार करना, निकालना
pure	शुद्ध, पवित्र
purification	शुद्धीकरण
purify <i>vb.</i>	शुद्ध करना, पवित्र करना
purport	आशय, सार
purpose	प्रयोजन
purposeful	सप्रयोजन
purposely	सप्रयोजन
purposive	सप्रयोजन
pursuance	अनुसरण
in pursuance of	के अतुसार
pursue <i>vb.</i>	पीछा करना, अनुशीलन करना, खोजना
pursuit	पीछा, अनुशीलन, खोज
purview	सीमा
within the purview of	की सीमा में
push <i>n.</i>	धक्का, दवाव
<i>vb.</i>	धक्का देना, दवाना
puzzle	जटिल समस्या, पहेली, घबराहट
puzzled	घबराया हुआ
puzzling	घबराने वाला

‘Q’

quack n.	नीम हकीम
quackery	नीम हकीमी
quadrant	(१) चौथाई, (२) चतुर्थांश
quadruplicate	चार प्रतियाँ
qualification n.	(i) अर्हता (ii) योग्यता (iii) विशेषण, शर्त
qualification—academic	शैक्षणिक योग्यता
qualification—legal	वैधानिक विशेषण
qualification—technical	तकनीकी योग्यता
qualificatory	अर्हता-सम्बन्धी, योग्यता-सम्बन्धी
qualified	(i) अर्ह (ii) योग्य (iii) विशेषित
qualified acceptance	विशेषित स्वीकृति, सशर्त स्वीकृति
qualified candidate	अर्ह उम्मीदवार
qualified elector	अर्ह मतदाता
qualified hand	योग्य व्यक्ति
qualified ownership	विशेषित स्वामित्व
qualify vb.	(i) अर्हता प्राप्त करना (ii) विशेषित करना
qualifying adj.	अर्हकर, विशेषक
qualifying clause	विशेषक खण्ड
qualifying marks	अर्हकर अंक
qualifying test	अर्हकर परीक्षा
qualitative	गुण वाचक
quality	गुण
quality check	कार्य स्तर की जाँच
quality control	कार्य स्तर पर नियंत्रण
quandary (state of perplexity)	हैरानी, असमंजस
quantitative	परिमाण वाचक
quantitatively	परिमाणतः
quantity	परिमाण, मात्रा
quantum	मात्रा

quarantine <i>n.</i>	संगरोध
<i>vb.</i>	संगरोध करना, संक्रामक रोगों की रोक-थाम के लिए अलग करना
quarantine check	संगरोध जाँच
quarantine leave	संगरोध छुट्टी
quarantine port	संगरोध बन्दरगाह
quarantine regulation	संगरोध विनियम
quarrel <i>n.</i>	झगड़ा
<i>vb.</i>	झगड़ा करना, दोष निकालना
quarrelsome	झगड़ालू, कलहप्रिय
quarry	पत्थर की खान
quarter <i>n.</i>	वासा
<i>adj.</i>	चौथाई
<i>vb.</i>	तैनात करना, ठहराना
quarterly	त्रैमासिक, तिमाही
quarters	वासा
female quarters	महिला वासा
married quarters	दम्पति वासा
servants' quarters	नौकर वासा
single quarters	एकल वासा
quash <i>vb.</i>	रद्द करना, खारिज करना
quasi (Latin 'as if')	वत्, अर्ध, प्रायः
quasi criminal	अर्ध अपराधी
quasi contract	अर्ध संविदा
quasi derelict	अर्ध परित्यक्त
quasi government	अर्ध सरकारी
quasi government body	अर्ध सरकारी निकाय
quasi judicial	अर्ध न्यायिक
quasi monopoly	प्रायः एकाधिकार
quasi permanency	प्रायः स्थायित्व, स्थायिवत्ता
quasi permanent	प्रायः स्थायी, स्थायिवत्
quell <i>vb.</i>	दवा देना, शान्त करना
quench <i>vb.</i>	(प्यास) बुझाना
query <i>n.</i>	प्रश्न
<i>vb.</i>	प्रश्न उठाना
quest <i>n.</i>	खोज
<i>vb.</i>	खोज करना



question *n.**vb.*

call in question

question authority

question validity

question hour

question of law

in question

topic in question

questionable

questioned document

questionnaire }  
questionary }  
questioner }

questioner

queue *n.**vb.*

quick

quick disposal

quick-tempered

quid pro quo

quid pro quo theory of taxation

quiet *adj.**n.*

quinine

quinquennial

quinquennial report

quinquennium

quintessence

quit *vb.*quit-claim *vb.*quite *adv.*

quittance

quorum

(i) सवाल, प्रश्न (ii) आपत्ति

(iii) शंका, संशय

प्रश्न करना, आपत्ति, करना,

शंका करना

आपत्ति करना

अधिकार पर आपत्ति करना

मान्यता पर आपत्ति करना

प्रश्नोत्तर काल

कानून का विषय

विवादग्रस्त, प्रस्तुत

प्रस्तुत विषय

आपत्तिजनक, संशयात्मक

संदिग्ध प्रलेख

प्रश्नावली, प्रश्नमाला

प्रश्नकर्ता

क्रम, तरतीब

तरतीब में खड़ा होना, लाइन में खड़ा

होना

शीघ्र, तेज़

शीघ्र निवटारा

त्रोधी स्वभाव का, चिड़चिड़ा

'जैसे को तैसा'

'जैसे को तैसा' कर सिद्धान्त

शान्त, स्थिर

शान्ति, स्थिरता

कुनैन

पंचवर्षीय

पंचवर्षीय रिपोर्ट

पाँच वर्ष की अवधि, पंचाब्दी

सार, निचोड़

(i) छोड़ना (ii) खाली करना

(iii) चुकाना

दावा छोड़ना

विल्कुल, सर्वथा

वेवाकी, चुकता

कार्यवाहक संस्था

quota	कोटा
quota certificate	कोटा प्रमाणपत्र
quota holder	कोटाधारी
quota shop	कोटा दूकान
quota system	कोटा प्रणाली
quotation	(i) उदाहरण (ii) भाव, दर
quotable	उद्धरणीय
quote <i>vb.</i>	(i) उद्धरण देना, (ii) भाव बताना, दर बताना
quotient (maths)	भजनफल
quo warranto	'किस अधिकार से', अधिकार पृच्छा

‘R’

rabid	पागल, उन्मादग्रस्त, वावला
rabid dog	पागल कुत्ता
rabid press	वावला प्रेस
rabidity	पागलपन, उन्माद
race	(i) दौड़ (ii) जाति
racial	जातीय
racial discrimination	जातीय भेद-भाव, जातीय विभेद
racial laws	जातीय कानून
racialism	जातीयता
racket <i>n.</i>	कूट योजना
racketeer	कूट योजक
radiate <i>vb.</i>	(प्रकाश या ताप) विखेरना, विखरना, विकीर्ण होना, विकीर्ण करना
radical	आमूल
radial change	आमूल परिवर्तन
radical reform	आमूल सुधार
radicalism	आमूल परिवर्तनवाद
radio	रेडियो
radio-active	रेडियो धर्मी
radio activity	रेडियो धर्मिता
radio broadcasting	रेडियो प्रसारण
radio talk	रेडियो वार्ता
radio telegraphy	रेडियो टेलीग्राफी
radius	परिधि
rail	रेल, पटरी
rail and road co-ordination	रेल और सड़क
railway	रेलवे, रेल
railway accounts	रेलवे लेखा
railway Act	रेल अधिनियम
railway administration	रेल प्रशासन
railway authority	रेल अधिकरण, रेल अधिकारी
railway board	रेलवे बोर्ड

railway budget	रेलवे बजट
railway clearing accounts office	रेलवे लेखा समायोजन कार्यालय
railway company	रेलवे कम्पनी
railway crossing	रेलवे लाइन
railway fare	रेल किराया
railway freight	रेल भाड़ा
railway loco workshop	रेल इंजन कारखाना
government railway police	सरकारी रेलवे पुलिस
railway protection police	रेलवे सुरक्षा पुलिस
railway property	रेल सम्पत्ति
railway receipt	रेलवे रसीद
railway siding	रेलवे साईडिंग
railway station	रेलवे स्टेशन
railway servant	रेल कर्मचारी
railway employee	" "
railway traffic	रेल यातायात
railway transport	रेल परिवहन
railway travel	रेल यात्रा
railway time-table	रेल समय-सारणी
railway warrant	रेलवे अधिपत्र
railway workers union	रेल कर्मचारी संघ
railing	बाड़
rain gauge	वर्षामापी
rally n.	समारोह
rally round	समर्थन करना
rancour	डाह, विद्वेष
at random	अटकल से, बेतरतीब
range	विस्तार, क्षेत्र
range of a gun	बन्दूक की मार
ranger	रेंजर
rank	ओहदा
ransom	मुक्ति धन
rape n.	बलात्कार
vb.	बलात्कार करना
rapid	तेज, द्रुत, द्रुतगामी
rapidity	तेजी, द्रुतगति



rare	दुर्लभ
rarity	दुर्लभता
rash	उतावला
rashness	उतावलापन
rate <i>n.</i>	(i) दर (ii) स्थानीय कर (iii) माड़ा
<i>vb.</i>	मूल्यांकन करना
rate of exchange	विनिमय दर
rate-payer	स्थानीय कर दाता
rate structure	माड़ा-दर का ढाँचा
rates tribunal	माड़ा-दर अधिकरण
rateable	करयोग्य
rateable value	करयोग्य मूल्य
ratification	अनुसमर्थन, ताईद
ratification of treaty	संधि का अनुसमर्थन, ताईद करना
ratify <i>vb.</i>	अनुसमर्थन करना, ताईद करना
ratio	अनुपात
ration <i>n.</i>	राशन
ration-card	राशन-कार्ड
ration permit	राशन परमिट
ration shop	राशन की दुकान
rationed article	राशनकृत वस्तु
rationing	राशन प्रणाली
rational	विचारशील, तर्कसंगत
rational approach	तर्कसंगत दृष्टिकोण
rationale	तर्क का आधार
rationalise <i>vb.</i>	तर्कानुकूल करना
rationalisation	तर्कानुकूलन
rationalisation of industries	उद्योगों का तर्कानुकूलन
rationality	तर्कसंगति
ravage	विध्वंस करना
ravish <i>vb.</i>	बलात्कार करना
raw	(i) कच्चा (ii) अनुभवहीन
raw material	कच्चा माल
reach <i>n.</i>	पहुँच
<i>vb.</i>	पहुँचना

react <i>vb.</i>	प्रतिक्रिया होना, प्रतिकार करना
reacting <i>adj.</i>	प्रतिकारी
reaction	प्रतिक्रिया
reactionary	प्रतिक्रियावादी
reader	(i) रीडर (ii) पाठक (iii) पेशकार
readily	आसानी से,
reading	पढ़ना, पढ़न, वाचन
reading room	वाचनालय
reading of a motion	प्रस्ताव का वाचन
first reading	पहला वाचन
second reading	दूसरा वाचन
third reading	तीसरा वाचन
readily	तुरन्त, सरलता के साथ
readiness	तैयारी, सत्वरता
readjust <i>vb.</i>	पुनर्समंजन करना
readjusted	पुनर्समंजित
readjustment	पुनर्समंजन
ready	तैयार
ready-made	तैयार, सिले-सिलाये
ready-made clothing	सिले-सिलाये कपड़े
ready-made plan	तैयार आयोजना
ready money	नकद रकम
real	वास्तविक, यथार्थ
reality	वास्तविकता, यथार्थता
realist	यथार्थवादी
realistic	यथार्थवादी
realistic approach	यथार्थवादी दृष्टिकोण
realisation	(i) वसूली (ii) अनुमूर्ति
realisation of arrears	बकाये की वसूली
realise <i>vb.</i>	(i) अनुभव करना (ii) वसूल करना
re-appointment	पुनर्नियुक्ति
rearrange <i>vb.</i>	नये क्रम में रखना, नयी तरकीब में रखना
rearrangement	नयी तरकीब, नया क्रम
reason <i>n.</i>	कारण, तर्क, दलील
<i>vb.</i>	तर्क करना
reasonable	(i) तर्कसंगत, यथोचित (ii) विवेक-शील

reasonably	यथोचित रूप से
reasoning	तर्क
reassess <i>vb.</i>	पुनर्निर्धारित करना, पुनराकलन करना
reassessment	पुनर्निर्धारण, पुनराकलन
reassurance	पुनः आश्वासन
reassure <i>vb.</i>	पुनः आश्वासन देना
rebate	छूट, बट्टा
rebate on a bill	बिल पर छूट
rebel <i>n.</i>	वासी, विद्रोही
<i>vb.</i>	बगावत करना, विद्रोह करना
rebellion	बगावत, विद्रोह
rebellious	वासी, विद्रोही
rebuff <i>n.</i>	दुतकार, पराजय
<i>vb.</i>	दुतकारना, पराजित करना
rebuke <i>n.</i>	फटकार, झिड़की
<i>vb.</i>	फटकारना, झिड़कना
rebut <i>vb.</i>	खण्डन करना
rebuttal	खण्डन
rebutting evidence	खण्डनकारी गवाहदत
recall <i>vb.</i>	वापस बुलाना
<i>n.</i>	वापस बुलावा
recapitulate <i>vb.</i>	संक्षेप में दोहराना
recapitulation	" "
recast <i>vb.</i>	फिर से ढालना
recasting of a draft	मसौदे का रूप बदलना
recede <i>vb.</i>	पीछे हटना
receipt	(i) रसीद (ii) प्राप्ति, आगम, पावती
receipt book	रसीद बही
receipt challan	रसीदी चालान
receipts and issues	आगम और निर्गम
receipt register	प्राप्ति रजिस्टर
recipient	पाने वाला, प्राप्ता
receive <i>vb.</i>	पाना, प्राप्त करना, अगवानी करना
receiver	रिसीवर, आदाता
receiving order	आदान आदेश
recent	हाल का, नवीन
recently	अभी हाल में

reception	स्वागत
reception office	स्वागत कार्यालय
receptionist	स्वागतकर्ता
recess	अवकाश
reciprocal	परस्पर, पारस्परिक
reciprocal demand	पारस्परिक माँग
reciprocate <i>vb.</i>	आदान-प्रदान करना, प्रतिदान करना
reciprocity <i>n.</i>	पारस्परिकता
reckless	प्रमत्त, प्रमादपूर्ण
reckless and negligent	प्रमत्त और लापरवाह (व्यक्ति)
recklessly	प्रमादपूर्ण ढंग से
necklessness	प्रमाद
reckon <i>vb.</i>	गिनना, गणना करना
reclaim <i>vb.</i>	सुधारना, खेती के योग्य बनाना
reclaimable	सुधारने योग्य, खेती के योग्य
reclamation	सुधार करना, खेती योग्य बनाना
reclamation of a criminal	अपराधी का सुधार
reclamation of usar land	ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाना
recognise <i>vb.</i>	(i) पहचानना (ii) मान्यता देना
recognised	मान्य
recognised by government	सरकार द्वारा मान्य
recognition	मान्यता
recollect <i>vb.</i>	याद करना, स्मरण करना
recommend <i>vb.</i>	सिफारिश करना
recommendation	सिफारिश
recommendatory	सिफारिशी
reconcile <i>vb.</i>	समाधान करना
reconciliation	समाधान
reconciliation board	समाधान मण्डल
reconciliatory	समाधानकारक
reconnaissance	टोह, जाँच-पड़ताल
reconnaissance survey	जाँच-पड़ताल सर्वेक्षण
reconnoitre <i>vb.</i>	टोह लेना,
reconsider <i>vb.</i>	फिर से विचार करना, पुनर्विचार करना
reconsideration	पुनर्विचार
reconstitute <i>vb.</i>	पुनर्गठन करना



reconvert <i>vb.</i>	पुनः परिवर्तन करना
reconversion	पुनः परिवर्तन, बदलना
record <i>n.</i>	अभिलेख
<i>vb.</i>	अभिलिखित करना
record book	अभिलेख पंजी
record keeper	अभिलेख पाल
record of rights	अधिकार-अभिलेख
record room	अभिलेख कक्ष
record of service	सेवा का अभिलेख
recording	अभिलेखन
recording of evidence	गहादत का अभिलेखन
recorded	अभिलिखित
recorded evidence	अभिलिखित शहादत
recorder	अभिलेखक, अभिलेख यंत्र
recourse	सहारा
to take recourse to	का सहारा लेना
recoverable	शोध्य, साध्य
recover <i>vb.</i>	(i) वसूल करना (ii) स्वास्थ्य लाभ करना (iii) उद्धार करना
recovery	(i) वसूली (ii) स्वास्थ्य लाभ (iii) उद्धार
recovery of debt	कर्ज की वसूली
recovery from illness	स्वास्थ्य लाभ करना, बीमारी से उठना
recovery van	उद्धार यान
recreation	मन बहलाव, मनोरंजन
recriminate <i>vb.</i>	प्रत्यारोप लगाना
recrimination	प्रत्यारोप
recriminatory	प्रत्यारोपी
recrudescence	फिर घटित होना, पुनरावृत्ति
recruit <i>n.</i>	रैग्लूट
<i>vb.</i>	भर्ती करना
recruiting centre	भर्ती केन्द्र
recruiting officer	भर्ती अफसर
recruitment	भर्ती
recruitment rules	भर्ती के नियम
rectification of errors	मूल-सुधार

rectify <i>vb.</i>	भूल-सुधार करना, दुस्त करना, परि- शोधन करना
recouperate <i>vb.</i>	पुनर्लाभ करना, पुनः स्वस्थ होना, पूरा करना
recur <i>vb.</i>	बार-बार घटित होना, आवर्तन
recurrence	आवर्तन
recurring	आवर्ती
recurring charges	आवर्ती प्रकार
recurring expenditure	आवर्ती व्यय
recurring grant	आवर्ती अनुदान
redeem <i>vb.</i>	छुड़ाना, पूरा करना, उद्धार करना
redeem a promise	वचन पूरा करना
redeemable	छुड़ाने योग्य, विमोच्य
redemption	छुड़ाना, विमोचन, उद्धार
redemption charges	विमोचन प्रभार
redemption of mortgage	रेहन छुड़ाना
redistribution	पुनर्वितरण
redistribution of holdings	जोतो का पुनर्वितरण
redraft <i>vb.</i>	फिर से प्रारूप तैयार करना
redress <i>vb.</i>	निराकरण करना
redress of grievances	शिकायतों को दूर करना
reduce <i>vb.</i>	(i) कम करना, घटाना, (ii) पदावनत करना
reduced	(i) घटाया हुआ (ii) पदावनत
reduced fare	घटाया हुआ किराया
reduced rate	घटाया हुआ भाड़ा
reducible	जो घटाया जा सके, घटाने योग्य
reduction	(i) कमी (ii) पदावनति
re-employ <i>vb.</i>	फिर से काम पर लगाना, पुनर्नियुक्त करना
re-employed staff	पुनर्नियुक्त कर्मचारी
re-employment	पुनर्नियोजन
refer <i>vb.</i>	(i) हवाला देना, (ii) निर्देश देना
referred to above	जिसका हवाला ऊपर दिया गया है
please refer to your letter dated	कृपया ता० . . . . . का अपना पत्र देखें
referce	निर्णायक
reference	हवाला, संदर्भ, निर्देश

reference, back	पिछला संदर्भ
reference book	संदर्भ पुस्तक
reference, cross	प्रतिसंदर्भ
with reference to your letter	आपके पत्र के संदर्भ में
reference—previous	पूर्व संदर्भ
reference—register	संदर्भ रजिस्टर, हवाला रजिस्टर
referendum	जनमत
refine <i>vb.</i>	परिष्कार करना
refined	परिष्कृत
refinery	शोधक कारखाना
reflect <i>vb.</i>	(i) प्रतिबिम्बित करना, (ii) आक्षेप लगाना (iii) चिन्तन करना
reflection	(i) परछाई । प्रतिबिम्ब (ii) आक्षेप, (iii) चिन्तन •
reform <i>n.</i>	सुधार
<i>vb.</i>	सुधारना, सुधार करना
reformation	सुधार
reformatory	सुधारालय
reformer	सुधारक
refresher course	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
refuge	शरण, पनाह
refugee	शरणार्थी
refugee rehabilitation	शरणार्थियों का पुनर्वास
refund <i>n.</i>	रकम की वापसी, प्रतिदान
<i>vb.</i>	प्रतिदान करना, ली हुई रकम वापस करना
claim for refund	रकम की वापसी का दावा
time-limit for refund	रकम की वापसी की मियाद
refundable	प्रतिदेय
refunded	प्रतिदत्त
refuse <i>vb.</i>	इनकार करना, न मानना
refusal	इनकार
refute <i>vb.</i>	खण्डन करना
refutation	खण्डन
regenerate <i>vb.</i>	पुनरुद्धार करना
regeneration	पुनरुद्धार
regime	शासन काल
regiment	रेजिमेन्ट

region	प्रदेश
regional	प्रादेशिक
regional commissioner	प्रादेशिक कमिश्नर
regional council	प्रादेशिक परिषद्
register <i>n.</i>	रजिस्टर
<i>vb.</i>	रजिस्टर में दर्ज करना
registered	रजिस्टर्ड
registered letter	रजिस्टर्ड पत्र
registered document	रजिस्टर्ड विलेख
registered office	रजिस्टर्ड कार्यालय
registered post	रजिस्टर्ड डाक
registrar	रजिस्ट्रार
registration	रजिस्ट्री
registration department	रजिस्ट्री विभाग
registration fee	रजिस्ट्री फीस
registration number	रजिस्ट्री नंबर
regression	प्रतिगमन
regressive	प्रतिगामी
regressive tax	प्रतिगामी कर
regret <i>n.</i>	(i) खेद (ii) नकार
<i>vb.</i>	(i) खेद प्रकट करना (ii) नकारना
regret letter	नकार पत्र
regret slip	नकार पर्ची
regretful	खेदपूर्ण
regrettable	खेदजनक
regular <i>adj.</i>	नियमित
regular attendance	नियमित उपस्थिति
regularise <i>vb.</i>	नियमित करना
regularity	नियमितता
regulate <i>vb.</i>	प्रनियमित करना
regulation	प्रनियम
rules and regulations	नियम और प्रनियम
regulated	प्रनियमित
regulator	प्रनियामक
rehabilitate <i>vb.</i>	(i) पुनर्वास करना (ii) पुनर्स्थापित करना
rehabilitation	(i) पुनर्वास (ii) पुनर्स्थापन
rehabilitation administration	पुनर्वास प्रशासन

rehabilitation grant	पुनर्वास अनुदान, पुनर्स्थापन अनुदान
reimburse <i>vb.</i>	भरपाई करना
reimbursement	भरपाई
reinforce <i>vb.</i>	प्रवलित करना
reinforcement	(i) प्रवलन,
reinstate <i>vb.</i>	वहाल करना
reinstatement	वहाली
reiterate <i>vb.</i>	दुहराना
reiterate a demand	माँग को दुहराना
reiterate a policy	नीति को दुहराना
reject <i>vb.</i>	अस्वीकार करना
rejected	अस्वीकृत
rejection	अस्वीकृति
rejoin <i>vb.</i>	प्रत्युत्तर देना
rejoinder	प्रत्युत्तर
rejuvenate <i>vb.</i>	कायाकल्प करना
rejuvenation	कायाकल्प
relapse <i>n.</i>	पुनरावर्तन
<i>vb.</i>	पुनरावर्ती होना
relate <i>vb.</i>	(i) वर्णन करना (ii) सम्बन्ध स्थापित करना
related	सम्बन्धित
relating to	से सम्बन्धित
relation	सम्बन्ध, सम्बन्धी, नातेदार
relative <i>n.</i>	सम्बन्धी, नातेदार
<i>adj.</i>	(i) पारस्परिक (ii) सापेक्षिक
relative seniority	पारस्परिक वरीयता
relatively	सापेक्षतः
relax <i>vb.</i>	ढीला करना, शिथिल करना
relaxation	शिथिलन
relaxation of rules	नियमों का शिथिलन
release <i>vb.</i>	छोड़ना, रिहा करना, मुक्त करना
<i>n.</i>	(i) रिहाई (ii) प्रकाशित समाचार
release, general	सामान्य रिहाई
release order	रिहाई का आदेश
release on bail	जमानत पर रिहाई
release on parole	अभिवचन पर रिहाई

relevancy	संगति
relevant	(i) संगत (ii) तत्सम्बन्धी
irrelevant	असंगत
reliability	विश्वसनीयता
reliable	विश्वसनीय
reliance	विश्वास
relie vb.	विश्वास करना, निर्भर रहना
relief	(i) सहायता (ii) राहत
relief centre	सहायता केन्द्र
relief fund	सहायता निधि
relief map	प्राकृतिक मानचित्र
relief measures	सहायता
relief train	सहायता गाड़ी
relief works	सहायता कार्य
relieve vb.	(i) कार्यमुक्त करना
to be relieved	कार्यमुक्त होना, भारमुक्त होना
relieved officer	कार्यमुक्त अफसर
relieving	भारग्राही
relieving hand	भारग्राही व्यक्ति
relieving officer	भारग्राही अफसर
religion	धर्म
religious	धार्मिक
religious rites	धार्मिक संस्कार, धार्मिक कृत्य
relinquish vb.	(अधिकार) छोड़ना, उत्सर्ग करना
relinquishment	(अधिकार) त्याग, उत्सर्ग
relinquishment of title	स्वत्व-त्याग
reluctance	अनिच्छा
reluctant	अनिच्छुक
reluctantly	अनिच्छा से
remain vb.	ठहरना, बना रहना, बाकी होना
remains	अवशेष
remainder	बाकी, शेष
remaining	
remand n.	वापसी, प्रतिप्रेषण
vb.	वापस भेजना, प्रतिप्रेषण करना
remand order	वापसी आदेश, प्रतिप्रेषण आदेश

remand a suit	मुकदमे को वापस भेजना
remark <i>n.</i>	कथन, मत प्रकटन, टीका-टिप्पणी
<i>vb.</i>	कहना, मत प्रकट करना, टीका-टिप्पणी
remarks	करना
remarkable	असाधारण
remarkable progress	असाधारण प्रगति
remedial <i>adj.</i>	प्रतिकारक
remedial measures	प्रतिकारक उपाय
remedy <i>n.</i>	इलाज, उपचार, प्रतिकार
<i>vb.</i>	इलाज करना, उपचार करना, प्रतिकार
	करना
remind <i>vb.</i>	याद दिलाना
reminder	याद दिहानी
remise <i>vb.</i>	(i) छूट देना (ii) क्षमा करना
remission	(i) छूट (ii) क्षमा, माफ़ी
remission in rent and revenue	लगान और मालगुजारी में छूट
remit <i>vb.</i>	भेजना, प्रेषण करना
remittance	प्रेषण, भेजी हुई रकम
remittance head	प्रेषण शीर्षक
remittance register	प्रेषण रजिस्टर
remitted	प्रेषित
remitter	भेजने वाला, प्रेषक
remnant	अवशेष
remodel <i>vb.</i>	ढाँचा बदलना
remorse	पछतावा, पश्चात्ताप
remorseless	निर्दय, निर्दयतापूर्ण
remote <i>adj.</i>	दूरस्थल, दूरवर्ती
remote cause	दूरस्थ कारण
remote effect	दूरस्थ प्रभाव
removal	हटाना
removal of disqualifications	अनर्हताओं का हटाना
removal from service	नौकरी से हटाना
remove <i>vb.</i>	हटाना
remunerate <i>vb.</i>	पारिश्रमिक देना, मेहनताना देना
remuneration	पारिश्रमिक, मेहनताना
remunerative	लाभकारी
renew <i>vb.</i>	नवीकरण करना

renew a bond	बन्ध का नवीकरण करना
renew a license	लाइसेन्स का नवीकरण करना
renewal	नवीकरण
renewed	नवीकृत
renounce <i>vb.</i>	(i) अधिकार-त्याग करना (ii) सन्यास लेना
renounce title	स्वत्व त्याग करना
renunciation	(i) अधिकार-त्याग (ii) संन्यास
rent <i>n.</i>	भाड़ा, लगान
<i>vb.</i>	भाड़े पर लेना, भाड़े पर देना
rent assessment	भाड़े का निर्धारण, लगान का निर्धारण
rent deduction	भाड़े में कमी, लगान में कमी
rent control	भाड़ा-नियंत्रण
rent controller	भाड़ा नियंत्रक
rent free	बिना भाड़े का, बिना लगान का
rent free land	बिना लगान की जमीन
rent free quarters	बिना भाड़े का मकान
rental	(i) कुल भाड़ा, कुल लगान (ii) भाड़ा-सम्बन्धी, लगान सम्बन्धी
rental value	वार्षिक भाड़ा
rented	भाड़े पर
reorientate <i>vb.</i>	नयी दिशा देना, परिष्कार करना
reorientation	नयी दिशा, परिष्कार
repair <i>n.</i>	मरम्मत
<i>vb.</i>	मरम्मत करना
major repairs	बड़ी मरम्मत
minor repairs	मामूली मरम्मत
running repairs	मामूली मरम्मत
repairs and maintenance	मरम्मत और अनुरक्षण
repairable	मरम्मत करने योग्य
reparations	धतिपूर्ति
repatriate <i>vb.</i>	किमी व्यक्ति को उसके अपने देश वापस भेजना, प्रत्यावर्तन करना
repatriation	प्रत्यावर्तन
repatriation of war prisoners	युद्धबन्धियों का प्रत्यावर्तन
repay <i>vb.</i>	लोटाना, प्रतिदान करना
repayable	प्रतिदेय



repayment	लौटाना, प्रतिदान
repeal <i>n.</i>	निरसन
<i>vb.</i>	निरसन करना
repeat <i>vb.</i>	दोहराना, फिर करना, बार-बार होना
repeating signal } repeater }	प्रति संकेत
repent <i>vb.</i>	पछताना
repentance	पछतावा
repetition	पुनरावृत्ति
replace <i>vb.</i>	बदलना
replacement	बदलाव
replenish	पूरा करना, प्रतिपूर्ति करना
replenishment	प्रतिपूर्ति
replica	प्रतिरूप
reply <i>n.</i>	उत्तर, जवाब
<i>vb.</i>	उत्तर देना, जवाब देना
reply paid telegram	जवाबी तार
report <i>n.</i>	रिपोर्ट
<i>vb.</i>	रिपोर्ट करना
report for duty	काम पर आना
report of an occurrence	घटना की रिपोर्ट
reported decision	तथाकथित निर्णय
reporter	रिपोर्टर
reporting officer	रिपोर्ट देने वाला अफसर
represent <i>vb.</i>	(i) प्रतिनिधित्व करना (ii) प्रतिवेदन करना
represent one's case	अपने मामले का प्रतिवेदन करना
representation	(i) प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधान (ii) प्रतिवेदन
majority representation	बहुसंख्यकों का प्रतिनिधित्व
minority representation	अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व
proportionate representation	समानुपातिक प्रतिनिधित्व
representation in services	सेवाओं में प्रतिनिधित्व
Peoples' Representation Act	जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
representative	प्रतिनिधि
repress <i>vb.</i>	दमन करना
repression	दमन

relieve <i>vb.</i>	फाँसी रोकना, प्राणदण्ड रोकना
reprisal	प्रतिशोध, बदला
reproduce <i>vb.</i>	(i) प्रजनन करना (ii) उपजाना
	(iii) उद्धृत करना
reproduction	(i) प्रजनन (ii) उत्पादन
republic	गणतंत्र
republic day celebrations	गणतंत्र दिवस समारोह
republican	गणतंत्री, गणतंत्रात्मक
repudiate <i>vb.</i>	प्रत्याख्यान करना, अस्वीकार करना
repudiate a debt	कर्ज अस्वीकार करना
repudiate a treaty	सन्धि का प्रत्याख्यान करना
repudiation	प्रत्याख्यान, अस्वीकृति
repugnance	विरोध
repugnant	विरुद्ध
repulse <i>vb.</i>	पीछे हटाना, विकर्षण करना
repulsive	विकर्षक
request <i>n.</i>	प्रार्थना, निवेदन
<i>vb.</i>	प्रार्थना करना, निवेदन करना
require <i>vb.</i>	अपेक्षा करना
required	अपेक्षित
requirement	अपेक्षा, आवश्यकता
requisite <i>n.</i>	अपेक्षित वस्तु
<i>adj.</i>	अपेक्षित
requisition <i>n.</i>	(i) अधिग्रहण (ii) माँग
<i>vb.</i>	अधिग्रहण करना
requisition of land	भूमि अधिग्रहण
requisition slip	माँग पर्ची
requisitioned house	अधिग्रहीत मकान
requisitioning authority	अधिग्रहण अधिकारी
rescind <i>vb.</i>	अपखण्डन करना
research	शोध, अनुसंधान
research institute	शोध संस्थान, अनुसंधान संस्थान
research officer	शोध अधिकारी
research work	शोध कार्य, अनुसंधान कार्य
research scholar	शोध विद्यार्थी
research station	शोध केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र
reservation	आरक्षण, संकोच

reservation of berth	गायिका आरक्षण
reservation of seat	आसन आरक्षण
reservation in legislature	विधान मण्डल में आरक्षण
reservation in services	नौकरियों में आरक्षण
reserve <i>vb.</i>	आरक्षित करना
reserve force	आरक्षित बल
reserved	आरक्षित
reserved accommodation	आरक्षित स्थान
resettle <i>vb.</i>	पुनः स्थापित करना
resettlement	पुनः स्थापन
residence	निवास, निवास-स्थान
resident	(i) निवासी (ii) स्थानिक, मुकाषा
resident magistrate	स्थानिक मजिस्ट्रेट, मुकामी मजिस्ट्रेट
residential	निवास-सम्बन्धी
residential accommodation	निवास स्थान
non-residential	निवासेतर, गैररिहायशी
residential staff quarters	कर्मचारी वासा
residual	बाकी, अवशिष्ट
residuary powers	अवशिष्ट शक्तियाँ
residue	अवशेष, शेष
resign <i>vb.</i>	इस्तीफा देना, पदत्याग करना
resignation	इस्तीफा, पदत्याग
letter of resignation	त्याग-पत्र
resist <i>vb.</i>	प्रतिरोध करना
resistance	प्रतिरोध
resolve <i>vb.</i>	संकल्प करना
resolute	कृतसंकल्प, दृढ
resolution	संकल्प
resources	साधन
resourceful	साधन-सम्पन्न
respect	(i) आदर (ii) सम्बन्ध
in respect of	के सम्बन्ध में
respectable	आदरणीय
respective	तत्सम्बन्धी
respectively	क्रमशः
respond <i>vb.</i>	उत्तर देना, प्रतिक्रिया दिखाना

respite	फुरसत, मोहलत
respondant	उत्तरवादी
response	उत्तर, प्रतिक्रिया
responsibility	उत्तरदायित्व, जवाबदेही
responsibility—collective	सामूहिक उत्तरदायित्व
responsibility—joint	संयुक्त उत्तरदायित्व
responsible	उत्तरदायी, जवाबदेह
rest house	आराम घर, विश्रामगृह
restitution	वापसी, प्रत्यर्पण
restoration	(i) पुनः स्थापन, वापसी
restore <i>vb.</i>	(i) पुनः स्थापित करना (ii) पूर्ववत् करना (iii) वापस करना
restrain <i>vb.</i>	(i) रोकना, (ii) अवरोध करना
restraint	अवरोध
restraint by court	अदालत द्वारा अवरोध
restrict <i>vb.</i>	प्रतिबन्ध लगाना, पाबन्दी लगाना
restricted	प्रतिबन्धित
restricted leave	प्रतिबन्धित छुट्टी
restriction	प्रतिबन्ध, पाबन्दी
restrictive	प्रतिबन्धक
restrictive orders	प्रतिबन्धक आदेश
result	परिणाम, नतीजा, परीक्षा-फल
resultant	परिणामी
resultant reaction	परिणामी प्रतिक्रिया
resultant vacancy	परिणामी रिक्ति
resume <i>vb.</i>	पुनर्ग्रहण करना
resume duty	कार्य-भार पुनर्ग्रहण करना
resumption	पुनर्ग्रहण
retail	फुटकर
retail dealer	फुटकर व्यापारी
retail price	फुटकर दाम
retail sale	फुटकर विक्री
retailer	फुटकर व्यापारी
retain <i>vb.</i>	प्रतिधारण करना
retaliate <i>vb.</i>	वदला लेना, प्रतिकार करना
retaliation	वदला, प्रतिकार
retard <i>vb.</i>	गति रोकना

retention	प्रतिधारण
retention in service	सेवा में प्रतिधारण
retire <i>vb.</i>	(i) पीछे हटना (ii) सेवानिवृत्त होना
retired hand	सेवानिवृत्त व्यक्ति
retirement	सेवानिवर्तन
retirement benefit	सेवा निवर्तन लाभ
retirement from service	सेवानिवर्तन
age of retirement	सेवानिवर्तन-आयु
retiring rooms	विश्रामालय
retort <i>n.</i>	करारा जवाब, प्रत्यारोप
<i>vb.</i>	प्रत्यारोप लगाना
retreat	पीछे हटना, मोर्चा छोड़ना
retrench <i>vb.</i>	छँटनी करना, छाँटना
retrenched personnel	छँटे हुए कर्मचारी
retrenchment	छँटनी
retrieve <i>vb.</i>	सुधारना, क्षतिपूर्ति करना.
retrievable	सुधारने योग्य, क्षतिपूर्ति योग्य
retrograde	प्रतिगामी
retrogression	प्रतिगमन
retrogressive	प्रतिगामी
retrospect <i>n.</i>	भूतलक्षी दृष्टि
retrospective <i>adj.</i>	भूतलक्षी, पूर्वपेक्षी
retrospective effect	भूतलक्षी प्रभाव
retrospection	भूतलक्षी दृष्टि, गतानुदर्शन
return <i>n.</i>	वापसी
<i>vb.</i>	(i) लौटना, वापस होना, (ii) लौटाना, वापस करना
return journey	वापसी यात्रा
return journey ticket	वापसी यात्रा टिकट
return journey voucher	वापसी यात्रा वाउचर
return of election expenses	चुनाव-व्यय का विवरण
by return post	लौटती डाक से
returning officer	चुनाव अफसर, निर्वाचन अफसर
reevaluation	पुनर्मूल्यन
reevaluation of assets	परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यन
reveal <i>vb.</i>	प्रकट करना
revenue	(i) राजस्व (ii) आय, आमदनी

revenue court	माल अदालत, राजस्व न्यायालय
revenue duty	राजस्व शुल्क
revenue expenditure	राजस्व लेखे का व्यय
revenue receipts	राजस्व लेखे की प्राप्तियाँ
revenue records	राजस्व अभिलेख
government revenue	सरकारी मालगुजारी
land revenue	माल गुजारी
reversal	(i) प्रतिवर्तन (ii) प्रतिचालन, घुमाना
reversal facilities (Rly)	स्टेशन पर गाड़ी घुमाने की सुविधाएँ
reverse <i>adj.</i>	(i) उलटा (ii) प्रतिवर्ती
<i>vb.</i>	उलटना, फिरना, प्रतिवर्तन करना
on the reverse	उलटी ओर
in reverse order	विलोमक्रम में
reversion	(i) प्रत्यावर्तन (ii) उत्तर भोग
reversionary	प्रत्यावर्ती
reversionary honus	प्रत्यावर्ती वोनस
reversioner	उत्तरभोगी
revert <i>vb.</i>	प्रत्यावर्तन करना
reverted	प्रत्यावर्तित
review <i>n.</i>	समीक्षा
<i>vb.</i>	समीक्षा करना
revise <i>vb.</i>	(i) संशोधन करना (ii) पुनर्विचार करना
revised	संशोधित
revised budget	संशोधित बजट
revised estimates	संशोधित अनुमान
revised list	संशोधित सूची
revised price	संशोधित मूल्य
revised scale	संशोधित वेतनमान
revision	(i) पुनर्विचार (ii) संशोधन
revision application	पुनर्विचार
revision of pay scale	वेतनमान का संशोधन
revival	पुनर्जीवन
revive <i>vb.</i>	पुनर्जीवित करना
revocation	प्रतिसंहरण
revoke <i>vb.</i>	प्रतिसंहरण करना
revolt <i>n.</i>	क्रान्ति

<i>vb.</i>	क्रान्ति करना
revolting	वीभत्स, घिनौना
revolution	क्रान्ति
revolutionary	क्रान्तिकारी
reward <i>n.</i>	पुरस्कार
<i>vb.</i>	पुरस्कार देना
right <i>n.</i>	अधिकार
<i>adj.</i>	दाहिना, ठीक
right of appeal	अपील अधिकार
right of citizenship	नागरिक अधिकार
right of easement	सुखाधिकार
right of occupancy	भोग अधिकार
right of preemption	पूर्वक्रय अधिकार
rightful	अधिकारयुक्त, अधिकारपूर्ण
rightist	दक्षिण पंथी
rigid	अनम्य
rigid constitution	अनम्य संविधान
rigidity	अनम्यता
rigour	कठोरता
rigorous	कठोर, सख्त
rigorous imprisonment	कठोर कारावास, सख्त कैद
riot	बलवा, दंगा-फ़साद
rioter	बलवाई
ritous	बलवाई
ritous mob	बलवाई भीड़
rise <i>n.</i>	उत्कर्ष, उदय, वृद्धि
<i>vb.</i>	उठना, उगना, उन्नति करना, बढ़ना
rise in demand	माँग में वृद्धि
rise in cost of living	निर्वाह-व्यय में वृद्धि
risk <i>n.</i>	जोखिम
<i>vb.</i>	जोखिम उठाना
risk note	जोखिम नोट
risky	जोखिमी
rite	संस्कार
rival	प्रतिस्पर्धी
rivalry	प्रतिस्पर्धी
river training	नदी की धारा को नियंत्रित करना

river transport	नदी परिवहन
road authority	(i) सड़क अधिकारी (ii) सड़क अधिकरण
road gradient	सड़क का चढ़ाव-उतार, सड़क की प्रवणता
road transport	सड़क परिवहन
road over-bridge	ऊपरी सड़क-पुल
rob <i>vb.</i>	लूटना
robber	लुटेरा
robbery	लूट
role	नियत कार्य
roll	नामावली
roll call	हाजिरी
roll number	रोल नंबर
root	जड़, मूल
roster	रोस्टर
rotate <i>vb.</i>	घूमना, परिभ्रमण करना
rotation	(i) घूमना, चक्कर (ii) वारी
by rotation	वारी-वारी से
rough calculation	मोटा हिसाब, स्थूल गणना
rough copy	कच्ची नकल
rough draft	कच्चा मसौदा
rough estimates	स्थूल अनुमान
rough measurement	स्थूल माप
rough sketch	कच्चा रेखाचित्र
rough weather	तूफानी मौसम
roughly	स्थूल रूप से, रुखाई के साथ
roughness	रुखापन, कर्कशता
rounding off	पूर्णिकन
route <i>n.</i>	मार्ग
route mileage	मार्ग-मील
routine	नित्यकर्म, नियमी कार्य, रोज़ का काम
routine case	नियमी मामला, नियमी प्रकरण
routine draft	नियमी मसौदा
routine inspection	नियमी निरीक्षण
routine matter	नियमी मामला
routine note	नियमी नोट
routine work	नियमी कार्य, नित्यकर्म



vb.	क्रान्ति करना
revolting	वीभत्स, धिनीना
revolution	क्रान्ति
revolutionary	क्रान्तिकारी
reward n.	पुरस्कार
vb.	पुरस्कार देना
right n.	अधिकार
adj.	दाहिना, ठीक
right of appeal	अपील अधिकार
right of citizenship	नागरिक अधिकार
right of easement	सुखाधिकार
right of occupancy	भोग अधिकार
right of preemption	पूर्वक्रय अधिकार
rightful	अधिकारयुक्त, अधिकारपूर्ण
rightist	दक्षिण पंथी
rigid	अनम्य
rigid constitution	अनम्य संविधान
rigidity	अनम्यता
rigour	कठोरता
rigorous	कठोर, सख्त
rigorous imprisonment	कठोर कारावास, सख्त कैद
riot	बलवा, दंगा-फ़साद
rioter	बलवाई
ritous	बलवाई
ritous mob	बलवाई भीड़
rise n.	उत्कर्ष, उदय, वृद्धि
vb.	उठना, उगना, उन्नति करना, बढ़ना
rise in demand	माँग में वृद्धि
rise in cost of living	निर्वाह-व्यय में वृद्धि
risk n.	जोखिम
vb.	जोखिम उठाना
risk note	जोखिम नोट
risky	जोखिमी
rite	संस्कार
rival	प्रतिस्पर्वा
rivalry	प्रतिस्पर्धी
river training	नदी की धारा को नियंत्रित करना

river transport	नदी परिवहन
road authority	(i) सड़क अधिकारी (ii) सड़क अधिकरण
road gradient	सड़क का चढ़ाव-उतार, सड़क की प्रवणता
road transport	सड़क परिवहन
road over-bridge	ऊपरी सड़क-पुल
rob <i>vb.</i>	लूटना
robber	लुटेरा
robbery	लूट
role	नियत कार्य
roll	नामावली
roll call	हाजिरी
roll number	रोल नंबर
root	जड़, मूल
roster	रोस्टर
rotate <i>vb.</i>	घूमना, परिभ्रमण करना
rotation	(i) घूमना, चक्कर (ii) बारी
by rotation	बारी-बारी से
rough calculation	मोटा हिसाब, स्थूल गणना .
rough copy	कच्ची नकल
rough draft	कच्चा मसौदा
rough estimates	स्थूल अनुमान
rough measurement	स्थूल माप
rough sketch	कच्चा रेखाचित्र
rough weather	तूफानी मौसम
roughly	स्थूल रूप से, रुखाई के साथ
roughness	दृखापन, कर्कशता
rounding off	पूर्णकन
route <i>n.</i>	मार्ग
route mileage	मार्ग-मील
routine	नित्यकर्म, नियमी कार्य, रोज का काम
routine case	नियमी मामला, नियमी प्रकरण
routine draft	नियमी मसौदा
routine inspection	नियमी निरीक्षण
routine matter	नियमी मामला
routine note	नियमी नोट
routine work	नियमी कार्य, नित्यकर्म

routing signal	मार्ग-संकेत
roving ambassador	पर्यटक राजदूत
royalty	(i) राज घराना (ii) स्वामित्व
rudiment	(i) तत्व, मूल सिद्धान्त (ii) प्रारंभ
rudimentary	(i) प्रारंभिक
ruin <i>n.</i>	वर्वादी, विनाश
ruin <i>vb.</i>	वर्वाद करना, नष्ट करना, विनाश करना
ruinous	विनाशकारी
ruins	खण्डहर
rule <i>n.</i>	नियम
<i>vb.</i>	शासन करना
rule out	नियम विरुद्ध ठहराना
rules of business	कार्य-नियम
rules of conduct	आचार-नियम
rule of law	विधि-नियम
rules of procedure	प्रक्रिया-सम्बन्धी नियम
rules and regulations	नियम और विनियम
ruler	शासक, हलर
ruling <i>n.</i>	व्यवस्था
ruling <i>adj.</i>	नियंत्रक
ruling gradient	नियंत्रक चढ़ाव-उतार
running repairs	मामूली मरम्मत
running room (Rly.)	परिचालन कमरा
rural	देहाती, ग्रामीण, ग्राम्य, ग्राम-
rural areas	देहाती क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र
rural economics	ग्रामीण अर्थ व्यवस्था
rural development	ग्राम-विकास
rural reconstruction	गाँवों का पुनर्निर्माण
rural sanitation	गाँवों की सफाई
rural uplift	गाँवों की तरक्की, ग्रामोत्थान

## S

<p>sabotage <i>n.</i>  <i>vb.</i>  act of sabotage  saboteur  sacrifice <i>n.</i>  <i>vb.</i>  sacrificing  sacrilege  sacrosanct  sacrosancity  safe <i>adj.</i>  <i>n.</i>  safe-conduct  safe-custody  safeguard <i>n.</i>  <i>vb.</i>  safeguard one's interests  safety  safety manual  salaried post  salary  salary bill  leave salary  sale <i>n.</i>  sale deed (sale papers)  sale proceeds  sale tax  sale transaction  sale-cash  sale-credit  sale by auction  sale on commission</p>	<p>तोड़-फोड़, अन्तर्घात  तोड़-फोड़ करना, अन्तर्घात करना  तोड़-फोड़ की कार्रवाई, अन्तर्घात  तोड़-फोड़ करने वाला, अन्तर्घाती  त्याग, बलिदान, कुर्बानी  त्याग करना, बलिदान करना  त्यागी  पवित्र स्थान को अपवित्र करना,  परम पवित्र, अलंघ्य  परम पवित्रता, अलंघ्यता  (i) सुरक्षित (ii) निरापद  तिजोरी  अभय दान, यात्रा-सुरक्षा, निरापद संचालन  अभिरक्षा, हिरासत  परिरक्षा, बचाव  परिरक्षा करना, बचाव करना  अपने हितों की परिरक्षा करना  बचाव, सुरक्षा  सुरक्षा नियमावली  वैतनिक पद  वेतन, तनह्वाह  वेतन-बिल  छुट्टी वेतन  विक्री  विक्री नामा  विक्री की आमदनी  विक्री-कर  विक्री  नकद विक्री  उधार विक्री  नीलाम द्वारा विक्री  कमीशन पर विक्री</p>
--	--

sales return	विक्री-विवरण
salesman	विक्रेता
salesmanship	विक्रय कर्म, विक्रय कला
salient <i>adj.</i>	मुख्य
salient features	विशेषताएँ
saloon car	सैलून कार
salubrious	स्वास्थ्यकर
salutary	हितकर, स्वास्थ्यवर्धक
salutary effect	हितकर प्रभाव
salutation	अभिवादन
salute <i>n.</i>	सलामी, अभिवादन
<i>vb.</i>	सलामी देना, अभिवादन करना
salvage	उद्धार, निस्तार, बचाया हुआ माल आदि
salvation	मुक्ति, उद्धार
sample	नमूना
sample inquiry	नमूना जाँच
sample orders	नमूना आदेश
sample survey	नमूना सर्वेक्षण
sanatorium	आरोग्यशाला
sanction <i>n.</i>	मंजूरी, सम्मोदन
<i>vb.</i>	मंजूरी देना, सम्मोदन करना
sanctioned	मंजूर सम्मोदित,
sanctioned cadre	मंजूर संवर्ग, सम्मोदित संवर्ग
sanctioned estimates	मंजूर अनुमान, सम्मोदित अनुमान
sanctioned grant	मंजूर अनुदान, सम्मोदित अनुदान
sanctioned scale	मंजूर मान, सम्मोदित मान
sanctioned strength	मंजूर संख्या, सम्मोदित संख्या
sanctioning authority	सम्मोदन अधिकारी
sanctions	प्रतिबन्ध
economic sanctions	आर्थिक प्रतिबन्ध
sanctity	पवित्रता
sanctuary	पवित्र स्थान, शरण-स्थल, बचाव की जगह
sane	स्वस्थ,
sane view	स्वस्थ दृष्टिकोण
sanitary	सफ़ाई-सम्बन्धी, आरोग्यकर
sanitary charges	सफ़ाई खर्च
sanitary inspector	सफ़ाई निरीक्षक

sanitation	सफ़ाई
sarcasm	ताना, व्यंग्य
sarcastic	व्यंग्यपूर्ण
sarcastically	ताने के रूप में, व्यंग्य के रूप में
satellite	उपग्रह, अनुगामी, पिछलग्गू
satisfactory	सन्तोषप्रद
satisfied	सन्तुष्ट
satisfy <i>vb.</i>	सन्तुष्ट करना, पूरा करना, इत्मीनान करना
satisfy oneself (with regard to certain facts)	इत्मीनान करना
satisfy conditions	शर्तों को पूरा करना
satisfying	सन्तोषप्रद
save <i>vb.</i>	बचाना, संचय करना
savings	बचत
savings bank	बचत बैंक
savings certificate	बचत प्रमाणपत्र
saving deposit	बचत निक्षेप
saviour	उद्धारक, मुक्तिदाता
scaffold	(i) फाँसी का तख्ता (ii) मंचान
scale <i>n.</i>	पैमाना, मापनी, मान, मात्रा
<i>vb.</i>	मापना,
junior scale	कनीय मान
junior administrative scale	कनीय प्रशासी मान
senior scale	वरीय मान
senior administrative scale	वरीय प्रशासी मान
scale of diet	आहार की मात्रा
scale of pay	वेतन-मान
on a large scale	बड़े पैमाने पर
scandal	अपवाद, आक्षेप
scandalize <i>vb.</i>	अपवाद करना, आक्षेप लगाना
scandal monger	अपवादक, आक्षेपक
scandal mongering	अपवाद करना
scandalous	अपवादपूर्ण, आक्षेपपूर्ण
scant	अपर्याप्त
scant attention	अपर्याप्त ध्यान, उपेक्षा
scarce	दुर्लभ

scarcity	दुर्लभता, दुर्भिक्ष
scarcity conditions	दुर्भिक्ष की स्थिति
scene	दृश्य
sceptic	संशयशील, संशयात्मा
sceptical	संशयात्मक
scepticism	संशय
schedule	अनुसूची
according to schedule	अनुसूची के अनुसार, निर्धारित समय के अनुसार
schedule of demands	मार्गों की अनुसूची
scheduled	अनुसूचित
scheduled bank	अनुसूचित बैंक
scheduled castes	अनुसूचित जातियाँ
scheduled rate	अनुसूचित दर
scheduled time	अनुसूचित समय
scheme n.	योजना
vb.	योजना बनाना
scheming	कुचक्री
scholar	(i) विद्वान (ii) विद्यार्थी
scholarly	विद्वत्तापूर्ण
scholarship	(i) विद्वत्ता (ii) छात्रवृत्ति, बजीफ़
scholarship holder	वृत्तिछात्र, बजीफ़ादार
school	(i) स्कूल, पाठशाला, विद्यालय (ii) विचार-धारा
schooling	शिक्षा-दीक्षा
science	विज्ञान
scientific	वैज्ञानिक, विज्ञान-सम्बन्धी
scientific development	वैज्ञानिक विकास
scientific investigation	वैज्ञानिक अनुसन्धान
scientific investigation training school	वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रशिक्षण स्कूल
scientist	वैज्ञानिक
scope	क्षेत्र, दायरा, गुंजाइश
scope for development	विकास के लिए गुंजाइश
scorched-earth policy	सर्वधर नीति
score	(i) कोड़ी (ii) कारण, निमित्त
on that score	उस कारण

scorn n.	तिरस्कार
vb.	तिरस्कार करना
scornful	तिरस्कारपूर्ण
scourage	दैवी प्रकोप
scout n.	(i) स्काउट, (ii) भेदिया
vb.	(i) भेद लेना, जासूसी करना (ii) हँसी उड़ाना
scouting	स्काउटिंग
screen n.	पर्दा, चित्रपट्ट
vb.	आश्रय देना, छिपाना
screen a criminal	अपराधी को आश्रय देना
screening (medical)	एक्स-रे जाँच
script	लिपि, हस्तलेख
scripture	धर्मग्रन्थ
scruple	उचित और अनुचित का संकोच, आचारनिष्ठा
scrupulous	संकोची, आचारनिष्ठ
scrupulously honest	परम सत्यनिष्ठ, अत्यन्त ईमानदार
scrutinize vb.	परिनिरीक्षण करना
scrutinizer	परिनिरीक्षक
scrutiny	परिनिरीक्षा
scuffle	हाथापाई
sculpture	मूर्तिकला
scurrilous	(i) बदज्ञवान (ii) अश्लील
sea-borne	समुद्री रास्ते से लाया हुआ, समुद्री-
sea-borne trade	समुद्री व्यापार
sea-plane	समुद्री विमान
sea-port	बन्दरगाह
sea-route	समुद्री मार्ग
sea-warfare	समुद्री लड़ाई
seal n.	मुहर
vb.	मुहरबन्द करना
sealed	मुहरमुबन्द
sealed tender	मुहरबन्द टेण्डर
search	खोज, तलाश, तलाशी
take a search	तलाशी लेना
search light	खोज-वत्ती
search party	खोज दल



search warrant	तलाशी का वारन्ट
season	मौसम, ऋतु
season ticket	आवधिक टिकट
seasonal	मौसिमी, फ़सली
seasonal occupation	मौसिमी कारवार
seasonal trend	मौसिमी रुख
seasoned	अभ्यस्त, अनुभवी, पक्का
seasoned criminal	अभ्यस्त अपराधी
secede <i>vb.</i> (to withdraw)	अलग होना, निर्गमन करना
secession	निर्गमन
second <i>vb.</i>	समर्थन करना, सहमति प्रकट करना
<i>adj.</i>	दूसरा, द्वितीय, गौण
second appeal	दूसरी अपील
second hand	पुराना, किसी अन्य स्रोत से प्राप्त ( समाचार आदि )
secondarily	गौण रूप से, गौणतः
secondary	(i) गौण, (ii) माध्यमिक
secondary education	माध्यमिक शिक्षा
of secondary importance	गौण महत्व का
secondar	समर्थक
secrecy	गुप्तता
oath of office and secrecy	कार्यभार और गुप्तता की शपथ
secret <i>n.</i>	गुप्त बात, रहस्य
<i>adj.</i>	गुप्त, रहस्यमय
secret ballot	गुप्त मतदान
secret cover	गुप्त लिफ़ाफ़ा
secret document	गुप्त दस्तावेज़, गुप्त प्रलेख
secret enquiry	गुप्त जाँच
secret instructions	गुप्त हिदायतें
secret meeting	गुप्त बैठक
secret most	अतिगुप्त
secret papers	गुप्त कागज़
secret service money	गुप्त सेवा धन
secretarial	सचिवालय-सम्बन्धी, कार्यालय-सम्बन्धी
secretariat	सचिवालय
secretariat association	सचिवालय संघ

secretariat staff	सचिवालय कर्मचारी
cabinet secretariat	मंत्रिमण्डल सचिवालय
central secretariat	केन्द्रीय सचिवालय
president's secretariat	राष्ट्रपति का सचिवालय
prime minister's secretariat	प्रधान मंत्री का सचिवालय
state secretariat	राज्य सचिवालय
secretary	सचिव
additional secretary	अपर सचिव
assistant secretary	सहायक सचिव
chief secretary	मुख्य सचिव
deputy secretary	उप सचिव
joint secretary	सह सचिव
under secretary	अनु सचिव
secretary general	महा सचिव
sect	सम्प्रदाय
sectarian	साम्प्रदायिक
sectarianism	साम्प्रदायिकता
section	अनुभाग, खण्ड, वर्ग
section officer	अनुभाग अफसर
sectional	(i) अनुभागी (ii) वर्गगत
sectional carriage	अनुभागी डिब्बा
sectional interests	वर्गगत हित
sector	क्षेत्र
private sector	निजी क्षेत्र
public sector	सरकारी क्षेत्र
secular	लौकिक, धर्मनिरपेक्ष
secular democracy	धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र
secular state	धर्मनिरपेक्ष राज्य
secularism	लौकिकवाद, धर्मनिरपेक्षवाद
secularity	लौकिकता, धर्मनिरपेक्षता
secure <i>vb.</i>	पाना, प्राप्त करना, सुरक्षित रखना, जमानत करना
<i>adj.</i>	सुरक्षित
security	(i) सुरक्षा (ii) जमानत (iii) हुण्डी
security for good conduct	नेकचलनी के लिए जमानत, सदाचार के लिए जमानत
security bond	सुरक्षा बन्ध

security council	सुरक्षा परिषद्
security deposit	जमानत निक्षेप
security money	जमानत की रकम
security measures	सुरक्षा के उपाय
security press	सुरक्षा प्रेस
security police	सुरक्षा पुलिस
government security	सरकारी हुण्डी
personal security	वैयक्तिक सुरक्षा
public security	सार्वजनिक सुरक्षा
sedentary	(i) आलसी, सुस्त (ii) बैठे रहने का आदी
sedentary habit	बैठने की आदत
sedentary work	बैठ कर किया जाने वाला काम
sedition	राजद्रोह
seditious	राजद्रोही
seduce <i>vb.</i>	विलोभन करना
seducible	विलोभ्य
seduction	विलोभन
seductive	विलोभी, विलोभक
seed nursery	बीज-रोपणी
seed-store	बीज गोदाम
seeding time	बोने का समय
seedling	बीजू पौधा, नया पौधा, बीजांकुर
segregate <i>vb.</i>	अलगाना
segregation	अलगाना, अलगाव
seismogram	भूकम्प लेख
seismograph	भूकम्प-यंत्र, भूकम्प सूचक यंत्र
seismology	भूकम्प विज्ञान
seize <i>vb.</i>	पकड़ना, जप्त करना, अभिग्रहण करना
seizer	जप्ती, अभिग्रहण
seizer list	अभिग्रहीत माल की सूची, जप्त माल की सूची
select <i>vb.</i>	चुनना, वरण करना
select committee	प्रवर समिति
selected	चुना हुआ, वरित
selection	चुनाव, वरण
selection board	वरण मण्डल
selection committee	वरण समिति

selection grade	वरण ग्रेड
selection post	वरण पद
non-selection post	अ-वरण पद
selective process	वरण-प्रक्रम
self-confidence	आत्मविश्वास
self-acquired	स्वयं उपाजित
self-adjusting	अपने-आप ठीक होने वाला (यंत्र आदि)
self confidence	आत्मविश्वास
self-conscious	आत्मचेता
self-consciousness	आत्मचेतना
self-contained	स्वतःपूर्ण, स्वयंपूर्ण
self-contained note	स्वतः पूर्ण नोट
self-control	आत्म-संयम, अपने पर काबू
self-defence	अपना बचाव, आत्म-रक्षा
self-determination	आत्मनिर्णय
right of self-determination	आत्मनिर्णय का अधिकार
self-evident	स्वयं सिद्ध
self-governing	स्वशासी
self-government	स्वराज्य, स्वशासन
self-explanatory	स्वतः स्पष्ट
self-respect	आत्मसम्मान
self-respecting	आत्मसम्मानी
self-restrain	आत्मनिग्रह
self-sacrifice	आत्मत्याग
self-sacrificing	आत्मत्यागी
self sufficiency	आत्मनिर्भरता
self-sufficient	आत्मनिर्भर
self-supporting	स्वावलम्बी
selfish	स्वार्थपूर्ण, स्वार्थी
selfishness	स्वार्थपरता
selfless	निस्स्वार्थ
selflessness	निस्स्वार्थपरता
semi	अर्ध
semi automatic	अर्ध स्वचल
semi automatic signal	अर्ध स्वचल सिग्नल
semi autonomous	अर्ध स्वायत्त

semi-civilized	अर्ध सभ्य
semi-monopoly	अर्ध एकाधिकार
semi-skilled	अर्धकुशल
senator	सेनेट का सदस्य
senate	सेनेट
senile ( <i>adj</i> )	जराजन्य
senility	जरा, बुढ़ापा
senior	वरीय
senior inspector	वरीय निरीक्षक
senior superintendent	वरीय अधीक्षक
senior time scale	वरीय समय मान
seniority	वरीयता
inter se seniority	आपसी वरीयता, पारस्परिक वरीयता
seniormost	वरिष्ठ
sensation	संवेदन, संवेदना, सनसनी
sense	(i) समझ, बुद्धि (ii) होश, चेतना (iii) इन्द्रिय
common sense	सहज बुद्धि
senseless	(i) बेहोश, अचेत (ii) नासमझ
senselessness	(i) बेहोशी (ii) नासमझी
sensibility	संवेदना, चेतना
sensible	(i) समझदार (ii) तर्कसंगत
sensitive	भावुक, संवेदनशील
sentence <i>n.</i>	(i) वाक्य (ii) दण्ड, सजा
<i>vb.</i>	दण्ड देना, सजा देना
death sentence	प्राणदण्ड, मौत की सजा
sentiment	भावना
sentimental	भावुक
sentimentality	भावुकता
sentinel	प्रहरी, पहरेदार
sentry duty	पहरा
sentry	संतरी
separate <i>adj.</i>	अलग, पृथक
<i>vb.</i>	अलग करना, पृथक करना
separate electorates	पृथक चुनाव-क्षेत्र
separately	अलग से
separation	अलगाव, पृथककरण, सम्बन्ध-विच्छेद

separation convention	पृथक्करण अभिसमय
separation-judicial	अदालती सम्बन्ध-विच्छेद
separatism	पृथकतावाद
separatist	पृथकतावादी
separatist tendency	पृथकतावादी प्रवृत्ति
septic	पौतिक, सड़न पैदा करने वाला
septic wound	पौतिक घाव, सड़न पैदा करने वाला घाव
sequel	परिणाम, फल
sequence	अनुक्रम, तरतीब
sequent	अनुक्रमिक
serial	क्रमिक, क्रम-
serial list	क्रम सूची
serial number	क्रम नंबर, क्रमांक
serially	क्रमशः, क्रमानुसार
seriatim	क्रमवद्ध
sericulture	रेशम के कीड़े पालना
series	माला, श्रेणी
serious	गंभीर, भारी, विचारशील
serious consequences	गंभीर परिणाम
serious error	भारी भूल
serious irregularity	गंभीर अनियमितता
seriously	गंभीर रूप से
seriousness	गंभीरता, विचारशीलता, गुरुत्व
serve <i>vb.</i>	सेवा करना, नौकरी करना, तामील करना
serve a notice	नोटिस देना
serve imprisonment	कारावास भोगना
service	सेवा, नौकरी, तामील, सर्विस
service of summons	सम्मन की तामील
government service	सरकारी नौकरी
private service	निजी नौकरी
service book	सेवा-पंजी
service postage	सरकारी डाक-टिकट
service, subordinate	अधीनस्थ सेवा
service, superior	प्रवर सेवा
service telegram	सरकारी तार
service ticket	सरकारी टिकट
serviceable	उपयोगी काम का

servicing	सेवाई
servile	नीच, नीच वृत्ति का
servility	नीचता
servitude	चाकरी, तावेदारी
session	(i) अधिवेशन (ii) सेशन
sessions case	सेशन का मुकदमा
sessions court	सेशन अदालत
sessions judge	सेशन जज
setting <i>n.</i>	परिवेश
settle <i>vb.</i>	(i) तय करना, निवटारा करना (ii) निश्चित होना (iii) बसना (iii) जमा होना
settlement	(i) समझौता (ii) निवटारा (iii) वन्दोवस्त (iv) वस्ती, (v) वेवाकी, चुकता
settlement bill	वेवाकी बिल
settlement dues	वेवाकी देय, वेवाकी देनगी
settlement officer	वन्दोवस्त अफसर
settlement passes	वेवाकी पास
family settlement	पारिवारिक समझौता
land settlement	जमीन का वन्दोवस्त.
settlement of claims	दावों का निवटारा
settlement of dispute	झगड़े का निवटारा
sever <i>vb.</i>	(सम्बन्ध) विच्छेद करना, अलग होना
several	कई, अनेक
severance	विच्छेद, अलगाव
severe	कठोर, कड़ा
severity	कठोरता
sewage-sewerage	मल प्रवाह, गन्दी नाली
sewage and drainage	गन्दी नाली, मल वाहक नाली
shadow orderly	सहचर अदली
shady deal	संदिग्ध आचरण
shame	शर्म, लज्जा
shameless	वेशर्म, निर्लज्ज
shamelessness	वेशर्मी, निर्लज्जता
share <i>n.</i>	भाग, हिस्सा, अंश

share <i>vb.</i>	भाग लेना, शामिल होना, हिस्सेदार होना
share capital	हिस्सा पूंजी
share holder	हिस्सेदार, भागीदार
share market	हिस्सा बाजार
share transfer	हिस्सा अन्तरण
shares	हिस्से
sharp <i>adj.</i>	तेज, प्रखर, धारीक, कुशाग्र
sheet	(i) चादर (ii) फलक (iii) पन्ना
sheet time table	फलक समय सारणी
shelter <i>n.</i>	शरण, पनाह
<i>vb.</i>	शरण देना, छिपकर सहायता देना
shift	पारी
shift, day	दिन की पारी
shift, night	रात की पारी
shift system	पारी पद्धति
shipment	जहाज में माल की लदाई
shipping	जहाजरानी, नौवहन
shipping, coastal	तटीय जहाजरानी, तटीय नौवहन
shipwreck <i>n.</i>	जहाज का टूटना, नौभंग
shirk <i>vb.</i>	काम से जी चुराना
shirker	कामचोर
shock <i>n.</i>	धक्का, सदमा, तेज झटका
<i>vb.</i>	धक्का पहुँचाना, सदमा देना, स्तब्ध करना
shocking	सदमा पहुँचाने वाला, स्तब्ध करने वाला
short-coming	त्रुटि, खामी
short-hand	आशुलेखन, आशुलिपि
short notice	अल्प सूचना
short notice question	अल्प सूचना प्रश्न
short-sighted	अदूरदर्शी, जिसे कम दिखायी दे
short-sightedness	अदूरदर्शिता
short term course	अल्पकालिक पाठ्यक्रम
short term debt	अल्पकालिक ऋण
short vision	अल्प दृष्टि, कम दिखायी देना
shortage	कमी
shortage of funds	रकम की कमी, पैसे की कमी
shoulder responsibilities	उत्तरदायित्व सम्हालना, जवाबदेही लेना



show cause	कारण बताओ
show cause notice	'कारण बताओ' नोटिस
show room	प्रदर्शनकक्ष
shroffing	सिक्कों की जाँच
shuffle <i>vb.</i>	हेर-फेर करना, रद्दो-बदल करना
sick	बीमार, अस्वस्थ
to be sick of	तंग आना
sick leave	बीमारी की छुट्टी
sick line (Rly)	मरम्मत लाइन
sick-list	बीमारों की सूची
sick siding	मरम्मत साइडिंग
sickness	बीमारी, अस्वस्थता, मिचली
side <i>n.</i>	(i) पक्ष । पहलू (ii) बगल, पार्श्व
<i>adj.</i>	(iii) ओर, तरफ़, गौण
<i>vb.</i>	सहायक
side by side	पक्ष लेना, साथ देना
side industry	साथ-साथ
side issue	सहायक उद्योग
side light	गौण प्रश्न
sides of a question	बगल बत्ती
side-track <i>vb.</i> (an issue)	प्रश्न के पहलू
siding (Rly.)	किसी प्रश्न को टाल जाना
assisted siding	साइडिंग
military siding	इमदादी साइडिंग
haulage siding	सैनिक साइडिंग
mineral siding	कर्पण साइडिंग
private siding	खनिज साइडिंग
siege <i>n.</i>	निर्जी साइडिंग
<i>vb.</i>	घेरा
sign <i>n.</i>	घेरा डालना
<i>vb.</i>	निशान, चिह्न, संकेत
sign board	हस्ताक्षर करना, दस्तखत करना
signal <i>n.</i>	संकेत पट्ट
<i>vb.</i>	सिगनल, संकेत
approach signal	सिगनल देना, संकेत देना
attention signal	प्रवेश सिगनल
automatic signal	सचेतक संकेत
	स्वचल सिगनल

calling-on signal	बुलावा सिगनल
co-acting signal	अनुगामी सिगनल
danger signal	खतरा सिगनल
duplicate signal	दोहरा सिगनल
home signal	निकट सिगनल
outer signal	बाहरी सिगनल
repeating signal	प्रति संकेत
routing signal	मार्ग संकेत
stop signal	रुको सिगनल
starting signal (starter)	प्रस्थान सिगनल
testing signal	जाँच सिगनल
warner signal	चेतावनी सिगनल
signaller	संकेतक*
signalling	संकेतन
signatory	हस्ताक्षरकर्ता, दस्तखत करने वाला
signature	हस्ताक्षर, दस्तखत
signed	हस्ताक्षरित, दस्तखत किया हुआ
significance	सार्थकता, महत्व
significant	सार्थक, महत्वपूर्ण
signify <i>vb.</i>	सार्थक होना
similar	समान
similarity	समानता
similarly	समान रूप से, इसी प्रकार
simple	सादा, साधारण, सरल
simple hurt	साधारण चोट
simple imprisonment	साधारण कारावास
simple interest	साधारण सूद
simplicity	सादगी, सरलता
simplification	सरलीकरण
simplify <i>vb.</i>	सरल करना
sincere	सत्यनिष्ठ
sincerely	सत्यनिष्ठा से
sincerity	सत्यनिष्ठा

---

\* रेलवे में 'signaller' को तारवाडू कहते हैं ।

sine die	अनिश्चित काल के लिए
sine quo non	अनिवार्य शर्त
single	एक, अकेला, एकल, इकहरा, अविवाहित
sitting member	आसीन सदस्य वर्तमान सदस्य
single member constituency	एकसदस्य चुनाव-क्षेत्र
multiple member constituency	बहुसदस्य चुनाव-क्षेत्र
single transferable vote	एकल संक्रमणीय मत
single non-transferable vote	एकल असंक्रमणीय मत
single-handed	अकेला
single journey	एक ओर की यात्रा, इकहरी यात्रा
single journey ticket	इकहरी यात्रा टिकट
singular	(i) एकवचन (ii) विलक्षण, विशेष, अपूर्व
singularly	विशेषण रूप से
singularity	विलक्षणता, अपूर्वता, विशेषता
sinister	अनिष्टकारी, बुरा
sinister motive	बुरी नीयत
sinking fund	ऋण परिशोधन निधि, कर्ज अदायगी फंड
site	स्थान, मंका
sitting	बैठक
situate vb.	स्थित होना
situated	स्थित
situation	स्थिति, हालत
skill	कौशल, निपुणता, हुनर
skilled	कुशल, निपुण, हुनरमन्द
skilled labour	कुशल मजदूर
semi-skilled labour	अर्धकुशल मजदूर
unskilled labour	अकुशल मजदूर
slack	ढीला, मन्द
slack season	मन्दी का समय, मन्दा बाजार
slackness	ढिलाई
sleeper coach	शयन यान
slogan	नारा
slum	गन्दी बस्ती
slum clearance	गन्दी-बस्तियों की सफ़ाई
slump	मन्दी, गिरावट
slur	लांछन

small causes court	लघुवाद न्यायालय, अदालत खफ्रीका
small holding	छोटा खाता
small pox	चेचक
small scale	लघु, छोटे पैमाने पर
small-scale co-operative farming	छोटे पैमाने पर सहकारी खेती
small scale industry	लघु उद्योग
small scale production	छोटे पैमाने पर उत्पादन
on a small scale	छोटे पैमाने पर -
smalls <i>n.</i> (Rly.)	फुटकर माल
smalls traffic	फुटकर माल यातायात
smart	चुस्त
smartly	चुस्ती के साथ
smartness	चुस्ती
smooth	समतल, हमवार, चिकना, निर्वाध
smooth working	निर्वाध संचालन
smuggle <i>vb.</i>	तस्कर व्यापार करना
smuggling	तस्करी
anti-smuggling squad	तस्करी निरोधक दस्ता
sober	(i) गंभीर, सजीदा (ii) संयत
sobriety	(i) गंभीरता, संजीदगी (ii) संयतता
sociability	(i) मिलनसारी (ii) सामाजिकता
sociable	मिलनसार
social	(i) मिलनसार (ii) सामाजिक
social boycott	सामाजिक बहिष्कार
social custom	सामाजिक रीति
social disabilities	सामाजिक निर्योग्यताएँ
social economy	सामाजिक अर्थव्यवस्था
social justice	सामाजिक न्याय
social order	सामाजिक व्यवस्था
social sciences	समाज विज्ञान
social service	समाज सेवा
social status	सामाजिक प्रतिष्ठा
social welfare	सामाजिक कल्याण
socialisation	समाजीकरण
socialise <i>vb.</i>	समाजीकरण करना
socialism	समाजवाद

socialist	समाजवादी
socialist democracy	समाजवादी लोकतंत्र
socialist state	समाजवादी राज्य
society	समाज, समिति, मंडली
sociologist	समाजशास्त्री
sociology	समाजशास्त्र
soft	नरम, रहमदिल, मुलायम, सुलभ
soft currency	सुलभ मुद्रा
soft currency area	सुलभ मुद्रा क्षेत्र
sole	एकमात्र, अकेला
sole agent	एकमात्र एजेंट
solely	एकमात्र, अकेले
solemn	(i) गंभीर (ii) सत्यनिष्ठ
solemn declaration	सत्यनिष्ठ घोषणा
solemnize vb.	वार्षिक संस्कारों को विधिवत सम्पादित करना
solemnly	गंभीरतापूर्वक, सत्यनिष्ठा से
solicit vb.	प्रार्थना करना, याचना करना
solicitor	सॉलिसिटर
solid	ठोस
solid support	ठोस समर्थन
solidarity	एका, एकता, समैक्य, सुदृढ़ता
solitary	एकान्त, एकाकी, सुनसान
solitary cell	सुनसान कोठरी, काल कोठरी
solitary confinement	एकाकी कारावास
solitude	एकान्तता, एकान्तवास
solution	(i) हल, समाधान (ii) घोल
solve vb.	(i) हल करना, समाधान करना (ii) घोलना
solvency	(i) (ऋण) शोध क्षमता (ii) घोलकता
solvent	(i) शोधक्षम (ii) घोलक
sort vb.	छाँट कर अलग करना, छाँटना
sorter	छाँटकर्ता
sorting	छटनी, छांट
S. O. S. (Save Our Souls)	संकट में सहायता की याचना
sound n.	आवाज़, ध्वनि
<i>adj.</i>	(i) स्वस्थ (ii) सुदृढ़ (iii) तर्कसंगत
sound economy	सुदृढ़ अर्थव्यवस्था
sound finances	सुदृढ़ वित्तीय स्थिति

sound mind	स्वस्थ चित्त
soundness	(i) स्वस्थता (ii) सुदृढ़ता (iii) तर्कसंगति
soundproof	ध्वनिरोधी
source	निकास, स्रोत, उद्गम, उद्भव
source of power	शक्ति का स्रोत
souvenir	यादगार, स्मृतिचिह्न
sovereign <i>adj.</i>	सर्वसत्ता सम्पन्न
sovereign democratic republic	सर्वसत्ता सम्पन्न लोकतंत्री गणराज्य
sovereignty	प्रभुसत्ता
spare <i>adj.</i>	फाजिल, अतिरिक्त, बचा हुआ
<i>vb.</i>	छोड़ना, बचाना, मितव्ययी होना, क्षमा करना
spare capacity	अतिरिक्त क्षमता
spare parts	फाजिल पुर्जे
speaker	(i) वक्ता (ii) विधानसभा या लोक- सभा के अध्यक्ष
speakership	अध्यक्षता, अध्यक्ष का पद
special	विशेष, स्पेशल, खास
special additional pension	विशेष अतिरिक्त पेंशन
special armed constabulary	विशेष सशस्त्र पुलिस
special class apprentice	विशेष वर्ग अप्रेंटिस
special disability leave	विशेष अशक्तता छुट्टी
special magistrate	स्पेशल मजिस्ट्रेट
special messenger	विशेष संदेशवाहक
special over-haul	विशेष पुनर्कल्प
special pay	विशेष वेतन
special train	स्पेशल रेलगाड़ी
special ward	विशेष कक्ष
specialist	विशेषज्ञ
speciality	विशेषता, खासियत
specialization	विशिष्टता, विशेषज्ञता
specialize <i>vb.</i>	विशिष्टता या विशेषज्ञता प्राप्त करना
specialized	विशिष्ट
specialized job	विशिष्ट कार्य
specific <i>adj.</i>	स्पष्ट, निर्दिष्ट
specific allegations	निर्दिष्ट आरोप
specific debt	निर्दिष्ट ऋण

specific characteristics	विशिष्टताएं
specifically	निर्दिष्ट रूप से
specifications	निर्दिष्टियाँ
specified	निर्दिष्ट
specify <i>vb.</i>	निर्दिष्ट करना
specimen	नमूना
specimen signature	नमूना हस्ताक्षर
spectacular	प्रदर्शनीय
speculate <i>vb.</i>	(i) सट्टा करना, कल्पना करना
speculation	(i) सट्टा (ii) कल्पना
speculative	(i) सट्टा सम्बन्धी (ii) काल्पनिक, ख्याली
speculative business	सट्टेवाजी, सट्टा व्यवसाय
speculator	सट्टा व्यवसायी
speech <i>n.</i>	(i) व्याख्यान, भाषण (ii) वाक्, वाक्शक्ति
freedom of speech	वाक् स्वातंत्र्य
speed	रफ्तार, वेग
speed indicator	रफ्तार सूचक
speedy disposal	शीघ्र निवटारा
sphere	क्षेत्र
splendid	अतिउत्तम, महान, गौरवशाली
split <i>n.</i>	मतभेद, विगाड़
<i>vb.</i>	मतभेद होना, एका भंग होना
spokesman	प्रवक्ता
sponsor <i>n.</i>	प्रायोजक
<i>vb.</i>	
sponsored	प्रायोजन करना
spontaneous	प्रायोजित
spontaneous demand	सहज, स्वयंजात, स्वाभाविक
spontaneous movement	स्वाभाविक मार्ग, स्वाभाविक आन्दोलन
spontaneity	सहजता, स्वाभाविकता
sporadic	छुट-फुट
sport	खेल-कूद
sportsman	खिलाड़ी
sportsmanship	खिलाड़ी के गुण
spot	जगह, स्थान, मीका
spot inquiry	मीके की जाँच, स्थानिक जाँच
spurious <i>adj.</i>	(i) नकली, खोटा, कूट, (ii) कृत्रिम

suprious drug  
spy *n.*

*vb.*

spying

squad

squadron

stability

stable

stable price

stable administration

stabilization

stabilization of prices

stabilize *vb.*

stabling line

staff

staff benefit fund

staff-car

staff, college

staff officer

staff, diplomatic

staff, editorial

staff, military

staff, personal

stage *n.*

stage a walk-out

stagnant

stagnate *vb.*

stagnation

stamp *n.*

*vb.*

Stamp Act

stamp duty

stamp paper

court stamp

revenue stamp

postal stamp

नकली औषधि

भेदिया, गुप्तचर

भेद लेना, जासूसी करना

भेद लेना, जासूसी करना

दस्ता

स्क्वैड्रन, टुकड़ी

स्थिरता

स्थिर

स्थिर मूल्य

स्थिर प्रशासन

स्थिर होना, स्थिरीकरण

मूल्यों का स्थिरीकरण

स्थिर करना, स्थिर होना

ठहराव लाइन

स्टाफ, कर्मचारी

कर्मचारी उपकार निधि

स्टाफ कार

स्टाफ कालेज

स्टाफ अफसर

राजनयिक कर्मचारी

सम्पादकीय कर्मचारी

सैनिक कर्मचारी

वैयक्तिक कर्मचारी

(i) अवस्था, चरण (ii) मंच, रंग मंच

वहिर्गमन करना

अवरुद्ध, निष्प्रवाह, रुका हुआ

वहाव रुक जाना, गतिहीन होना, प्रवाह-

हीन होना

गतिहीनता, रुकाव, प्रवाहहीनता

स्टैम्प, टिकट, मुहर, मुद्रांक

मुहर लगाना, मुद्रांकित करना, टिकट लगाना

स्टैम्प अधिनियम

स्टैम्प शुल्क

स्टैम्प पत्र

अदालती टिकट

रसीदी टिकट

डाक टिकट



stamped	मुद्रांकित
stampede <i>n.</i>	भगदड़
<i>vb.</i>	भगदड़ करना, भगदड़ में पड़ना
stand <i>n.</i>	(i) अड्डा (ii) आधार (iii) दृष्टिकोण
stand <i>vb.</i>	खड़ा होना, सहना, वरदाश्त करना
take a stand	दृष्टिकोण अपनाना
standard	मानक, स्तर, प्रमाण
standard method	मानक रीति
standard rate	मानक दर
standard time	मानक समय
standard of living	जीवन-स्तर
standards of vision test	दृश्यता-जाँच के मानक
standardiation	मानकीकरण
standardize <i>vb.</i>	मानकीकरण करना
standing <i>n.</i>	प्रतिष्ठा, कालावधि
<i>adj.</i>	स्थायी
standing army	स्थायी सेना
standing committee	स्थायी समिति
standing expenses	स्थायी व्यय
standing order	स्थायी आदेश
staple <i>adj.</i>	प्रमुख, मुख्य
staple food	मुख्य आहार
starting signal	} प्रस्थान सिग्नल
starter	
starvation	भूखों मरना, फ़ाका
starvation death	भुखमरी
starve <i>vb.</i>	भूखों मरना
state <i>n.</i>	राज्य, राजकीय
<i>vb.</i>	कहना, वयान देना, वक्तव्य देना
state aid	राजकीय सहायता
state bank	राजकीय बैंक
state-owned	राजकीय
state excise	राज्य उत्पादन-शुल्क, राज्य आवकारी
state management	राजकीय प्रबन्ध
state monopoly	राजकीय एकाधिकार
state policy	राजकीय नीति


state provident fund	राजकीय भविष्य निधि
state socialism	राज्य समाजवाद
state trading	राज्य व्यापार
state trading corporation	राज्य व्यापार निगम
statement	(i) विवरण (ii) वयान, वक्तव्य, कथन
statement of accounts	लेखों का विवरण
statement of facts	तथ्य कथन, असलियत वयान करना
statement of holdings and rentals	जोत और वार्षिक लगान का विवरण
statesman	राजनीतिज्ञ
statesmanlike	राजनीतिज्ञोचित
statemanship	राजनीतिज्ञता
static	स्थिर, गतिहीन
station n.	स्टेशन, स्थान, मुकाम
vb.	तैनात होना, तैनात करना
crossing station	पार स्टेशन
flag station	झण्डी स्टेशन
full-fledged station	सर्वांगपूर्ण स्टेशन
halt station	हाल्ट स्टेशन
watering station	पानी लेने का स्टेशन
out-station	वाहरी स्टेशन
outstation rest	वाहरी स्टेशन पर आराम
stationary	स्थिर, स्थावर
stationery	लेखनसामग्री
stationery keeper	खेलनसामग्री पाल
stationery clerk	लेखनसामग्री क्लर्क
statistical	अंक या आँकड़ों से सम्बन्धित, सांख्यिकीय
statistical bureau	सांख्यिकीय ब्यूरो
statistical data	अंक सामग्री
statistical table	अंक सारणी
statistician	सांख्यिक, अंकविद्
statistics	सांख्यिकी, आँकड़े
status	प्रतिष्ठा, हैसियत, स्थिति
status quo	यथापूर्व स्थिति
statute	संविधि
statute book	संविधि पंजी

statutory	सांविधिक
statutory audit	सांविधिक लेखा परीक्षा
statutory authority	सांविधिक अधिकरण, सांविधिक अधिकार
statutory body	सांविधिक निकाय
statutory law	सांविधिक कानून
statutory rate	सांविधिक दर
statutory right	सांविधिक अधिकार
stay	रोक, रोकना
stay application	रोक आवेदन
stay order	रोक आदेश
stay of proceedings	रोक कार्यवाही
stay of suit	मुकदमे को रोकना
steadily	स्थिरता के साथ
steadiness	स्थिरता
steady	स्थिर
steady market	स्थिर बाजार भाव
steer a bill	विधेयक का संचालन करना
steering committee	संचालन समिति
stenograph	आशुलेख
stenographer	आशुलेखक, स्टैनोग्राफ़र
stenography	आशुलेखन, स्टैनोग्राफी
step <i>n.</i>	कदम, सीढ़ी, पैड़ी, कदमचा
<i>adj.</i>	सौतेला
stereotyped	हड़िबद्ध, नियत
sterile	वाँझ, वन्ध्य
sterility	(i) वाँझपन, वन्ध्यता
sterilization	(i) वन्ध्यकरण (ii) विसंक्रमण
sterling	स्टर्लिंग
sterling balances	स्टर्लिंग अवशेष
sterling debt	स्टर्लिंग ऋण
sterling block	स्टर्लिंग गुट
sterling exchange	स्टर्लिंग विनिमय
stigma	लांछन
stimulate <i>vb.</i>	स्फूर्ति देना, उद्दीप्त करना
stimulant	उद्दीपक, स्फूर्तिदायक
stimulative	स्फूर्तिप्रद, उद्दीपक

stipend	वृत्ति
stipendiary <i>adj.</i>	वृत्तिग्राही
stipulate <i>vb.</i>	अनुबन्ध करना
stipulated <i>p.p.</i>	अनुबन्धित
stipulation	अनुबन्ध
stock <i>n.</i>	(i)माल, स्टाक(ii)नस्ल,(iii)मवेशी(iv)साख
<i>vb.</i>	स्टाक करना
stock-in-hand	वर्तमान स्टाक
stock certificate	स्टाक प्रमाणपत्र
stock exchange	स्टाक विनिमय
stock-holder	स्टाकग्राही
stock-taking	माल की जाँच-पड़ताल
stock verifier	स्टाक सत्यापक
stock verification	स्टाक सत्यापन
stockist	स्टाकिस्ट
stop signal	रुको सिगनल
stoppage	ठहरना, ठहराव
storage	गोदाम
store <i>n.</i>	सामान, भण्डार, गोदाम
<i>vb.</i>	संचय करना
store-keeper	भण्डारपाल, भण्डारी
store room	सामान कमरा
strain <i>n.</i>	(i) तनाव (ii) अतिश्रम (iii) थकान
<i>vb.</i>	जोर डालना, तनाव करना, थका देना, अतिश्रम करना
strained relations	तनातनी, मनोमालिन्य
strangulate <i>vb.</i>	गला घोटकर या गला दबाकर मारना
strangulation <i>n.</i>	गला घोटना
stratagem	कूट रचना
strategic	सामरिक, युद्धनीति-सम्बन्धी
strategic railway line	सामरिक महत्व की रेलवे लाइन
strategy	युद्ध-कला, कूटरचना
strength	(i) ताकत, शक्ति, (ii) संख्या
stretcher	स्ट्रेचर
strict	कड़ा, सख्त
strict supervision	कड़ी निगरानी
strictness	कड़ाई, सख्ती

stricture	आक्षेप
strike <i>n.</i>	हड़ताल
<i>vb.</i>	हड़ताल करना, प्रहार करना
strike period	हड़ताल की अवधि
sit-down strike	बैठे रहो हड़ताल
lock-out strike	तालाबन्दी हड़ताल
striker <i>n.</i>	हड़ताली
striking <i>adj.</i>	(i) आकर्षक, हृदयग्राही, आश्चर्यजनक (ii) प्रहारक
stringency	तंगी, कठोरता
financial stringency	वित्तीय तंगी
stringent	कठोर, सख्त, तंग
stringent measures	कठोर उपाय
strive <i>vb.</i>	प्रयास करना
stroke	आघात
strong	दृढ़, मजबूत, तेज
strong constitution	दृढ़ शारीरिक गठन, दृढ़ संविधान
stronghold	गढ़, किला
strong room	सुरक्षित कमरा
structural	संरचना-सम्बन्धी
structural works	संरचना कार्य
structure	संरचना
struggle <i>n.</i>	संघर्ष
<i>vb.</i>	संघर्ष करना
struggle for existence	जीवन के लिए संघर्ष
studious	अध्यवसायी, परिश्रमशील, मेहनती
study <i>n.</i>	अध्ययन, अध्ययन कक्ष
<i>vb.</i>	अध्ययन करना
study leave	अध्ययन छुट्टी
stunt <i>n.</i>	चकमा
<i>vb.</i>	अवरोध करना
stunted growth	अवरुद्ध विकास
stupendous	बहुत बड़ा, विशाल
style	शैली
sub	सद, उप
sub-agent	सद-एजेण्ट
sub-caste	उपजाति

sub-clause	उपखण्ड
sub-committee	उपसमिति
sub-divide <i>vb.</i>	प्रभाजित करना
sub-division	प्रभाग, तहसील
sub-divisional officer	प्रभाग अफसर, परगना हाकिम
sub-divisional magistrate	प्रभाग सजिस्ट्रेट
sub-head	उपशीर्षक, उपप्रधान
sub-head of account	लेखा उपशीर्षक
sub-inspector of police	पुलिस सब-इंसपेक्टर
subject <i>n.</i>	(i) विषय (ii) प्रजा
<i>adj.</i>	अधीन
subject to approval	अनुमोदनाधीन
subject to rules	नियमाधीन
sublet <i>vb.</i>	शिकमी पट्टे पर देना
subletting	शिकमी पट्टे पर देना
sub-lease	उपपट्टा, शिकमी पट्टा
sub marine	पनडुब्बी (जहाज)
<i>submerge vb.</i>	(वाड़ के) पानी में डूब जाना, जलमग्न होना
submerged area	पानी में डूबा हुआ क्षेत्र, जलमग्न क्षेत्र
submission	निवेदन, पेशी, समर्पण
submission of cases	मामले पेश करना
submissive	विनम्र, दब्लू
submit <i>vb.</i>	समर्पित करना, निवेदन करना, पेश करना
subordinate	अधीन, अधीनस्थ, मातहत
subordinate service	अधीनस्थ सेवा
subordinate office	अधीनस्थ कार्यालय, मातहत दफ्तर
subordinate staff	अधीनस्थ कर्मचारी, मातहत कर्मचारी
subordinate supervisory staff	अधीनस्थ पर्यवेक्षक कर्मचारी
subordination	अधीनता, मातहती
sub-proprietor	उपस्वामी, अदना मालिक
sub-registrar	सब-रजिस्ट्रार
subscribe <i>vb.</i>	(i) चन्दा देना, अंगदान करना (ii) सहमति प्रकट करना, पक्ष-समर्थन करना (iii) ग्राहक बनना
subscribe to a view	दृष्टिकोण का समर्थन करना



subscriber	(i) चन्दादाता (ii) ग्राहक
subscription	(ii) हस्ताक्षरकर्ता
sub-section	(i) चन्दा, अंगदान (ii) पक्ष-समर्थन
subsequent	उप-खण्ड
subsequently	वाद का
subserve <i>vb.</i>	वाद में
subside <i>vb.</i>	किसी काम का निमित्त बनना, साधक बनना
	(i) वाढ़ आदि का उतर जाना, घटना
	(ii) धसकना
subsidiary	सहायक, गौड़
subsidiary alliance	सहायक संधि
subsidiary receipt	गौड़ प्राप्ति
subsidiary industry	सहायक उद्योग
subsidiary rules	सहायक नियम
subsidise <i>vb.</i>	(आर्थिक) सहायता देना
subsidised company	सहायता प्राप्त कम्पनी
subsidised railway	सहायता प्राप्त रेलवे, इमदादी रेलवे
subsidy	आर्थिक सहायता
subsistence	निर्वाह, गुजारा
subsistence allowance	निर्वाह भत्ता, गुजारा भत्ता
subsistence grant	निर्वाह अनुदान, गुजारा अनुदान
substance	(i) सार (ii) द्रव्य
substantial	सारभूत
substantially	सारतः
substantiate <i>vb.</i>	अभिपुष्ट करना
substantive	मूल
substantive appointment	मूल नियुक्ति
substantive port	मूल पद
substantive pay	मूल वेतन
substantive post	मूल पद
substitute <i>n.</i>	एवज, स्थानापन्न
<i>vb.</i>	प्रतिस्थापन करना, बदलना
substituted	एवजी, प्रतिस्थापित
substitution	प्रतिस्थापन, बदलाव
sub-tenant	शिकमी काश्तकार, शिकमी किरायेदार
sub-title	उपशीर्षक
subtle <i>adj.</i>	सूक्ष्म, वारीक

sub-treasury	उप खजाना
suburb	उपनगर
suburban	उपनगरीय
subvention	(आर्थिक) सहायता
subversive	उलटने वाला, उच्छेदक
subversive of law and order	कानून और व्यवस्था को उलटने वाला
succeed <i>vb.</i>	(i) सफल होना (ii) अनुगमन-करना, उत्तराधिकारी होना
succeeding <i>adj.</i>	उत्तरवर्ती
success	सफलता, कामयाबी
successful	सफल, कामयाब
succession	उत्तराधिकार, तारतम्य, सिलसिला
succession certificate	उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
succession duty	उत्तराधिकार शुल्क
successive	क्रमिक, क्रमागत
successively	क्रमानुसार, सिलसिलेवार
successor	उत्तराधिकारी
succour <i>n.</i>	(संकट आदि में) सहायता
succumb <i>vb.</i>	हार जाना, पराजित होना, अभिभूत होना
succumbed to injuries	चोट लगने के कारण मर जाना
sue <i>vb.</i>	मुकदमा चलाना
sue for damages	हर्जाने के लिए मुकदमा चलाना
suffer <i>vb.</i>	(i) नुकसान उठाना (ii) कष्ट उठाना (iii) सहन करना, (iv) अनुमति देना, होने देना
sufferance	अनुमति, अनुज्ञा
suffice <i>vb.</i>	काफ़ी होना, यथेष्ट होना
sufficiency	यथेष्टता
sufficient	काफ़ी, यथेष्ट
sufficiently	यथेष्ट रूप से
suffocate <i>vb.</i>	दम घुटना
suffocating <i>adj.</i>	दम घोटने वाला, घुटन पैदा करने वाला
suffocation	दम घुटना, घुटन
suffrage	मताधिकार
suffragist movement	मताधिकार आन्दोलन
suggest <i>vb.</i>	सुझाव देना, इंगित करना



suggestion	सुझाव, इंगित
suggestive	सूचक, घोतक
suicidal <i>adj.</i>	आत्मघाती
suicide	आत्मघात, आत्म हत्या, आत्मघाती,
suit	मुकदमा
suit—civil	दीवानी मुकदमा
suit—criminal	फौजदारी मुकदमा
suitability	उपयुक्तता
suitable	उपयुक्त
suited to	उपयुक्त होना
sum	रकम, राशि
summarily	सरसरी तौर पर, संक्षिप्ततः,
summarize <i>vb.</i>	संक्षेप करना
summary	संक्षेप, संक्षिप्त
summary trial	संक्षिप्त विचारणा
summon <i>vb.</i>	(i) बुलाना (ii) तलब करना
summons <i>n.</i>	सम्मन
<i>vb.</i>	सम्मन जारी करना
sumptuary allowance	सत्कार भत्ता
sundry	फुटकर
sundry earnnigs	फुटकर कमाई
suo moto statement	स्वप्रेरित वयान, स्वच्छिक वयान
superannuary	अधिवर्षी
superannuary post	अधिवर्षी पद
superannuate <i>vb.</i>	अधिवर्षित करना
superannuation	अधिवर्षता
superannuation allowance	अधिवर्षता भत्ता
superficial	ऊपरी, सतही, दिखावटी
superfluous <i>adj.</i>	अनावश्यक, निरर्थक
superimpose <i>vb.</i>	ऊपर रखना
superintend <i>vb.</i>	अधीक्षण करना
superintendence	अधीक्षण
superintendent	अधीक्षक
super tax	अधिकर
superior	प्रवर, -वरिष्ठ

superior land holder	प्रवर भूमिधर
superior post	प्रवर पद
superior service	प्रवर सेवा
superiority	प्रवरता, अहम्
superiority complex	अहम् भावना
supersede <i>vb.</i>	अधिक्रमण करना
superseded	अधिक्रान्त
supersession	अधिक्रमण
supervise <i>vb.</i>	निगरानी करना, पर्यवेक्षण करना
supervision	निगरानी, पर्यवेक्षण
supervisor	पर्यवेक्षक
supervisory duty	पर्यवेक्षण कार्य
supervisory staff	पर्यवेक्षण कर्मचारी
supplement <i>n.</i>	पूरक
<i>vb.</i>	पूरा करना
supplemental	पूरक
supplementary	पूरक
supplementary bill	पूरक बिल
supplementary budget	पूरक बजट
supplementary demand	पूरक मांग
supplementary earning	पूरक कमाई
supplementary grant	पूरक अनुदान
supplementary industry	पूरक उद्योग
supplementary rules	पूरक नियम
supplementaries	पूरक प्रश्न
supplier	संभरणकर्ता, सप्लायर
supplies	संभरण, सप्लाई
supplies department	संभरण विभाग, सप्लाई विभाग
supply <i>n.</i>	संभरण, सप्लाई
<i>vb.</i>	संभरण करना, मुहैया करना, सप्लाई करना
support <i>n.</i>	सहारा, समर्थन
<i>vb.</i>	सहारा देना, समर्थन करना, भरण-पोषण करना
supporter	समर्थक, भरण-पोषण करने वाला
suppose <i>vb.</i>	(i) मान लेना, कल्पना करना (ii) समझना, अनुमान करना

supposition	(i) कल्पना, (ii) अनुमान
suppress <i>vb.</i>	(i) दवाना, दमन करना (ii) प्रकट न होने देना
suppression	दमन
suppressive	दमनकारी
supremacy	सर्वोच्चता
supreme	सर्वोच्च, परम, उच्चतम
supreme authority	सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकार
supreme command	सर्वोच्च कमाण्ड
supreme court	उच्चतम न्यायालय
supreme law	सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च विधि
surcharge <i>vb.</i>	अधिप्रभार लेना
surcharge <i>n.</i>	अधिप्रभार
surety	जामिन, जमानतदार
surmise <i>n.</i>	अटकल
<i>vb.</i>	अटकल लगाना
surname	वंशनाम, कुलनाम
surpass <i>vb.</i>	आगे बढ़ जाना
surplus	वेशी, फ़ाज़िल, अधिशेष, अतिरिक्त
surplus area	वचत क्षेत्र
surplus budget	वचत का वजट
surplus population	अतिरिक्त जनसंख्या
surplus profit	अधिशेष लाभ
surprise <i>n.</i>	अचरज, अचम्भा,
<i>adj.</i>	आकस्मिक
<i>vb.</i>	अचरज करना, अचम्भा करना
surprise check	आकस्मिक जाँच
surprise visit	आकस्मिक निरीक्षण
surrender <i>n.</i>	समर्पण
<i>vb.</i>	समर्पण करना, सुपुर्द करना
surrender value	समर्पण मूल्य
surrender of a lease	पट्टे का समर्पण, पट्टे की सुपुर्दगी
surrenderee	समर्पिणी
surrenderer	समर्पक, समर्पणकर्ता
surreptitious	प्रच्छन्न, छिपा हुआ
surreptitiously	लुका छिप कर, प्रच्छन्न रूप से
surround <i>vb.</i>	घेर लेना

sorroundings	आस-पास का वातावरण, परिवेश
surtax	अधिकर
surveillance	निगरानी
survey <i>n.</i>	सर्वेक्षण
<i>vb.</i>	सर्वेक्षण करना
engineering survey	इंजीनियरिंग सर्वेक्षण
field survey	क्षेत्र सर्वेक्षण
final location survey	अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण
ground survey	भू सर्वेक्षण, तल सर्वेक्षण
preliminary survey	प्रारंभिक सर्वेक्षण
reconnaissance survey	अभिदर्शन सर्वेक्षण
sample survey	नमूना सर्वेक्षण
traffic survey	यातायात सर्वेक्षण
survey instructor	सर्वेक्षण अनुदेशक
surveying	सर्वेक्षण
surveyor	सर्वेक्षक
survive <i>vb.</i>	उत्तरजीवी होना, बचा रहना, जीवित रहना
survival	उत्तरजीविता, उत्तरजीवन
surviving <i>adj.</i>	उत्तरजीवी
survivor	उत्तरजीवी
susceptibility	संवेदनशीलता, आग्रहणशीलता
susceptible	संवेदनशील, आग्रहणशील
susceptive	संवेदनशील, आग्रहणशील
suspect <i>n.</i>	संदिग्ध व्यक्ति
<i>vb.</i>	संदेह करना, श्रुवहा करना, आशंका करना
suspend <i>vb.</i>	निलम्बित करना, मुअत्तल करना
suspended	निलम्बित, मुअत्तल
suspended lien	निलम्बित पूर्वाधिकार
suspense	निलम्बित, असमंजस
suspense account	निलम्बित खाता
suspense grant	निलम्बित अनुदान
suspense head	निलम्बित शीर्षक
suspense register	निलम्बित रजिस्टर
suspension	निलम्बन, मुअत्तली
suspension allowance	निलम्बन भत्ता, मुअत्तली का भत्ता
suspension bridge	झूला पुल
suspicion	सन्देह, आशंका, शक

suspicious	संदिग्ध, सशंक, शक्की
sustain <i>vb.</i>	पोषण करना, निर्वाह करना
sustenance <i>n.</i>	पोषण, निर्वाह
syllabus	पाठ्यक्रम
symbol	प्रतीक
symbolic	प्रतीकात्मक
symbolize <i>vb.</i>	प्रतीक होना
sympathetic	सहानुभूतिपूर्ण
sympathetic consideration	सहानुभूतिपूर्ण विचार
sympathetical	सहानुभूतिपूर्ण
sympathetically	सहानुभूति के साथ
sympathise <i>vb.</i>	सहानुभूति करना, हमदर्दी दिखाना
sympathy <i>n.</i>	सहानुभूति, हमदर्दी
symposium	गोष्ठी
symptom	लक्षण
symtomatic	लक्षणात्मक, लक्षणगत
synchronise	एकसाथ घटित होना
syndicalism	श्रमिक संघवाद
syndicalist	श्रमिक संघवादी
syndicate	श्रमिक संघ, सिंडिकेट
synopsis	सारांश
synthesis	संश्लेषण
synthetic	(i) संश्लिष्ट (ii) नकली
synthetic rice	नकली चावल
synthesize <i>vb.</i>	संश्लेषण करना
system	क्रम, व्यवस्था, प्रणाली, पद्धति
systematic	क्रमवद्ध, व्यवस्थित
systematically	क्रमवद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से
systematize <i>vb.</i>	क्रमवद्ध करना, व्यवस्थित करना

## ‘T’

table n.	(i) मेज, पटल (ii) सारणी, सूची
vb.	रखना, पेश करना
table of contents	विषय-सूची
table a resolution	प्रस्ताव रखना
taboo n.	निषेध, वर्जन
tabular	सारणीबद्ध
tabulate vb.	सारणीबद्ध करना
tabulating machine	सारणी मशीन
tabulation	सारणी बनाना, सारणीयन
tabulator	सारणीयक
tacit	मौन, अप्रकट
tacit acceptance	मौन स्वीकृति
tacit understanding	अप्रकट समझौता
tackle vb.	सुलझाना, हल करना
tackle a problem	समस्या सुलझाना
tact	युक्ति, चातुरी, पटुता
tactful	चतुर, व्यवहार-कुशल, पटु
tactics	चालवाजी, युक्ति
tactless	युक्तिहीन, अपटु
take action	कार्रवाई करना
take cognizance	प्रसंज्ञान करना
take into consideration	विचार करना
take effect	लागू होना
take steps	उपाय करना, कदम उठाना
take to task	जवाब तलव करना
talent	प्रतिभा
talented	प्रतिभावान
tally n.	मिलान
vb.	(i)मेल खाना, एकसा होना(ii)मिलान करना
tally book	मिलान पंजी
fally clerk	मिलान क्लर्क
tamper vb.	छेड़छाड़ करना, अन्तःक्षेप करना

tampering with record	अभिलेख में अन्तःक्षेप करना
tangible	मूर्त, प्रकट, गोचर
tangible assets	गोचर परिसम्पत्तियाँ
tangible proof	गोचर प्रमाण
tangible results	गोचर परिणाम
tangle <i>n.</i>	उलझन
<i>vb.</i>	उलझना
tannery	चमड़े का कारखाना
tantamount to	समान होना, बराबर होना
tap the resources of	के साधनों का उपयोग करना
tare	घड़ा, खाली डिब्बे आदि का भार
tare weight	घड़ा, खाली डिब्बे आदि का भार
target	लक्ष्य
target date	नियत तारीख
fix a target	लक्ष्य निर्धारित करना
tariff	(i) तटकर (ii) शुल्क दर (iii) शुल्क सूची
tariff board	तटकर बोर्ड
tariff commission	तटकर आयोग
tariff duty	तटकर
tariff wall	तटकर अवरोध
preferential tariff	तरजीही शुल्कदर, अधिमान्य शुल्कदर
task	काम, कार्य, नियत कार्य
taste	(i) रुचि (ii) स्वाद, ज्ञायका
good taste	(i) सुरुचि (ii) अच्छा स्वाद
bad taste	(i) कुरुचि (ii) बुरा स्वाद
tax	कर
<i>vb.</i>	कर लगाना, अधिक जोर डालना
tax evasion	कर देने से वचना
tax-payer	करदाता
tax receipt	कर की रसीद
tax schedule	कर अनुसूची
tax system	कर प्रणाली
taxable	कर लगाने योग्य, करदेय
taxable capacity	करदेय क्षमता
taxation	कराधान
taxation policy	कराधान नीति, कर-नीति
taxi	टैक्सी

taxi-hire	टैक्सी का किराया
teaching	पढ़ाना, शिक्षण
teaching profession	शिक्षण व्यवसाय
team	टोली
team spirit	मिल-जुल कर काम करने की भावना, सहकारिता की भावना
team work	सहकार
tear-gass	आँसू गैस
technical	तकनीकी, पारभाषिक
technical aid	तकनीकी सहायता
technical aid programme	तकनीकी सहायता कार्यक्रम
technical defect	तकनीकी दोष, तकनीकी खराबी
technical education	तकनीकी शिक्षा
technical know-how	तकनीकी जानकारी, तकनीकी कार्यविधि
technical qualification	तकनीकी अर्हता
technical pay	तकनीकी वेतन
technical term	पारिभाषिक पद
technical training	तकनीकी प्रशिक्षण
technical training centre	तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र
technician	तकनीककार
technique	तकनीक, कार्यविधि
technological	प्रौद्योगिक
technological institute	प्रौद्योगिक संस्थान
technological progress	प्रौद्योगिक प्रगति
technology	प्रौद्योगिकी
tedious	थकाने वाला
tedious job	थकाने वाला काम
telegram	तार
express telegram	एक्सप्रेस तार
immediate telegram	तात्कालिक तार
important telegram	आवश्यक तार
ordinary telegram	साधारण तार
telegraph	तार, टेलीग्राफ़
telegraph office	तारघर
telegraphic address	तारघर का पता
telegraphic expenses	तार भेजने का खर्च
telegraphic money order	तार द्वारा मनीऑर्डर



telegraphist	तारवावू
telegraphy	टेलीग्राफी
telephone	टेलीफोन
telephone exchange	टेलीफोन केन्द्र
telephone instrument	टेलीफोन उपकरण
telephone line	टेलीफोन लाइन
telephone receiver	टेलीफोन का चोंगा
telephone—local	स्थानीय टेलीफोन
telephone—trunk	ट्रंक टेलीफोन
telescope	दूरबीन
telescopic	दूरबीन-सम्बन्धी, दूरबीनी
television	टेलीविजन
temper	(i) मानसिक अवस्था (ii) स्वभाव (iii) क्रोध
temperament	स्वभाव
ill tempered	वदमिजाज, क्रोधी स्वभाव का
temperament	(i) प्रकृति (ii) स्वभाव
temperamental	स्वभावगत, तुनुक मिजाज,
temperamentally	स्वभावतः, स्वभाव से
temperance	(i) आत्म-संयम (ii) नशावन्दी
temperance campaign	नशावन्दी अभियान
temperate	(i) आत्मसंयमी (ii) संयत (iii) समशीतोष्ण
temperate climate	समशीतोष्ण जलवायु
temperature	तापमान
temperature chart	तापमान चार्ट
temperature—high	उच्च तापमान
temperature—low	न्यून तापमान
temperature-standard	मानक तापमान
tempo	गति, सरगमी
temporary	अस्थायी
temporary appointment	अस्थायी नियुक्ति
temporary establishment	अस्थायी सिव्बन्दी
temporary phase	अस्थायी स्थिति
temporary service	अस्थायी सेवा, अस्थायी नौकरी
tempt vb.	ललचाना, प्रलोभन देना
temptation	लालच, प्रलोभन

tempting	प्रलोभनपूर्ण
tenable	समर्थनीय
tenacious	दृढ़ग्राही
tenacity	दृढ़ग्राहिता
tenancy	किरायादारी, काश्तदारी
Land Tenancy Act	काश्तकारी अधिनियम
tenancy rights	किरायादारी या काश्तकारी के अधिकार
tenancy system	(i) किरायादारी पद्धति (ii) काश्त- कारी पद्धति
tenant	(i) किरायेदार (ii) काश्तकार
tenantry	किसानवर्ग
tendency	झुकाव, प्रवृत्ति
tender n.	टेण्डर
<b>vb.</b>	देना, प्रस्तुत करना
<b>adj.</b>	कोमल
tender apology	माफ़ी माँगना, क्षमा माँगना
tender money	बयाना
tender notice	टेण्डर नोटिस
tenderer	टेण्डरदाता
tense	तनावपूर्ण
tense atmosphere	तनावपूर्ण वातावरण
tension	तनाव
tentative	आजमाइशी, अनंतिम
tentatively	आजमाइश के रूप में, अनंतिम रूप से
tenure	(i) पदावधि, कार्यकाल (ii) पट्टा
tenure holder	पट्टेदार
tenure of land	जमीन का पट्टा
tenure of office	पदावधि
term n.	(i) पद (ii) निवन्धन (iii) सत्र
terms and conditinos of service	(iv) कार्यकाल (v) अवधि
terms of reference	सेवा के निवन्धन और शर्तें
to be on good terms	निर्देश पद
come to terms	अच्छे सम्बन्ध होना
terminable	समझौता करना
terminal	सावधिक, समाप्य
terminal charges	सात्रिक, अन्तिम, सीमान्त, पर्यन्त पर्यन्त प्रभार

terminal examination	सात्रिक परीक्षा
terminal report	सात्रिक रिपोर्ट
terminal station (terminus)	अन्तिम स्टेशन
terminal tax	सीमा कर
terminal toll	सीमा पथकर
terminate <i>vb.</i>	समाप्त करना, समाप्त होना
termination	समाप्ति
termination of service	सेवा की समाप्ति
terminological	शब्द-सम्बन्धी
terminology	शब्दावली
territorial	प्रदेश-सम्बन्धी, प्रादेशिक
territorial army	प्रादेशिक सेना
territorial division	प्रादेशिक विभाजन
territorial jurisdiction	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार
territory	प्रदेश, क्षेत्र
union territory	केन्द्र-शासित क्षेत्र
terror	आतंक
terror-stricken	आतंकित
terrorism	आतंकवाद
terrorist	आतंकवादी
test	जाँच, परीक्षा
test check	जाँच करना
test paper	परीक्षा पत्र
test relief	राहत कार्य
test work	परीक्षण कार्य
testament	(i) वसीयत (ii) धर्मसंहिता
testamentary	वसीयत सम्बन्धी
testamentary disposition	वसीयती हिस्सा
testator	वसीयत करने वाला, वसीयतकर्ता
testifier	प्रमाणक
testimonial	प्रमाण पत्र
testimony	प्रमाण, सबूत
testify <i>vb.</i>	प्रमाण देना, सबूत देना
testing	जाँच, परीक्षण
testing machine	जाँच मशीन
testing signal	जाँच सिगनल

text	मूलपाठ
text book	पाठ्य पुस्तक
textile	कपड़ा, वस्त्र
textile business	कपड़े का कारवार
textile control board	वस्त्र नियंत्रण बोर्ड
texture	बुनावट
theoretical	सैद्धान्तिक
theoretically	सिद्धान्त रूप से
theorem	प्रमेय
theory	सिद्धान्त
theory and practice	सिद्धान्त और व्यवहार
thermometer	थर्मामीटर, तापमापी
thorough ( <i>adj.</i> )	सम्यक्
thoroughly	सम्यक् रूप से
thoroughness	सम्यक्ता
threat	धमकी
threaten <i>vb.</i>	धमकी देना
threatening	धमकी से भरा हुआ, तर्जनापूर्ण
thrift	किफायतशारी, मितव्ययिता
thrifty	किफायतसार, मितव्ययी
through <i>adj.</i>	सीधा, पारगामी
through booking	सीधी बुकिंग
through carriage	सीधा डिब्बा
through traffic	पारगामी यातायात
through train	सीधी गाड़ी
throughout	आरंभ से अन्त तक
thumb-impression	अंगूठे का निशान
ticket	टिकट
card ticket	कार्ड टिकट
faked ticket	जाली टिकट
expired date ticket	बीती तारीख का टिकट
irregular ticket	अनियमित टिकट
monthly ticket	मासिक टिकट
return journey ticket	वापसी यात्रा टिकट
ticket checker	टिकट परीक्षक
ticket number	टिकट नम्बर
ticket window	टिकट खिड़की

ticketless	बिना टिकट
ticketless travel	बिना टिकट सफ़र
tidal water	ज्वार काँ पानी
tide n.	ज्वार
<i>vb.</i>	कठिनाइयों आदि पर विजय पाना
tide over a crisis	संकट पार करना
tight	दृढ़, तंग, कसा हुआ
tight market	दृढ़ बाज़ार
for the time being	कुछ समय तक
time-barred	अवधि वाधित, मियादआरिज (उर्दू)
time-barred claim	अवधि वाधित दावा , मियादआरिज दावा
time-keeper	समयपाल
time limit	मियाद
time scale of pay	समय वेतन मान
time-table	समय सारणी
timely	सामयिक
title	(i) शीर्षक (ii) स्वत्व, हक
title deed	स्वत्व विलेख
title page	मुख पृष्ठ
token	प्रतीक, टोकन
token money	प्रतीक राशि
duty token	ड्यूटी टोकन
tolerate <i>vb.</i>	सहन करना, बरदाश्त करना
tolerable	सह्य, बरदाश्त के काबिल
tolerance	सहनशीलता, सहिष्णुता
tolerant	सहनशील, सहिष्णु
toleration	सहनशीलता, सहिष्णुता
toll	पयकर
toll-barrier	पय-कर अवरोध
mother-tongue	मातृभाषा
tool	औज़ार
topic	प्रसंग, विषय
topical	प्रासंगिक
top priority	परम अग्रता
topographic	स्थितिक
topography	(भौगोलिक) स्थिति

top secret	अतिगुप्त
tort	अपकृति, हकतल्फी
law of torts	अपकृति कानून, हकतल्फी कानून
torture	घोर यातना
total <i>adj.</i>	कुल, पूर्ण, समूचा
<i>n.</i>	जोड़, योग
total capacity	कुल क्षमता
total cost	कुल लागत
total eclipse	पूर्ण ग्रहण
total loss	कुल हानि, कुल नुकसान
total weight	कुल भार
totalitarian	सर्वसत्तात्मक
totalitarian state	सर्वसत्तात्मक राज्य
totalitarianism	सर्वसत्तावाद
totality	कुल योग, समग्रता
totally	पूर्णतः, नितान्त
tour	दौरा, पर्यटन
tour allowance	दौरा भत्ता
tour contingent bill	दौरे का फुटकर बिल
tour programme	दौरा-कार्यक्रम, पर्यटन-कार्यक्रम
tour report	दौरे की रिपोर्ट, पर्यटन रिपोर्ट
tourist	पर्यटक
tourist agent	पर्यटन एजेंट
tourist bureau	पर्यटन ब्यूरो
tourist car	पर्यटन यान
tourist coupon	पर्यटन कूपन
tourist industry	पर्यटन उद्योग
tourist itinerary	पर्यटन कार्यक्रम
tourist literature	पर्यटन साहित्य ▲
tournament	टूर्नामिन्ट, खेल-कूद
tout	दलाल
trace <i>n.</i>	पता, सुराग, खोज
<i>vb.</i>	(i) पता लगाना, सुराग लगाना
	(ii) अक्स उतारना
traceable	जिसका पता लगाया जा सके
tracer	(i) खोजकर्ता (ii) अनुरेखक
tracing paper	अक्सी कागज

track	मार्ग
track mileage	मार्ग-मील
tract	भूभाग
traction	कर्षण
tractor	ट्रैक्टर
trade	व्यापार, तिजारत, व्यवसाय
trade centre	व्यापार केन्द्र
trade dispute	श्रमिक विवाद
trade mark	व्यापारिक चिन्ह
trade union	कर्मचारी संघ
trade union movement	कर्मचारी संघ आन्दोलन
trade unionist	कर्मचारी संघ का सदस्य, कर्मचारी संघ वाद का समर्थक
trade and commerce	व्यापार और वाणिज्य
trading company	व्यापारी कम्पनी
tradition	परिपाटी, परम्परा
traditional	परम्परागत, पारम्परिक
traditionally	परम्परा से
traduce <i>vb.</i>	अपयश लगाना, कलंक लगाना
traffic	(i) यातायात (ii) व्यापार
traffic facility	यातायात की सुविधा
traffic inspector	यातायात निरीक्षक
traffic manager	यातायात प्रबन्धक
traffic police	यातायात पुलिस
traffic survey	यातायात सर्वेक्षण
traffic in women and children	स्त्रियों और बच्चों का व्यापार
goods traffic	माल यातायात
parcel traffic	पार्सल यातायात
passenger traffic	यात्री यातायात
trafficker	अवैध व्यापारी
trafficking	अवैध व्यापार
tragedy	दुःखान्त घटना, दुःखान्त नाटक
tragic	दुःखान्त
train <i>n.</i>	रेलगाड़ी
<i>vb.</i>	प्रशिक्षित करना, सिखाना
train indicator	गाड़ी संकेतक
train parting (Rly.)	गाड़ी का अलग-अलग टुकड़ों में बँट जाना

train register	गाड़ी रजिस्टर
train schedule	गाड़ी अनुसूची
train staff	गाड़ी कर्मचारी वर्ग
trained	प्रशिक्षित
training	प्रशिक्षण, सिखलाई
training institute	प्रशिक्षण संस्थान
training school	प्रशिक्षण स्कूल
training ship	प्रशिक्षण पोत
military training	सैनिक प्रशिक्षण, फौजी ट्रेनिंग
naval training	नौसैनिक प्रशिक्षण
trait	लक्षण, विशेषता
traitor	विश्वासघाती
tranquil	स्थिर, अक्षुब्ध
tranquility	स्थिरता, अक्षोभ
peace & tranquility	शान्ति और स्थिरता
transact <i>vb.</i>	लेन-देन करना, सौदा करना, व्यवहार करना
transaction	लेन-देन, सौदा, व्यवहार, कार्रवाई
cash transaction	नकद व्यवहार
transcribe <i>vb.</i>	नकल करना, प्रतिलेखन
transcriber	प्रतिलेखक
transcript	प्रतिलेख
transcription	प्रतिलेख
transfer <i>n.</i>	वदली, स्थानान्तरण, अन्तरण
<i>vb.</i>	नामान्तरण
transfer allowance	वदली करना, अन्तरण करना
transfer application	वदली भत्ता
transfer certificate	वदली की अर्जी, नामान्तरण के लिए अर्जी
transfer entry	अन्तरण प्रमाण पत्र
transfer of funds	अन्तरण इन्दराज
transfer papers	रकम का अन्तरण
transfer register	अन्तरण-सम्बन्धी कागज
transfer transaction	अन्तरण रजिस्टर
transfer of property	अन्तरण की कार्रवाई
transferable	जायदाद का अन्तरण
	अन्तरणीय



transferred	अन्तरित
transferred vote	अन्तरित मतदान
transferee	अन्तरिती
transference	अन्तरण
transference deed	अन्तरण विलेख
transferor	अन्तरक
transform <i>vb.</i>	रूपान्तर करना
transformation	रूपान्तरण
transfuse <i>vb.</i>	आधान करना
transfusion of blood	रक्त का आधान, खून चढ़ाना
transgress <i>vb.</i>	अतिक्रमण करना
transgression	अतिक्रमण
transgressor	अतिक्रामी
tranship <i>vb.</i>	यानान्तरण करना ( एक डिब्बे से उतार कर दूसरे डिब्बे में रखना )
transhipment	यानान्तरण
transhipment yard	यानान्तरण यार्ड
transit	पारेपण, पारवहन
transit camp	पारेपण शिविर, पारवहन शिविर
goods in transit	माल रास्ते में
transit losses	रास्ते में नुकसान, पारवहन हानि
safe transit	सुरक्षित पारेपण, सुरक्षित पारवाहन
transition	संक्रमण, संक्रांति
transitional <i>adj.</i>	संक्रमण कालीन, संक्रान्ति कालीन
transitional period	संक्रमण काल, संक्रान्ति काल
transitional provisions	संक्रमण कालीन उपबन्ध
transitory	क्षणिक
translate <i>vb.</i>	अनुवाद करना
translate into action	(i) अमल में लाना (ii) कार्यरूप में परिणत करना
translation	अनुवाद
translator	अनुवादक
transliterate <i>vb.</i>	लिप्यंतर करना
transliteration	लिप्यंतर

transmission	संप्रेषण
transmission line	संप्रेषण लाइन
transmit <i>vb.</i>	संप्रेषण करना
transmitter	ट्रान्समिटर, संप्रेषक
transparent	पारदर्शी
transpire <i>vb.</i>	घटित होना
transplant <i>vb.</i>	(i) पौधे को एक स्थान से उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगाना (ii) प्रतिरोपण करना
transport <i>n.</i>	परिवहन
<i>vb.</i>	ले जाना, परिवहन करना
transport authority	परिवहन अधिकारी, परिवहन अधिकरण
transport board	परिवहन बोर्ड
transport charges	परिवहन प्रभार
transport inspector	परिवहन निरीक्षक
transport officer	परिवहन अफसर
transportation	(i) परिवहन (ii) निर्वास
transportation apprentice	परिवहन अप्रैन्टिस
transportation for life	आजीवन निर्वास
trap <i>n.</i>	जाल
<i>vb.</i>	जाल में फँसाना
travel <i>n.</i>	यात्रा, सफ़र
<i>vb.</i>	यात्रा करना, सफ़र करना
travel concessions	यात्रा-सम्बन्धी रियायतें
travelling allowance	यात्रा भत्ता
travelling allowance bill	यात्रा भत्ता बिल
travelling ticket examiner	यात्रा टिकट परीक्षक
travelling ticket inspector	यात्रा टिकट निरीक्षक
travelling safe	सफ़री तिजोरी
travesty	उपहास
travesty of facts	तथ्यों का उपहास
treacherous	कपटी, विश्वासघाती
treacherously	कपट से, विश्वासघात से
treacherousness	कपट, विश्वासघात
treachery	कपट, विश्वासघात
treason	देशद्रोह
treasurer	खजांची

treasury	सरकारी खजाना, राजकोष
treasury bill	सरकारी खजाने की हुन्डी
treasury officer	खजाना अफसर
treasury receipt	खजाने की रसीद
treat <i>vb.</i>	(i) व्यवहार करना (ii) इलाज करना, उपचार करना
treat at length	सविस्तार व्याख्या करना
treatise	निबन्ध
treatment	(i) व्यवहार (ii) इलाज, उपचार
treaty	संधि
treaty obligations	संधिगत आभार
tremendous	(i) बहुत अधिक (ii) जोरदार
trenchant	तीव्र, तीखा
trenchant criticism	तीव्र आलोचना, तीखी आलोचना
trend	झुकाव
trespass <i>n.</i>	अतिचार
<i>vb.</i>	अतिचार करना
trespasser	अतिचारी
triable	अभियोज्य
trial	(i) परीक्षण, आजमाइश (ii) अभियोग पर विचार, विचारणा
trial court	विचारणा न्यायालय
trial by jury	जुरी द्वारा अभियोग पर विचारणा
trial and error method	परीक्षण और भूल प्रणाली
tribal area	कवायली क्षेत्र
tribe	कबीला
tribesman	कवायली
tribulation	मानसिक कष्ट, मनस्ताप
tribunal	न्यायाधिकरण
tributary	(i) सहायक (ii) करदाता
tribute	(i) कर (ii) प्रशंसा
to pay tribute	(i) कर देना (ii) प्रशंसा करना
trick	चाल
trickery	चालबाजी
tricky	चालबाज
triennial	तीन साला, त्रैवार्षिक
trifle <i>n.</i>	मामूली बात
<i>vb.</i>	गँवाना, खोना, तुच्छ समझना

rifling matter	मामूली बात
rip	फेरा
ripartite	तृपक्षीय
ripartite pact	तृपक्षीय समझौता
riple	तेहरा, तिगुना, त्रिगुण
riplicate	तिहरा, तीसरी प्रति
in triplicate	तीन प्रतियाँ
triplicate of a bill	बिल की तीसरी प्रति
triumph	विजय
triumphant	विजयी
triweekly	(i) हफ्ते में तीन बार (ii) त्रैसाप्ताहिक
trolley	ट्राली
trolley man	ट्राली चालक
troop	(i) सेना (ii) टोली
trophy	विजयचिह्न, विजयोपहार
tropic	उष्ण प्रदेशीय
tropical	उष्ण प्रदेशीय
tropics	उष्ण-प्रदेश, उष्ण कटिबन्ध
trouble n.	दुख, क्लेश, परेशानी
vb.	दुख देना, परेशान करना
troubelesome	दुखदायी
truancy	काम से जी चुराना -
truant	कामचोर
truce	त्रिराम संधि
truc copy	ग्रामाणिक प्रतिलिपि, सही नकल
trunk-call	ट्रंक टेलीफोन
trunk line	ट्रंक लाइन
trust n.	(i) आस्था, विश्वास, भरोसा (ii) न्यास, धरोहर
vb.	(i) आस्था रखना, विश्वास करना (ii) भरोसा करना, धरोहर रखना
trust property	न्यास सम्पत्ति
trust deed	न्यास पत्र
trusted	विश्वसनीय
trustee	न्यासधारी
board of trustee	न्यासधारी मण्डल
trusteeship	न्यासिता, न्यासधारिता

trusteeship council	न्यास परिषद
trustful	विश्वास योग्य
trustworthy	विश्वसनीय
truth	सत्य, सच्चाई, ईमान
the whole truth	पूर्ण सत्य
nothing but the truth	केवल सत्य और कुछ भी नहीं
truthful	सच्चा, ईमानदार
truthfully	सच्चाई के साथ
try <i>vb.</i>	कोशिश करना, परीक्षण करना, आजमाइश करना (iii) अभियोग पर विचार करना
turn <i>n.</i>	मोड़, घुमाव
<i>vb.</i>	घुमाना
turn down	अस्वीकृत करना
take a new turn	स्थिति में परिवर्तन होना
turn table (Rly)	घूमचक्कर
twofold	दोहरा, दूना
type <i>n.</i>	टाइप, प्रकार, प्रतिरूप, नमूना
<i>vb.</i>	टाइप करना
typical	विशिष्ट, विशेषता-सूचक, नमूने का
typically	विशेष रूप से, नमूने के तौर पर
typing	टाइपिंग
typist	टाइपिस्ट
type-writing	टाइप-लेखन
type-writing machine	टाइप मशीन
type-writing speed	टाइप करने की रफ़्तार
tyrannical	क्रूरतापूर्ण
tyrannise <i>vb.</i>	क्रूरता करना, अत्याचार करना
tyranny	क्रूरता
tyrant	क्रूर, अत्याचारी

## U

ugly	कुरूप, भद्दा, अप्रिय
ugly incident	अप्रिय घटना
ugly situation	अप्रिय स्थिति
ulterior	परोक्ष, प्रच्छन्न
ulterior motive	परोक्ष उद्देश्य
ultimate	अन्तिम, परम
ultimate authority	परम सत्ता
ultimate result	अन्तिम परिणाम
ultimately	अन्ततः, आखिरकार
ultimatum	अंतिम चेतावनी, अन्तिमेत्थम्
ultimo	गतमास
ultra	अति, परे, दूरस्थ
ultra modern	अति आधुनिक
ultra vires	शक्ति से परे
umpire	मध्यस्थ, निर्णायक
unabashed	निर्लज्ज, वेशर्म
unabated	उसी वेग से
unacceptable	अस्वीकार्य
unaccustomed	अनभ्यस्त, जो आदी न हो
unacquainted	अपरिचित
unadjusted	असमंजित
unadjusted balance	असमंजित शेष
unaffected	(i) सरल, स्वाभाविक (ii) अप्रभावित
unagitated	अक्षुब्ध, शान्त
unalienable	(i) जो अलग न किया जा सके, अवियोज्य
unanimity	सर्वसम्मति
unanimous	सर्वसम्मत्
unanimous decision	सर्वसम्मत् निर्णय
unanimous election	सर्वसम्मत् चुनाव
unanimously	सर्वसम्मति से
unanimously elected	सर्वसम्मति से चुना गया

unarm <i>vb.</i>	निहत्था करना
unarmed	निहत्था, निरस्त्र
unattached	असम्बद्ध
unauthentic	अनधिप्रामाणिक
unauthorized	अनधिकृत
unavoidable	अपरिहार्य
unaware	अनभिज्ञ, वेखबर
unawares	अचानक, अकस्मात्
unalanced	असंतुलित
unbecoming	अशोभनीय, अनुचित
unbiased	निष्पक्ष, पक्षपात रहित
unbusiness-like	अव्यावहारिक, अकुशल, व्यवहार- विरुद्ध
uncalled for	अनावश्यक, अयाचित
unceasing	निरंतर
uncertain	अनिश्चित
uncertainty	अनिश्चितता
unclaimed	बिना वारिस का, लावारिस
unclaimed consignment	लावारिस माल
unclaimed property	लावारिस सम्पत्ति
uncommon	असाधारण, असमान
uncompromising	अनमनीय
uncompromising attitude	अनमनीय रुख
unconcerned	असम्बन्धित, उदासीन, निर्लिप्त, वैफ्रिक
unconditional	बिना शर्त
unconditional release	बिना शर्त रिहाई
unconditional surrender	बिना शर्त समर्पण
unconfirmed	अपुष्ट, अस्थायी
unconfirmed news	अपुष्ट समाचार
unconscious	अचेत, बेहोश, अज्ञान
unconsciously	अज्ञानवश, अनजाने
unconsciousness	अचेतना, बेहोशी, अज्ञानता
unconstitutional	संविधान-विरुद्ध, असंवैधानिक
unconstitutional act	संविधान-विरुद्ध कार्य
unconventional	अपारंपरिक, अरुढ़िवादी
uncultivated land	परती, बंजर जमीन
uncurrent	अप्रचलित

uncurrent coin	अप्रचलित सिक्का
undated	बिना तारीख का
undecided	अनिश्चित, अनिर्णीत
undefined	अनिश्चित, अपरिभाषित
underage	निर्धारित आयु से कम का
undercharge	कम प्रभार
undercharged	जिससे कम प्रभार लिया गया हो,
	जिस पर कम प्रभार लिया गया हो
under certificate of posting	डाक-प्रमाणपत्र लेकर भेजा गया
under consideration	विचाराधीन
under construction	निर्माणाधीन
under developed	अर्धविकसित
under discussion	विवेचनाधीन
under employment	अपर्याप्त काम
under estimate	कम आँकना, अल्पानुमान
under frame	निचला ढाँचा
underground	भूमिगत, गुप्त
underground cellar	भूधरा
underground movement	गुप्त आन्दोलन
go underground	छिप जाना, फ़रार होना
underhand	प्रच्छन्न, कपटपूर्ण
underhand policy	कपटपूर्ण नीति
under investigation	जाँच में
unearth a plot	पड़यंत्र का पता लगाना
underline <i>vb.</i>	रेखांकित करना, बल देकर कहना
undermine <i>vb.</i>	क्षीण करना, जड़ खोदना, गुप्त रूप से क्षति पहुँचाना
under-population	न्यून जनसंख्या
under-production	न्यून उत्पादन
under-proprietor	उप स्वामी, अदना मालिक
underrate <i>vb.</i>	कम समझना, कम आँकना
under reference	संदर्भाधीन, प्रसंगाधीन
undersigned	निम्नहस्ताक्षरकर्ता
understandable	बोधगम्य
understanding	बोध, समझीता
understate <i>vb.</i>	कम बताना
understatement	कम बताना



undertake	व्य. (i) हाथ में लेना, (ii) वचन देना, वादा करना (iii) उपक्रम करना
undertaking	(i) वचन, वादा (ii) उपक्रम, हाथ में लिया हुआ काम
under-tenancy	शिकमी पट्टा, शिकमी काश्त
under-tenant	शिकमी पट्टेदार, शिकमी काश्तकार
under-trial prisoner	हवालाती कैदी
under-valuation	अवमूल्यन
undeserving	कुपात्र
undetermined	अनिर्णीत
undischarged	अनुन्मुक्त, अशोधित
undischarged insolvent	अनुन्मुक्त दिवालिया
undisputed	निर्विवाद
undue	अनुचित
unearned	अर्जित
unearned income	अर्जित आय, अर्जित आमदनी
uneconomic holdings	अलाभकर जोत
unemployed	वेरोजगार, बेकार
unemployment	वेरोजगारी, बेकारी
unemployment insurance	वेरोजगार बीमा
unexpected	अप्रत्याशित
unexpectedly	अचानक, अप्रत्याशित रूप से
unexpired	असमाप्त, शेष, बाकी
unexpired leave	बाकी छुट्टी
unfair	अनुचित
unfair means	अनुचित साधन
unfavourable	प्रतिकूल
unfavourable balance of trade	व्यापार का प्रतिकूल संतुलन
unfavourable exchange	प्रतिकूल विनिमय
unfettered	बंधन-मुक्त, निर्बाध
unforeseen	अनपेक्षित, अपूर्व दिष्ट
unfunded	अनिधिक
unfunded debt	अनिधिक ऋण
ungraded	अवर्गित
ungraded coal	अवर्गित कोयला
unhampered	विना रोक-टोक
unicameral legislature	एक सदनी विधान मण्डल

bicameral legislature	दोसदनी विधान मण्डलें
unification	एकीकरण
unifier	एक करन वाला
unify <i>vb.</i>	एक करना, एकीकरण
uniform <i>n.</i>	बर्दी
<i>adj.</i>	समान, एकरूप, समरूप
uniform scale of pay	समान वेतन-मान
uniformity	एकरूपता
uniformly	समानरूप से
unilateral	एक पक्षीय, एकतरफा
unilateral contract	एक पक्षीय संविदा
unilateral action	एक पक्षीय कार्रवाई, एकतरफा कार्रवाई
unilateral repudiation	एक पक्षीय प्रत्याख्यान
union	संघ, सम्मिलन
labour union	मज़दूर संघ, श्रमिक संघ
trade union	कर्मचारी संघ
union list	संघ की विषय-सूची
union parliament	संघ की संसद्
union of states	राज्य-संघ
unionism	संघवाद
unionist	संघवादी
unintended	अनभिप्रेत
unintentional	अनभिप्राय
unintentionally	बिना किसी अभिप्राय के
unique	अनोखा, अनुपम
uniqueness	अनोखापन, अनुपमता
unit	इकाई, टुकड़ी, दस्ता, एकक
unitary	(i) ऐकिक (ii) एकात्मक
unitary constitution	एकात्मक संविधान
unitary state	एकात्मक राज्य
unitary tax system	एकात्मक कर-प्रणाली
unity	एकता, मेल
universal	व्यापक, विश्वव्यापी
universal demand	व्यापक माँग
universal suffrage	सर्वमताधिकार
universality	व्यापकता
unlawful	अवैध, गैरकानूनी

unlawful assembly	अवैध या गैरकानूनी मजमा
unlike	भिन्न, असदृश
unlimited	असीम, निस्सीम
unload <i>vb.</i>	उतारना, खाली करना
unloading platform	माल उतारने का प्लेटफ़ॉर्म
unnatural	अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, वनावटी, कृत्रिम
unofficial	(i) गैर सरकारी, अशासकीय (ii) अनधिकारिक, अनौपचारिक
unofficial letter	अनौपचारिक पत्र, गैरसरकारी पत्र
unofficially	अनौपचारिक रूपसे, अनधिकारिक रूप से
unpaid	अदत्त, बाकी
unpaid capital	अदत्त पूंजी
unpaid dividend	अदत्त लाभांश
unpaid interest	अदत्त सूद
unparliamentary	संसदीय नियमों या शिष्टाचार के विरुद्ध, असांसदिक
unparliamentary expression	असांसदिक अभिव्यक्ति
unpopular	वदनाम, अप्रिय
unpopularity	वदनामी, अप्रियता
unplanned economy	अनायोजित अर्थव्यवस्था
unpleasant	अप्रिय, कटु
unpleasantness	अप्रियता, कटुता
unpracticable	अव्यवहार्य
unpractical	अव्यावहारिक
unprecedented	अपूर्व
unproductive	अलाभकर, अनुत्पादक
unproductive expenses	अनुत्पादक व्यय
unproductive labour	अनुत्पादक श्रम
unproductive mileage	अलाभकर मील
unproductive soil	ऊसर
unproductive wages	अलाभकर मजदूरी
unprofitable	अलाभप्रद
unqualified	(i) अयोग्य, अनर्ह (ii) बिना शर्त
unqualified apology	बिना शर्त माफ़ी
unreal	अवास्तविक
unrealisable	अप्राप्य
unreasonable	तर्कहीन, अनुचित

unrefined  
 unreliable  
 unremunerative  
 unrest  
 unruly  
 unsatisfactory  
 unscrupulous  
 unseat *vb.*  
 unseviceable  
 unskilled  
 unskilled labour  
 unsound  
 unsound mind  
 unsound policy  
 unstable  
 unsteady  
 unsuitable  
 untoward  
 untrained  
 unusual  
 unveil *vb.*  
 unveiling ceremony  
 unyield *vb.*  
 unyielding  
 up direction  
 up train  
 up grade *vb.*  
 upgraded  
 upgraded post  
 upgrading  
 upkeep  
 upper  
 upper age limit  
 upper berth  
 lower berth  
 upper class  
 lower class

अपरिष्कृत, बिना साफ़ किया हुआ  
 अविश्वसनीय  
 बलाभकर  
 अशान्ति, उपद्रव  
 बेकाबू, उपद्रवी  
 अन्तोपजनक  
 असंकोची, अविवेकी  
 अनासीन करना, अपदस्थ करना  
 बेकार, अनुपयोगी  
 अकुशल  
 अकुशल मजदूर  
 (i) दोषपूर्ण, खराब (ii) विकृत  
 खराब दिमाग, विकृत चित्त  
 दोषपूर्ण नीति  
 अस्थिर  
 अस्थिर  
 अनुपयुक्त  
 अनिष्टकर  
 अप्रशिक्षित  
 असामान्य  
 उद्घाटन करना  
 उद्घाटन समारोह  
 दृढ़ रहना  
 दृढ़  
 'अप' दिशा  
 'अप' गाड़ी  
 क्रमोन्नत करना  
 क्रमोन्नत  
 क्रमोन्नत पद  
 क्रमोन्नति  
 देख-रेख  
 ऊपरी, ऊपर का, ऊँचा, प्रवर  
 ऊपरी आयु-सीमा  
 ऊपर की शायिका  
 नीचे की शायिका  
 ऊँचा दर्जा  
 निचला दर्जा

upper house	प्रवर सदन
lower house	अवर सदन
upbring <i>vb.</i>	पालन-पोषण करना, परवरिश करना
upbringing	पालन-पोषण, परवरिश
upheaval	उथल-पुथल
uphold <i>vb.</i>	(i) अनुमोदन करना (ii) मर्यादा कायम रखना
uprise <i>vb.</i>	विद्रोह करना
uprising	विद्रोह
uproar	शोर, हंगामा
uproot <i>vb.</i>	जड़ से उखाड़ना, समूल नष्ट करना
up-to-date	(i) आधुनिक विचार का
	(ii) अद्यवत्, आधुनिकतम
make up-to-date	अद्यवत् करना, आधुनिकतम बनाना
urban	नगरी, शहरी
urban constituency	नगरी या शहरी चुनाव-क्षेत्र
urban population	नगरी जन संख्या, शहरी आवादी
urgency	अविलंब्यता
urgency certificate	अविलंब्यता प्रमाणपत्र
urgent	अविलम्ब, तुरत
usable	उपयोग में लाने योग्य
usage	प्रथा, रूढ़ि, प्रयोग, व्यवहार
use <i>n.</i>	प्रयोग, उपयोग, सेवन, इस्तेमाल
<i>vb.</i>	प्रयोग करना, सेवन करना, इस्तेमाल करना
useful	उपयोगी, हितकर
usefulness	उपयोगिता
user	(i) उपयोग (law)
	(ii) उपभोक्ता
users' consultative committee	उपभोक्ता परामर्श समिति
usual	सामान्य, प्रायिक, आम
usually	सामान्यतः, प्रायः
usufruct	भोगाधिकार
usufructuary	भोगाधिकारी
usufructuary mortgage	भोगाधिकार रेहन
usurious	सूदखोरी-सम्बन्धी
usurer	सूदखोर

usurp <i>vb.</i>	हड़पना, अनधिकार ग्रहण करना
usurpation	हड़पना, अनधिकार ग्रहण
usury	सूदखोरी
utilitarian	उपयोगितावादी
utilitarianism	उपयोगितावाद
utility	उपयोगिता
utilization	उपयोग
utilize <i>vb.</i>	काम में लाना, उपयोग में लाना
utopia	स्वप्न लोक, काल्पनिक आदर्श
utopian	स्वप्नदर्शी, काल्पनिक
utter <i>adj.</i>	निपट, निरा
<i>vb.</i>	व्यक्त करना, बोलना, उच्चारण करना
utterance	उद्गार

V

vacancy	(i) खाली जगह, रिक्त स्थान (ii) रिक्ति, रिक्तता
vacancy-leave	छुट्टी-रिक्ति
vacant	(i) खाली, रिक्त (ii) शून्य
vacant house	खाली घर
vacant post	खाली जगह, रिक्त पद
vacant succession	रिक्त उत्तराधिकार
vacate <i>vb.</i>	खाली करना, रिक्त करना
vacation	दीर्घावकाश, तातील
vacation pay	दीर्घावकाश वेतन, तातील का वेतन
vaccination	चेचक का टीका
vaccinate <i>vb.</i>	चेचक का टीका लगाना
vaccinator	वैक्सीनेटर
vacillate <i>vb.</i>	पशोपेश करना, असमंजस में होना
vacillation	पशोपेश, असमंजस
vacuum	(i) शून्य, निर्वात (ii) शून्यता, रिक्तता, निर्वातता
vagabond	आवारा
vagary	उच्छृंखलता, अस्थिरता, भ्रक
vagrancy	आवारागर्दी
vagrant	आवारा
vague	अनिश्चित, अस्पष्ट, गोलमोल
valid	(i) वैध, (ii) मान्य, प्रवल
validate <i>vb.</i>	वैध बनाना
validity	वैधता
validity period	वैधता अवधि
validation	वैधकरण
validatory	वैधकारी
valuable	(i) कीमती, बहुमूल्य (ii) उपयोगी
valuable traffic	कीमती माल
valuation	मूल्यनिर्धारण, मूल्यांकन
value <i>n.</i>	मूल्य, उपयोगिता, मान
<i>vb.</i>	मूल्यन, मान करना

van	डिब्बा, यान
fish van	मछली यान
luggage van	सामान यान
parcel van	पार्सल यान
vanguard	अग्रगामी दल
vanity	अहंकार, मिथ्याभिमान
vanish <i>vb.</i>	लुप्त होना, विघटित होना
vanquish <i>vb.</i>	हरा देना, पराजित करना
vanquished	पराजित
variable	अस्थिर, परिवर्त्ती, चल
variable market	अस्थिर भाव
variance	भिन्नता, असामंजस्य
variant	(i) रूपान्तर, रूपभेद (ii) भिन्न
variation	(i) घटा-बढ़ी (ii) अन्तर
varied	विभिन्न प्रकार का
variety	(i) प्रकार, किस्म (ii) विविधता
various	तरह-तरह का, अनेक, विभिन्न,
vary <i>vb.</i>	घटना-बढ़ना, भिन्न होना, वदलना
vassal	अधीन, मातहत
vassal state	अधीन राज्य
vegetarian	शाकाहारी
vegetrian meal	शाकाहार
vegetation	पेड़-पौधे, वनस्पति
vehemence	तीव्रता, उत्कटता, आवेश
vehement	तीव्र, उत्कट, आवेशपूर्ण
vehement criticism	तीव्र आलोचना, आवेशपूर्ण आलोचना
vehemently	कटुतापूर्ण ढंग से, आवेश में आकर
vehicle	वाहन
vehicle mile	वाहन मील
velocity	प्रवेग
vendee	खरीददार
vending contract	खोमचे का ठेका
vendor	(i) विक्रेता (ii) खोमचे वाला
venerable	आदरणीय
venerate <i>vb.</i>	आदर करना
veneration	आदर




vengeance	वदला, प्रतिकार
give vent to	भाव प्रकट करना
venereal	यौन-सम्बन्धी
venereal disease	यौन रोग
venture <i>vb.</i>	साहस करना
<i>n.</i>	साहस, साहसिक कार्य, उपक्रम
ventilate <i>vb.</i>	प्रकट करना, व्यक्त करना
ventilation	रोशनदान, वातायन, प्रकटन
venue	स्थल, स्थान
veracity	सच्चाई, सत्यवादिता
verbal	(i) मौखिक, ज़बानी (ii) शाब्दिक
verbal alteration	शाब्दिक परिवर्तन
verbal contract	मौखिक संधिदा
verbal instruction	मौखिक अनुदेश, ज़बानी हिदायतें
verbatim	यथावत्, शब्दशः, अविकल
verbatim report	यथावत् रिपोर्ट
verdict	अधिमत
verification	सत्यापन
verification of claims	दावों का सत्यापन
verified	सत्यापित
verify <i>vb.</i>	सत्यापित करना
versatile	सर्वतोमुखी
versatile genius	सर्वतोमुखी प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति
versatility	सर्वतोमुखी प्रतिभा
version	(i) पाठ, भाषान्तर, अनुवाद
	(ii) विवरण
version-authoritative	अधिकृत विवरण
version-revised	संशोधित विवरण
version-wrong	गलत विवरण
versus	बनाम
vest <i>vb.</i>	अधिकार देना, निहित करना
vested interests	निहित स्वार्थ
by virtue of the authority, vested	निहित अधिकार के आधार पर
vesting	अधिकार दान, निधान
vesting date	निधान की तारीख
vesting order	निधान आदेश

veterinary	पशुचिकित्सा, शालहोत्र
veterinary doctor	पशुचिकित्सा-सम्बन्धी
veto	पशु चिकित्सक, शालहोत्री.
power of veto	निषेध, रोध
vex <i>vb.</i>	निषेधाधिकार
vexation	तंग करना
vexatious	तंग करना
via	तंग करने वाला
via media	से होकर, के रास्ते, बरास्ता
vice <i>n.</i>	बीच का रास्ता
( prefix )	दोष, अवगुण
vice admiral	उप
vice-chairman	उप नौसेनापति
vice-chancellor	उपाध्यक्ष
vice-president	उपकुलपति
vice versa	उपसभापति, उपराष्ट्रपति
vicinity	विलोमतः
vicious	पड़ोस, समीपता
vicious circle	दुष्ट, नीच प्रकृति का
vicissitude	दुष्टचक्र, अपचक्र
victim	चढ़ाव-उतार, उन्नति-अवनति
victimization	शिकार
victimize <i>vb.</i>	सताना, अत्याचार
victorious	सताना, अत्याचार करना
victory	विजेता, विजयी
vide	जीत, विजय
vie with <i>vb.</i>	देखिए
view <i>n.</i>	प्रतिस्पर्धा करना, होड़ लगाना
<i>vb.</i>	दृश्य, दृष्टि, विचार
view-point	विचार करना
vigil	दृष्टि-कोण
keep vigil	जागरण, रखवाली
vigilance	रखवाली करना, चौकसी रखना
vigilance officer	चौकसी, रखवाली
vigilance organisation	चौकसी अफसर
vigilant	चौकसी संगठन
rigour	चौकस, सचेत
	वल, ओज, उत्साह

vigorous	जोरदार, प्रबल, ओजपूर्ण
vilify <i>vb.</i>	अपवाद फैलाना, बदनाम करना
village administration	गाँव का प्रशासन, ग्राम-प्रशासन
village community	गाँव समाज, ग्राम समाज
village headman	गाँव का मुखिया
village industry	ग्राम उद्योग, घरेलू उद्योग
village uplift	ग्राम-सुधार
vindicate <i>vb.</i>	प्रतिसमर्थन करना, प्रतिकार करना
vindication	(i) प्रतिसमर्थन (ii) प्रतिकार
vindictive	बदला लेने वाला, प्रतिशोषक, प्रतिशोधी, प्रतिकारक
violate <i>vb.</i>	नियम तोड़ना, अतिक्रमण करना
violation	अतिक्रमण,
violation of rules	नियमों का अतिक्रमण
violence	हिंसा, बल-प्रयोग, उग्रता
violent	उग्र, हिंसात्मक, हिंसापूर्ण
violent agitation	हिंसात्मक आन्दोलन
violent crime	हिंसात्मक अपराध
violent demonstration	उग्र प्रदर्शन
virgin	कुमारी, अविवाहिता
virgin soil	बिना जुती हुई जमीन, परती
virginity	कामार्थ
virile	पुरुषोचित
virility	पौरुष, मर्दानगी
virtual	(i) असली, वास्तविक (ii) प्रतीयमान
virtually	वस्तुतः
virulence	विपाक्तता
virulent	विपाक्त, घातक
virtue	(i) सद्गुण (ii) सामर्थ्य
virtuous	सद्गुणी, धर्मात्मा, सदाचारी
visa	वीसा
vis-a-vis	की तुलना में
visibility	दृश्यता, दिखायी पड़ना
visible	जो दिखायी पड़े, दृष्टिगोचर
visit <i>n.</i>	मुलाकात, भेंट, आगमन, निरीक्षण
<i>vb.</i>	मिलना, भेंट करना, निरीक्षण करना,
	आगमन करना
visitation	आपद्, दैवी आपत्ति

visiting hours	मिलने का समय, मुलाकात का समय
visitor	मुलाकाती, दर्शक, निरीक्षक, आगन्तुक
visitors book	आगन्तुकों का रजिस्टर
visitors' gallery	दर्शक वीथी
vision	दृष्टि, बीनाई (जुड़)
visionary	स्वप्नदर्शी, काल्पनिक, अवास्तविक
visual	दृश्य
visual aids	दृश्य प्रसाधन
vital	(i) जीवनदायिनी, (ii) अत्यावश्यक (iii) महत्वपूर्ण
vital energy	जीवनीशक्ति
vital statistics	महत्वपूर्ण आँकड़े
vitality	जीवनीशक्ति
vitiate <i>vb.</i>	दूषित करना
vitiated	दूषित
vituperate <i>vb.</i>	निन्दा करना, भर्त्सना करना
vituperation	निन्दन, भर्त्सना
vituperative	निन्दात्मक, निन्दापूर्ण
viva vice	मौखिक, ज़बानी
vivid	विशद, सजीव
vividness	विशदता, सजीवता
vivisect <i>vb.</i>	विभाजित करना, टुकड़ों में बाँटना
vocabulary	शब्द-भंडार
vocal	(i) स्वर अथवा कण्ठ-सम्बन्धी (ii) मुखर
vocal music	कण्ठ संगीत
vocation	व्यवसाय
vocational	व्यावसायिक
vocational institute	व्यावसायिक संस्थान
vocational training	व्यावसायिक प्रशिक्षण
voice <i>n.</i>	आवाज, वाणी
<i>vb.</i>	कहना, प्रकट करना, व्यक्त करना
voice popular grievances	सार्वजनिक शिकायतों को व्यक्त करना
vogue	रिवाज, प्रथा
void	शून्य
null and void	रद्द, अप्रभावी

voidable	भंजनीय, विवर्जनीय
voidable contract	विवर्जनीय संविदा, भंजनीय संविदा
volatile	चंचल, परिवर्तनशील
volatility	चंचलता, परिवर्तनशीलता
volume	(i) खण्ड, भाग (ii) परिमाण (iii) घनफल
voluminous	भारी, बृहदाकार
voluntarily	स्वेच्छा से
voluntary	ऐच्छिक
voluntary contribution	ऐच्छिक चन्दा
volunteer n.	स्वयं-सेवक
vb.	अर्पित करना
volunteer corps	स्वयंसेवक दल
volunteer one's service	अपनी सेवाएं अर्पित करना
votable	मतदेय
votable item	मतदेय मद
vote vb.	वोट देना, मत देना, स्वीकार करना
n.	(i) वोट, (ii) मतदान
vote, plural	बहु मतदान
vote, single	एकल मतदान
vote, single transferable	एकल संक्रमणीय मत
vote, non-transferable	असंक्रमणीय मत
vote, casting	निर्णायक मत
voted	स्वीकृत
voted grant	स्वीकृत अनुदान
vote of no confidence	अविश्वास प्रस्ताव
vote on account	लेखानुदान
voter	वोटर, मतदाता
voting	मतदान
voting by proxy	प्रतिनिधि द्वारा मतदान
voting paper	मतपत्र, वोट की पर्ची
voucher	वाउचर
vouchsafe vb.	जिम्मा लेना, अनुग्रह करना
vulnerability	भेदा, अशुद्धि
vulnerable	भेद्य, असुरक्षित
vulnerable frontier	भेद्य सीमा
vulnerable spot	भेद्य या असुरक्षित स्थान



W

wage	मजदूरी, वेतन
wage rate	मजदूरी की दर, वेतन-दर
wages fund	मजदूरी निधि वेतन-निधि
wages system	मजदूरी प्रणाली, वेतन प्रणाली
daily wages	दैनिक मजदूरी, दिहाड़ी
living wages	निर्वाह वेतन
minimum wages	कम से कम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी
piece wages	उजरत
wagon	माल डिब्बा
wagon allotment	माल डिब्बों का नियतन
wagon shortage	माल डिब्बों की कमी
wagon supply	माल डिब्बों की सप्लाई
wait <i>vb.</i>	थम जाना, रुक जाना, प्रतीक्षा करना, इन्तज़ार करना
waiting hall *	प्रतीक्षालय
waiting list	प्रतीक्षक सूची
waiting room	प्रतीक्षालय
waive <i>vb.</i>	छोड़ देना, अधित्याग करना
waiver	अधित्याग, छोड़ देना
waiving of objection	एतराज़ छोड़ देना
waiving of recovery	वसूली छोड़ देना
want <i>n.</i>	कमी, अभाव, न्यूनता, चाह, माँग
<i>vb.</i>	अभाव होना, चाहना
want of jurisdiction	क्षेत्राधिकार का अभाव
wanting	न्यून
war	युद्ध
warfare	युद्ध
war hysteria	युद्ध उन्माद

\*रेलवे में तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय को waiting hall और ऊँचे दर्जों के प्रतीक्षालय को waiting room कहते हैं।

war-monger	युद्ध-व्यसावय
war-mongering	युद्ध-व्यवसयी
war prisoner	युद्ध-बन्दी
war time economy	युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था
ward <i>n.</i>	(i) वार्ड (as in a hospital) (ii) प्रतिपाल्य
<i>vb.</i>	निगरानी करना, चौकसी रखना, प्रतिपालन करना
warden	प्रतिपालक, वार्डेन
warder	वार्डर
warehouse	गोदाम, भण्डार
warn <i>vb.</i>	चेतावनी देना
warning signal	चेतावनी सिगनल
warning	चेतावनी
warrant <i>n.</i>	(i) वारंट (ii) अधिपत्र
<i>vb.</i>	उचित होना, संगत होना
to issue a warrant	वारंट जारी करना
warrant case	वारन्टी मुकदमा
warrant officer	वारन्ट अफसर
warrant of arrest	गिरफ्तारी का वारन्ट
warrant of attachment	कुर्की का वारन्ट
warrant of precedence	वरिष्ठता अधिपत्र
warrant of search	तलाशी का वारन्ट
warrant for surrender	हाज़िर होने का वारन्ट, आत्म-समर्पण का वारन्ट
warranted	उचित
unwarranted	अनुचित
wastage	अपव्यय, वर्वादी, छीजन
wastage of energy	शक्ति का अपव्यय
wastage of time	समय की वर्वादी
waste <i>n.</i>	वंजर, अपव्यय, क्षय, छीज
<i>vb.</i>	वर्वादि करना, अपव्यय करना
waste basket	रद्दी टोकरी
waste land	वंजर ज़मीन
waste paper	रद्दी कागज़
watch <i>n.</i>	पहरा
<i>vb.</i>	पहरा देना, निगरानी रखना

watch and ward	पहरा और निगरानी
watch and ward department	पहरा और निगरानी विभाग
watch and ward duty	पहरा और निगरानी का काम
watch and ward superintendent	पहरा और निगरानी अधीक्षक
watch and ward police	पहरा और निगरानी पुलिस
watch and ward staff	पहरा और निगरानी विभाग के कर्मचारी
watchful	चौकस, जागरूक
watchman	चौकीदार, पहरेदार
watchword	(i) पहरा-संकेत (ii) परिसिद्धान्त
water-locked land	पानी से घिरी हुई ज़मीन
water proof	जलरोक, वाटर प्रूफ
water rate	जलकर
waterways	जलमार्ग
waterworks	जल-प्रदाय घर
way	रास्ता, मार्ग, उपाय, प्रकार
by way of	के रूप में
in every way	हर प्रकार
way bill	रवन्ना
way bill book	रवन्ना पंजी
waylay <i>vb.</i>	राहज़नी करना, घात लगाना
ways and means	उपाय और साधन, अर्थोपाय
ways and means committee	उपाय और साधन समिति अर्थोपाय समिति
weak	(i) कमज़ोर, निर्बल (ii) मन्द
weak demand	कमज़ोर माँग, कम माँग
weak hearted	डरपोक
weak market	मन्द बाज़ार
weaken <i>vb.</i>	कमज़ोर बनाना, निर्बल करना
weakness	कमज़ोरी, निर्बलता
weal	कल्याण, समृद्धि
common weal	सार्वजनिक कल्याण, जनता की समृद्धि
weapon	हथियार
weapon training	हथियार चलाने का प्रशिक्षण
wear <i>vb.</i>	पहनना, घिसना, धकना
wear and tear	टूट-फूट
weariness	धकावट
weary	धका हुआ
weather	मौसम



weather report	मीसम की सूचना
weaving	बुनाई
weed <i>vb.</i>	छाँटना, छाँटाई करना
weeding list	छाँट-सूची
weekly	साप्ताहिक
weekly return	साप्ताहिक विवरण
weigh <i>vb.</i>	तोलना
weigh bridge	तोल-चौकी
weighment	तोल
weighment system	तोल-प्रणाली
weight	(i) भार, वजन (ii) वाट (iii) महत्व
weight limit	भार-सीमा, वजन की कैद
to give weight	महत्व देना
weights and measures	वाट और नाप
weightage	अधिभार
to give weightage	अधिभार देना
weightage in representation	प्रतिनिधित्व में अधिभार
weighty	भारी, महत्वपूर्ण
welcome <i>n.</i>	स्वागत
<i>vb.</i>	स्वागत करना
welcome address	अभिनन्दन पत्र
welfare	कल्याण, मंगल, हितैषिता
welfare inspector	कल्याण निरीक्षक
welfare organisation	कल्याण संगठन
welfare state	जनहितैषी राज्य
child welfare	शिशु कल्याण
child welfare centre	शिशु कल्याण केन्द्र
labour welfare	श्रमिक कल्याण
labour welfare officer	श्रमिक कल्याण अफसर
well-balanced	सुसंतुलित
well-being	भलाई
well-behaved	शिष्ट
well-defined	सुनिश्चित
well-meaning	नेकनीयत, सद्भावी
well-wisher	हितैषी, शुभचिन्तक

wet nurse	घाय, दूध पिलाने वाली दायी
wharf	माल उतारने का स्थान (घाट, प्लेटफार्म आदि,
wharfage	स्थान-शुल्क
whereabouts	पता, ठौर-ठिकाना
whim	मौज, वहम
whimsical	मौजी, वहमी
whip	सचेतक
white paper	स्वेतपत्र
whole hearted support	पूर्ण समर्थन
whole heartedly	खुले दिल से
wholesale	थोकविक्री, बड़े बँमाने पर
wholesale dealer	थोक व्यापारी
wholesale price	थोक मूल्य
wholesale trade	थोक व्यापार
wholesome	स्वास्थ्यकर
whole time ( <i>adj.</i> )	पूर्णकालिक
part time ( <i>adj.</i> )	अंशकालिक
whole time officer	पूर्णकालिक अफसर
whole time work	अंशकालिक काम
whole time worker	अंशकालिक कर्मी
wholly	सर्वथा
wholly imaginary	सर्वथा काल्पनिक
wide demand	व्यापक माँग
wield <i>vb.</i>	(i) सम्हालना (ii) (अधिकार) रखना
wield influence	प्रभाव रखना
wield power	शक्तिमान होना
wilful	स्वैच्छिक, जानबूझ कर
wilful absence from duty	ड्यूटी से जानबूझ कर गैरहाज़िर होना
wilful neglect	जानबूझकर की गयी लापरवाही
wilfully	जानबूझकर
will	(i) इच्छाशक्ति, संकल्प (ii) इच्छा-पत्र, वसीयत
good will	सद्भावना
ill-will	दुर्भावना
windfall	अप्रत्याशित लाभ
wind up <i>vb.</i>	समाप्त करना

compulsory winding up	अनिवार्य समापन
wireless <i>n.</i>	वेतार
<i>vb.</i>	वेतार से समाचार भेजना, वेतार करना
wireless apparatus	वेतार के औज़ार, वेतार के उपकरण
wireless operator	वेतार चालक
wireless telegraphy	वेतार टेलीग्राफी
wire puller	पड़यंत्री
wire pulling	पड़यंत्र
wish <i>n.</i>	इच्छा, अभिलाषा
<i>vb.</i>	इच्छा करना, अभिलाषा करना
wishful thinking	कोरी कल्पना
with effect from	से
with reference to	के संदर्भ में, के प्रसंग में
with regard to	के सम्बन्ध में
with retrospective effect	पहले से
withdraw <i>vb.</i>	वापस लेना, निकालना (as money from a bank)
withdrawal	वापस लेना, वापसी, निकासी
withdrawal form	निकासी फार्म
withdrawal of motion	प्रस्ताव वापस लेना
withhold <i>vb.</i>	रोक लेना, रोक रखना
withhold assent	सहमति रोक रखना
withheld	रोका हुआ
without fail	अवश्यमेव
without prejudice	प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
witness <i>n.</i>	(i) गवाही, साक्ष्य (ii) गवाह, साक्षी
<i>vb.</i>	गवाही देना, साक्ष्य देना
attesting witness	तस्दीकी गवाह
medical witness	डाक्टरी गवाह
eye witness	प्रत्यक्ष गवाह
word	शब्द
wording	शब्द-रचना, शब्द-योजना
wordy	शाब्दिक
work <i>n.</i>	काम, कार्य, कृति
<i>vb.</i>	काम करना
work day	कार्य-दिन
work house	मोहताज घर